

DURGA DAS MUNICIPAL LIBRARY
NAIMI TAL

दुर्गादास मुनीसिपास पुस्तकालय
नैमीताल



Class no. 821.5
Book no. 5937 R
Reg no. 4837

परिषद् ग्रन्थमालाका आठवाँ ग्रन्थ

रानी तिष्यरक्षिता

[ऐतिहासिक उपन्यास]

लेखक

सत्यदेव चतुर्वेदी

हिन्दी-साहित्य-सृजन-परिषद्

चौक , जौनपुर , उत्तरप्रदेश

प्रकाशक—

अध्यक्ष,

हिन्दी-साहित्य-सृजन-परिषद्

चौक, जौनपुर, उ० प्र०

Durga Sah Municipal Library,

NAINITAL

दुर्गासाह म्युनिसिपल लाईब्रेरी
नैनताल

Class No. ४९१.३

Book No. ३७३५६....

Received on .. June ६/६०

संस्करण—प्रथम जनवरी १९६० ई०

मूल्य—चार रुपए

४.००

4837

मुद्रक—

श्रीकाशीनाथ गुप्त,

श्रीसीताराम प्रेस, वाराणसी

पूर्व-पीठिका

‘रानी तिष्यरक्षिता’ मेरा ऐतिहासिक उपन्यास है जिसकी कथा अत्यन्त करुण है। ऐतिहासिक घटनाओंके अतिरिक्त इसमें कुछ काल्पनिक घटनाएँ भी आई हैं, जिनकी सृष्टि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनानेके कारण हुई है; अतः विज्ञ इतिहासज्ञोंसे इस सम्बन्धमें क्षमा-प्रार्थी हूँ।

महात्मा कुणालका चरित्र महान् है, यदि इस रचनामें पाठकोंको इसकी अनुभूति हुई, तो हमारा दृष्टिकोण सफल होगा।

पुस्तक प्रणयनमें ऐतिहासिक सामग्रीका जो अबलम्ब लिया गया है, अपनी भाषा और भावनाओंमें उसे व्यक्त करने पर भी पूर्ववर्ती अन्वेषकोंके प्रति हृदयमें कृतज्ञता प्रस्फुटित होनेका अनुभव कर रहा हूँ।

हिन्दी-साहित्य-संजन-परिषद्
चौक जौनपुर, उत्तर-प्रदेश }

—सत्यदेव चतुर्वेदी

कृतिके सम्बन्धमें

जिस समय श्रीचतुर्वेदीजीने 'रानी तिष्यरक्षिता'की पाण्डुलिपि मुझे दी कि पढ़कर मैं इस पर दो शब्दोंमें अपनी राय दूँ। मेरी धारणा यही थी कि थोड़े बहुत अन्तरसे यह भी उन्हीं कृतियोंमें से एक होगी, जिनकी बाजारमें भरमार है। दो-चार दिन अन्य कार्योंमें व्यस्त रहनेके कारण उधर ध्यान भी न दे सका। सोचा यत्र-तत्र कुछ पढ़कर चतुर्वेदीजीके संतोषार्थ थोड़ा-बहुत लिख दूँगा; परन्तु जिस समय पढ़नेका श्रीगणेश किया, मुझे अपनी धारणा बदलनी पड़ी। पुस्तकके पृष्ठोंके बीचसे श्रीसत्यदेवजीका उज्ज्वल भविष्य भाँकता दिखाई पड़ा। बिना एक भी पंक्ति छोड़े-प्रारम्भसे अन्त तक मैंने पुस्तक पढ़ डाली और अब निःसंकोच कह सकता हूँ कि अपने इस प्रयासमें ही लेखकने काफी मार्ग तय कर लिया है। रोचकता तथा धारा-प्रवाहिताका अभाव कहीं भी नहीं हो पाया है। प्रारम्भ करने पर बिना समाप्तिके पुस्तक छोड़ी नहीं जा सकती। ऐतिहासिक कथानक ऐसा लिया गया है, जिस पर अनेक लेखकोंकी लेखनी चल चुकी है, परन्तु चतुर्वेदीजीके कवि हृदयने उसे एक ऐसी वेष-भूषामें रखनेका सफल प्रयत्न किया है, जो पाठकको बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। उपन्यासमें अनेक हृदय-स्पर्शी स्थल ऐसे हैं, जो उसे सजीवता प्रदान कर देते हैं।

हाँ; चरित्र-चित्रणकी ओर लेखकने अभी पूर्ण ध्यान नहीं दिया है, जो खटकता है; परन्तु विश्वास है कि भविष्यमें जब लेखकका ध्यान चरित्र-चित्रण पर जायगा, तो वह उसमें भी सफल प्रयास होगा ।

भाषा-दृष्टिसे उपन्यास सुन्दर है । भाषामें शिथिलता कहीं नहीं आने पायी है । यत्र-तत्र मुहाविरोंके प्रयोगने भी इसका मूल्य बढ़ा दिया है ।

सभी बातोंको ध्यानमें रखते हुए निःसंकोच कहा जा सकता है कि पुस्तक हिन्दी-उपन्यास-साहित्यकी अच्छी पुस्तकोंमें रखी जा सकती है ।

प्रिन्सिपल—
राजा श्रीकृष्णदत्त डिग्री कालेज,
जौनपुर

}

—अखिलेशचन्द्र

शुद्धमर्षणा

श्रीबटेश्वरनाथ उपाध्याय

एवं

श्रीरामनिहोर चतुर्वेदी

को सादर सप्रेम ।

—सत्यदेव चतुर्वेदी

‘हाँ साम्राज्ञी ! मैं ही हूँ ।’ आम्रात्यश्रेष्ठ बोले ।

‘आम्रात्यश्रेष्ठ ! आप आए ? मेरी अब क्या सहायता कर सकेंगे ?’ चिन्तातुरा निराशा प्रकट करते हुए अग्रमहिषी असन्धिमित्रा ने रोगशय्या पर ही पड़े-पड़े अस्फुट वाणी में कहा ।

आम्रात्यश्रेष्ठको अपने समक्ष उपस्थित देख, अग्रमहिषीने उठकर बैठने का प्रयत्न किया, किन्तु वे उठ न सकीं । उनका शरीर सूख गया था, आकृति पीतवर्ण हो गयी थी, दिन-प्रतिदिन वे अस्वस्थ होती जा रही थीं । राज्यवैद्योंने स्वस्थ होने में बड़ी निराशा प्रकटकी थी । उनकी अवस्था क्षण-क्षण प्रतिदिन खराब होती जा रही थी । उनके कृश और शिथिल शरीरको सँभालते हुए आम्रात्यश्रेष्ठ बड़े दुःखी हुए । मौन भंग करते हुए, आम्रात्यश्रेष्ठ बड़ी विनम्र वाणीमें बोले—‘धीरज धरें अग्र-महिषी ! आपके स्वास्थ्यमें शीघ्र ही सुधार हो जायगा ।’

‘आम्रात्यश्रेष्ठ ! अब धीरजसे क्या होगा ? अब जीवनीशक्तिका हास हो चुका है, अब सब व्यर्थ है ।’ कहते हुए अग्रमहिषीने बड़े कष्ट-का अनुभव किया ।

महामात्यने कहा—‘अधिक बोलनेका प्रयत्न न करें देवि ! भिषग्-शिरोमणि वैद्यने मना किया है ।’

‘इतने दिनों तक जुप रहनेसे ही आज मुझे अपने प्राणोंसे हाथ धोने पड़ रहे हैं, महामात्य ! चिन्तामें गल-गलकर भी मैंने आज तक कभी मुँह नहीं खोला । आपका सम्बन्ध इस राज्यसे है और इसके संचा-

लनमें आपका महत्त्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए अब जीवनके अन्तिम क्षणोंमें ही सही अपनी व्यथाका रहस्य बता देना आवश्यक समझती हूँ । इस राज्यका अनिष्ट न हो, इसीलिए आपको मेरी व्यथाका और मेरे मरणका कारण जान लेना आवश्यक है ।' इधर-उधर दृष्टि दौड़ाकर अग्रमहिषीने परिचारिकाश्रीकी ओर देखा और वैद्यप्रवरकी ओर भी । वे पुनः बोलीं—

‘एकान्त चाहती हूँ, महामात्य ! एकान्त ।’

परिचारिकाएँ और वैद्यजी कक्षसे बाहर चले गए ।

विस्फारित नेत्रोंसे अग्रमहिषीने पुनः कक्ष देखा । वहाँ अकेले ही महामात्य मौन बैठे थे । साम्राज्ञी टूटते स्वरमें कह कर सुस्ता रहीं थीं ।

हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए आमात्यश्रेष्ठने बड़ी विनम्र वाणीमें कहा—‘आपको क्या कष्ट है अग्रमहिषी ? अवश्य ही श्रेष्ठ वैद्यों ने आपके रोगका ठीक-ठीक निदान करनेमें सफलता नहीं प्राप्तकी है । सर हिलाते हुए थोड़ा रुककर महामात्य पुनः बोले—‘यदि मानसिक कोई गुप्त वेदना न रही होती, तो अवश्य ही अब तक आप स्वस्थ हो गयी होती ।’

‘इसीलिए आपको बुलाया गया है । आपसे सब कुछ कह देना चाहती हूँ महामात्य ! सब कुछ । साम्राज्यका समग्र भार आप पर है, आप महामात्य हैं । मेरी सारी व्यथाका रहस्य सुनें । मेरी मृत्युके पश्चात् आप मेरी बातोंको ध्यानमें रखें, साम्राज्यका जिससे अहित न हो ।’ धीरे-धीरे सुस्ता-सुस्ताकर अग्रमहिषी असन्धिमित्राने कहा ।

‘मैं प्रतीक्षाकर रहा हूँ, आपके आदेशका साम्राज्ञी ! मैं बड़ा उत्सुक होकर आज्ञा सुननेके लिए तत्पर हूँ महारानी !’ महामात्यने सम्मान-प्रदर्शित करते हुए कहा ।

‘आप जानते होंगे, काफी समयमें मेरा स्वास्थ्य गिरते-गिरते इस अवस्था तक पहुँचा है ! क्या इसका रहस्य बता सकते हैं कि ऐसा क्यों

हुआ ?' साम्राज्ञीने कहा ।

'हाँ काफी समयसे श्रीमतीजीका स्वास्थ्य गिरता आ रहा है, मैं यह तो देख रहा हूँ, किन्तु कारण नहीं जानता ।'

'ओह ! क्या मेरे चिन्तामें धुल-धुलकर मिटनेका कारण नहीं जानते ? और नहीं जानते आप मेरे सुहागके लुटनेकी कसूर कथा ! ओह ! मेरे मानसिक सन्तापका आपको पता नहीं ।' गम्भीर बाणीमें बड़ी शिथिलताका अनुभव करते हुए अग्रमार्गहीने कहा ।

आँखें मस्तक पर चढ़ाते हुए महामात्यने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा—'देवि ! आपकी मानसिक अशान्तिका रहस्य सुननेकी मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है । मैं अवश्य सुनना चाहता हूँ वह कथा; जिससे आपकी दशा शोचनीय हो गयी है ।

'तो सुनो आम्रात्यश्रेष्ठ ! सुनो । मेरे मानसिक सन्तापका कारण है । प्रियदर्शी* सम्राट्का परिचारिका तिष्यरक्षितासे अनुचित सम्बन्ध ।'

महामात्य स्तब्ध रह गए । क्षणभर मौन रहकर उन्होंने कहा—'देवि; ऐसा गर्हित कार्य प्रियदर्शी सम्राट नहीं कर सकते । क्या आप स्वस्थ चिन्तसे ऐसा कह रही हैं ? मुझे तो जान पड़ता है कि आपको भ्रम होगया है ।'

'भ्रम नहीं आम्रात्यश्रेष्ठ ! मैंने भी यही सोचा था कि सहसा इस बातपर कोई विश्वास नहीं करेगा । एक तो सम्राट वृद्ध हैं, दूसरे उनकी उज्वल कीर्ति है, भला उनके इस घृणित कार्य पर कौन विश्वासकर सकता है ?' ऐसा कह थकानका अनुभव करती हुई दीवालमें दृष्टि गड़ाए साम्राज्ञी सुस्ताने लगीं ।

मौन होकर उनकी ओर महामात्य देखते रहे ।

* प्रियदर्शी ('पियदसी') सम्राट अशोकका नाम था देखिए 'बौद्ध-पुस्तक (पु० ८२) श्रीगुलाबराय एम० ए० कृत ।

साहस एकत्र कर अग्रमहिषी बोलीं—‘आमात्यश्रेष्ठ ! सब कुछ मैंने अपने नेत्रोंसे देखा था । मेरे नेत्र मुझे धोखा नहीं दे सकते । यह भ्रमकी बात नहीं, घटना मेरी आंखोंके सामनेकी है ।’

महामात्य मौन थे । साम्राज्ञी ने पुनः कहा—‘आज तक मैंने किसीसे उस दिनकी और अनेक दिनोंकी घटनाओंका कथन नहीं किया है । यह एक बारकी घटना नहीं, अनेक बारकी है । तभी तो चिन्तामें गली जा रही हूँ । उसी दिनसे मेरी भूख-प्यास और नींद सब कुछ मुझसे दूर हो गयी है । मेरा तन सूखकर काँटा हो गया है ।’ असन्धिमित्राकी ध्वनिमें उग्रता थी । थोड़ी ही देरमें वे बोलते-बोलते मूर्च्छित हो गयीं, वे तीव्र शोक-वेगसे आहत हो गयी थीं । अचेत होकर उन्होंने नेत्र बन्द कर लिया ।

आमात्यश्रेष्ठ चुपचाप सुनते रहे, किन्तु साम्राज्ञीको चेतनाहीन होते देख घबरा गए । सेविकाएँ दौड़ीं, वैद्यवर आ पहुँचे । साम्राज्ञीकी चेतना पुनः न लौटी ।

दूसरे दिन साम्राज्ञीकी दशा और खराब हो गयी । राज्य परिवारमें भी चिन्ता व्याप्त हो गयी । सम्राटके समक्ष महामात्य उपस्थित हुए । उन्होंने सम्राटको अभिवादन किया ।

प्रियदर्शी सम्राट अशोक बोले—‘महामात्य !’

‘आज्ञा समाटदेव ।’

‘क्या अग्रमहिषी अब स्वस्थ नहीं हो सकतीं ? दो वर्षसे वे रोगग्रस्त हैं, उपचार हो रहा है; किन्तु उनकी हालत खराब होती जा रही है । अब क्या होगा ।’ घबराकर सम्राटने नेत्रोंमें आँसू भरकर पूछा ।

नीचे टप्टि किए हुए महामात्य मौन थे ।

‘बोलिए आमात्यश्रेष्ठ !’

‘महाराज ! अग्रमहिषी सुवराज कुणालको बहुत मानती हैं । कोई उनके प्रति किए गए व्यवहारोंको देखकर नहीं कह सकता कि वे अग्रमहिषी असन्धिमित्राके गर्भसे नहीं पैदा हुए हैं, वे स्वर्गीया अग्रमहिषी

पद्मावतीके गर्भसे पैदा हुए हैं। अतः आज्ञा हो, तो इस समय उनके पास उज्जयिनी अग्रमहिषीकी अस्वस्थयताका समाचार भेज दिया जाय।'

अग्रमहिषी असन्धिमित्राकी सेवामें तत्पर एक परिचारिकाने आकर अभिवादन किया और आज्ञा पाकर कहा—'श्रीमन्त सम्राटदेव ! साप्राज्ञीकी दृष्टि घूमने लगी है। उनकी दशा बहुत खराब हो चली है।'

महामात्य और सम्राट अशोक धवराकर अग्रमहिषीके समीप जा पहुँचे। अग्रमहिषीके प्राण-पखेरू उड़ गए थे।

राज्यभवनमें शोक छा गया। सबकी आँखोंसे आँसू गिर रहे थे। उसी दिन उज्जयिनीप्रदेशके उपप्रजापति एवं युवराज—कुणाल (जो अपनी पत्नी कांचनमाला और पुत्र सम्प्रतिके साथ उज्जैन रहते थे) के पास यह अप्रिय समाचार भेजने दूत भेजा गया।

युवराज कुणाल प्रियदर्शी सम्राट अशोकवर्द्धनके पुत्र थे, जो राजमाता पद्मावतीके गर्भसे पैदा हुए थे। पद्मावतीके देहान्त हो जाने पर अग्रमहिषी असन्धिमित्राने पाल-पोषकर कुणालको बड़ा किया था, जिससे वे कुणाल पर बड़ी ममता रखती थीं।

युवराज कुणाल बड़े लोक-प्रिय शासक थे। वे समय निकालकर प्रजाके दुःख-सुखका तथा अधिकारियोंके कार्योंका स्वयं निरीक्षण किया करते थे। उज्जयिनी-निवासी योग्य शासक पाकर हर्षका अनुभव करने लगे थे। सारी प्रजाका प्रेम कुणाल पर था।

युवराज बाहर गए थे। सम्प्रतिके साथ कांचनमाला अपने प्रकोष्ठमें बैठी थी। वह उसकी बालक्रीड़ा में मुग्ध थी।

राजभवनके प्रमुख द्वार पर धर्म विवर्द्धन युवराजका रथ आ पहुँचा। अभिवादनकर प्रतिहारोंने फाटक खोल दिया। युवराज रथ लेकर भीतर प्रविष्ट हुए।

रथके घोड़ोंकी टाँपें सुन कांचनमालाने प्रकोष्ठसे उद्यानमें दृष्टिपात किया। सम्प्रति भी उधर देखने लगा और युवराज कुणालको देख;

बोला—‘पिताजी आ गए ।’

कांचनमाला मुस्करा उठी । सम्प्रति प्रसन्नतामें उछलने लगा । रथसे उतर कुणाल प्रकोष्ठकी ओर चले । उन्हें सामने आता देख कांचनमालाकी दृष्टि उनके उन्नत ललाट और अपूर्व सौन्दर्य पर जा पड़ी । दिन भरके थके होने पर भी कुणालके चेहरे पर उस्फुल्लता भलक रही थी, थकानका नाम न था । वृषभ-स्कंध युवराज रथसे उतर तीव्रगतिसे चलकर प्रकोष्ठके द्वार पर पहुँचे । श्रुधुर दमार्णतीमें ‘पिताजी आ गए’, ‘पिताजी आ गए ।’ कहता हुआ सम्प्रति दौड़कर कुणालके पास पहुँचा । उसे गोदमें युवराजने उठा लिया । युवराजके पीछे-पीछे संतरी आ रहा था । उसने परदा हाथसे उठाया, सम्प्रतिके साथ युवराज कक्षमें प्रवृष्ट हुए । सामने मुस्कराती कांचन खड़ी थी । मधुरवाणीमें वह बोली—‘आ गए देव !’

‘हाँ देवि शुचिस्मिते ! मैं आ गया ।’

‘इस बार देव शीघ्र ही निरीक्षण कार्य समाप्त कर आए !’

‘हाँ शुभदर्शने ! प्रजा सुखी है । बौद्ध-धर्मका हृदयसे वह स्वागत करती है । बौद्ध-धर्मके प्रभावसे प्रजा और अधिकारियोंका हृदय पवित्र हो गया है । सभी सदाचरणमें स्थित हैं ।’

‘सम्प्रति कहता था—मैं भी पिताजीके साथ इस बार चलूँगा ।’
मुस्कराकर कांचन बोली ।

‘क्यों तू भी चलेगा हमारे साथ सम्प्रति ?’ बोले मुस्कराकर युवराज कुणाल ।

सम्प्रति चुप था, देख रहा था—कभी कांचनकी ओर तथा कभी युवराज कुणाल को ।

कांचन बोली—‘देव ! बौद्ध-धर्मका इधर कैसा प्रचार हो रहा है ? उस वर्ष चयन, ज्ञापान, रौष, यरिपु और आग्नि आदि देशोंके बौद्ध विद्वान् तथा तक्षशिला, काश्मीर, वाराणसी, सिंहल, विदर्भ और कलिंग आदि प्रदेशोंके भारतीय भिक्षुओं और आचार्योंके बड़े ही प्रभावशाली

भाषण हुए थे। उस महासभासे प्रेरणा ग्रहणकर देश-विदेशमें धर्म प्रचारके लिए दूत भेजे गए हैं। बौद्ध-धर्मकी उन्नतिके लिए अपने-अपने दृष्टिकोणोंसे सभी प्रचार-कार्य कर रहे हैं। प्रियदर्शी महाराज सम्राट को यहाँका धर्म प्रचार-कार्य सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी। जब महाराजकी पता चलेगी कि इस बर्बर प्रान्तमें भी राजा-प्रजामें पिता-पुत्रका संबन्ध स्थापित हो गया है। धर्म राज्यमें हिंसाको स्थान नहीं मिल रहा है, प्रेमके बल पर प्रजाका हृदय जीत लिया गया है, शिक्षा तथा न्यायका समुचित प्रबन्ध है, श्रद्धा और विश्वासके पवित्र वातावरणमें रामराज्यका अनुभव होने लगा है। ऊँच-नीचका भेदभाव मिट गया है, किसीकी उपेक्षा नहीं की जा रही है। धार्मिक पाषण्ड मिट गए हैं, सत्य और अहिंसाके प्रतीक महाप्राज्ञ बुद्धके पवित्र नाम—गौतम, अमिताभ, महाश्रमण, सारिपुत्र, तथागत और सुगत स्मरण करते हुए सभी आकाँक्षा करते हैं कि 'देवानां प्रियदर्शी सम्राट अशोककी जय हो, धर्म-विवर्द्धन युवराज कुशालकी जय हो।' तब महाराजकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहेगा।'

प्रतिहारिने प्रकोष्ठमें काँचन और सम्प्रतिके साथ बैठे हुए युवराजको अभिवादन किया और हाथ जोड़कर कहा—'राजनगर पाटलिपुत्रसे प्रियदर्शी सम्राटदेवका सन्देश लेकर एक दूत खड़ा है, वह युवराजदेवसे मिलना चाहता है।'

'उसे भेजो।'

प्रतिहारी मस्तक नवा बाहर आया।

सन्देश-पायक युवराज और युवराजकी सम्मान प्रदर्शित करते हुए अभिवादन किया।

युवराज—'क्या सन्देश लाये हो तुम?'

'युवराजदेव ! यह लीजिये, समाचार निवेदित है।'

भोजपत्र पर लिखा हुआ पत्र हाथमें थामकर युवराज पढ़ने लगे।

उनकी आकृति मलिन पड़ने लगी । उनके नेत्रोंमें आँसू भर आए । उनकी घबराहट देखकर कांचनने पत्र ले लिया और वह पढ़ने लगी । पत्रमें लिखा था—‘उज्जयिनीके उपप्रजापति युवराज कुणालको सम्राट् अशोकका आशीर्वाद । आगे विदित हो कि अग्रमहिषी असन्धिमित्राका देहान्त कल हो गया । तुम्हारा पाटलिपुत्र आना आवश्यक है ।’ कांचन भी रो पड़ी । दोनोंका रोना सुन सम्प्रति घबरा गया ।

युवराज बोले—‘प्रिये ! सच पूछो तो मेरी माताका आज ही देहान्त हुआ है । माता पद्मावतीको तो मैं भूल गया था और मुझे असंधिमित्राने ही पाला था । पर हाय ! मरते समय मैं वहाँ पहुँच नहीं सका; पता नहीं, वे मुझे क्या कहतीं । मैंने उनकी एक दिन भी सेवा नहीं की । यह है क्षणभंगुर शरीर ! मैंने नहीं समझा था, इस प्रकार अचानक माता असंधिमित्राका देहान्त हो जायगा ।’

गम्भीर युवराज कुणालको इस अशुभ संदेशने विचलित कर दिया ! उनके चेहरे पर शोक छा गया ।

युवराजने संदेश-वाहकसे पूछा—‘माताजीके अचानक मृत्युका कारण क्या है ?’

‘अचानक नहीं देव ! वे काफी समयसे बीमार थीं, बहुत ही दुर्बल होकर मरी हैं ।’ कहते हुए संदेश-पायकने एक दूसरा पत्र देते हुए पुनः कहा—‘महाराज ! यह गुप्तपत्र आपको आमात्यश्रेष्ठने दिया है ।’

आश्चर्य प्रकट करते हुए युवराजने पत्र ले लिया और घबराहटके साथ उसे पढ़ने लगे । लिखा था—

‘युवराज कुणालके चरणोंमें आमात्यश्रेष्ठका प्रणाम । अग्रमहिषीके मरणका कारण है—परिचारिकाश्रेष्ठी तिष्यरक्षिताके प्रेममें सम्राट् देवका अत्यन्त आसक्त हो जाना । अग्रमहिषीने मरनेके पहले ही मुझे बुलाकर यह सब कहा था । इसी चिन्तामें दग्ध हो-होकर उन्होंने अपना प्राण त्याग किया है । अग्रमहिषीका स्वास्थ्य सुधारनेके लिए जितने भी प्रयत्न

किए गए, वे सब निष्फल हो गए। अग्रमहिषीने अपना प्राण त्याग दिया, किन्तु सम्राटकी मर्यादाको विकृत नहीं होने दिया। उनकी मृत्युके इस कारणको मुझे छोड़ और कोई नहीं जानता। मैंने यह गुप्तपत्र आपकी सेवामें इसलिए भेज देना आवश्यक समझा, जिससे तिष्यरक्षितासे आप सतर्क रहें।'



२

कुछ समय बीत गए। तिष्यरक्षिताके अनुपम सौन्दर्यने सम्राटके हृदयसे अग्रमहिषी असंघिमित्राकी स्मृतिको निकाल बाहर किया। सम्राट अशोककी इस समय पचास वर्षके ऊपर अवस्था हो चुकी थी, किन्तु अनुपम सुन्दरी परिचारिकाश्रेष्ठी तिष्यरक्षिताके उभरते हुए यौवन, उसके विशाल विस्फारित मादक नेत्रों, नितम्ब तक मणिसुक्ता-लसित लहराती हुई बेणी, उसके सुन्दर सुकोमल गलेमें पड़ा हुआ अमूल्य हीरक हार, कपोल और अघरोंकी रक्तिम रमणीयता, गोली-गोली भुजाएँ और हाथीके सूँड़की तरह सुन्दर और पुष्ट जाँघों और उस सर्वांग सुन्दरीके अत्यन्त आकर्षक वस्त्राभूषणोंने धर्मविवर्द्धन जितेन्द्रिय सम्राट अशोकको विचलित कर दिया। वे उसके रूप और यौवन पर आकृष्ट हो गए थे या यों कहा जाना अच्छा पड़ेगा कि उस अनुपम सुन्दरीने सम्राटके हृदयको मथकर नयी जवानीको उभार दिया था।

परिचारिका तिष्यरक्षिताको सम्राटके वैभवकी भूल थी और सम्राटको उसके अभूतपूर्व लावण्यसे प्रस्फुटित प्रेमकी आकांक्षा; क्योंकि सम्राट हृदयमें प्रबलवेगसे उभरी हुई वासनाको दमन करनेमें असमर्थ थे; उनके हृदयमें वासना-जनित जो यौवन-ज्वरका उभार था, उसकी एकमात्र

औषधि थी तिष्यरक्षिता ! तभी तो वे तिष्यरक्षिता पर अपना सर्वस्व निछावरकर देने पर प्रस्तुत थे । राजकाजमें मन वे न लगा पाते थे । उनका मन, उनकी दृष्टि, तिष्यरक्षिता पर ही केन्द्रित है । अपने अन्तः-पुरमें स्वर्ण पलंग पर सम्राट पड़े हैं, सामने तिष्यरक्षिता कभी दो चरण शीघ्रतासे रखकर और कभी मन्दगतिसे चलकर, शृङ्गारिक वेशमें नूपुरोंकी मधुर झंकार और पायजेवकी ध्वनियोंको, अनुरणित करती हुई लुद्र-घण्टिकासे लसित कटिप्रदेशको कुछ तिरछा किए, सम्राटको विशेष अपनी ओर आकृष्ट करते हुए अँगड़ाई लेती, चली आ रही थी । उसके अरुण कपोलों पर मधुर सौम्यता, ओठों पर मीठी मुस्कान देख और विशाल नेत्रोंकी विशेष चितवनसे सम्राट आशोक उसके वक्षःस्थलकी ओर निहारते हुए काम-वासनासे अस्थिर पीड़ित हो, उठकर बैठ गए । हाथ में जलपात्र लेकर तिष्यरक्षिता सम्राटके समक्ष खड़ी हो गयी । सम्राटने उससे कहा—‘जलपात्र दीपदानके पास रख दो और इधर आ जाओ ।’

तिष्यरक्षिताके ओठों पर विशेष प्रकारकी मुस्कान छा गई, उस समय उसने अपनी नयन प्रत्यंचासे कटाक्षका एक-एक वाण छोड़कर सम्राटको आहूत कर दिया । जलपात्र रखकर वह सम्राटके पास आ खड़ी हुई । सम्राट उठकर उसे अपने बाहुपाशमें एक बार कसकर फिर बोले—‘देवी !’

तिष्यरक्षिताने कहा—‘एक लुद्र दासीका इतना आदर न करें शो सम्राटदेव ! वह इस सम्मानकी अधिकारिणी नहीं ।’

‘तुम दासी ? दासी नहीं हो तिष्ये ! तुम मेरा प्राण हो, हृदयेश्वरी हो प्राणवल्लभे !’

‘एक परिचारिकाके साथ आपका यह सम्बन्ध प्रजा-परिपदको सख्त न होगा सम्राटदेव !’

‘तिष्ये ! इसकी चिन्ता न करो, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हें राजमहिषीका पद प्रदान करना चाहता हूँ । सारा राज्य, सारा वैभव तुम्हें सौंपकर और स्वयं मैं भी तुम्हारे अधीन हो जाना चाहता हूँ ।’

यही तो तिष्यरक्षिता चाहती थी, इसी लोभसे उसने अपना यौवन एक वृद्धको सौंप देना चाहा था। श्रवसर समझकर उसने कहा—‘यह क्या सुन रही हूँ, सम्राटदेव ! क्या ये स्वप्न की बातें तो नहीं हैं ?’

‘स्वप्न ? नहीं भद्रे ! यह निश्चय ही होगा। पहले तुमने त्याग किया है, मुझे उस त्यागका मूल्य चुकाना ही है। मुझ वृद्ध पर तुमने अपना यौवन उत्सर्ग कर दिया है !’

दृष्टि नीचे किए हुए, तिष्यरक्षिता अत्यन्त प्रसन्न थी और अधरों पर मन्द-मन्द मुस्कान दिखाई पड़ रही थी। सच तो यह था कि सम्राटके प्रति उसके हृदयमें कुछ भी प्रेम न था। उसने अपना यौवन वृद्ध सम्राटको इसलिए समर्पित कर दिया था, जिससे राजमहिषी बननेकी आकांक्षा उसकी पूर्ण हो।

तिष्यरक्षितामें जितना ही वाह्य आकर्षण था, उतना ही उसका अन्तःकरण क्लृप्त था, वह निम्नवर्गकी नारी थी।

सम्राट बोले—‘तुम्हें ! तुम्हें मैंने कभी कुछ माँगते हुए नहीं देखा। तुम्हें जो कुछ भी आवश्यकता हो माँग लिया करो।’

‘यों तो इस समय कुछ नहीं चाहिए, किन्तु सम्राटदेवकी यदि कुछ देनेकी ही कृपा है तो माँगती हूँ।’

‘आज्ञा करो भद्रे !’

‘आज्ञा नहीं, प्रार्थना कहिए। मैं सम्राटदेवसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अपनी कृपाकी अधिकारिणी समझते रहें।’ बहुत ही धीमे स्वरमें वह बोली।

‘यह तो मैं पहले ही कह चुका हूँ तिष्यरक्षिता ! मेरा सब कुछ तुम्हारा है।’

पहले तिष्यरक्षिता परिचारिकाश्रेणी थी, किन्तु जन्मसे सम्राटकी उस पर आसक्ति हुई, तभीसे राज-भवनमें उसका विशेष आदर होने लगा। राज-भवनके अतिरिक्त सम्राट और तिष्यरक्षिताका सम्बन्ध प्रजामें भी

प्रसार पाने लगा । सम्राट इस समय तिष्यरक्षिताके साथ विलासतामें डूबे थे, आम्रात्यश्रेष्ठको छोड़कर अन्य कोई राजकीय पुरुष उनसे नहीं मिल सकता था ।

कार्य-विशेषसे आम्रात्यश्रेष्ठ वहाँ आ पहुँचे । सशस्त्र प्रहरी द्वार पर उन्हें अभिवादनकर सतर्कतासे दोनों ओर खड़े हो गए ।

थोड़ी देर पश्चात् आम्रात्यश्रेष्ठ बोले—‘अन्तःपुरके द्वार पर सूचना दो कि द्वार पर आम्रात्यश्रेष्ठ पधारे हैं, जो इसी समय सम्राटदेवसे मिलना चाहते हैं ।’

एक सन्तरी भीतरी प्रकोष्ठके द्वार पर परिचारिकासे जाकर बोला—‘सम्राटदेवको अवगत करो कि आम्रात्यश्रेष्ठ इसी समय विशेष कार्यसे मिलना चाहते हैं ।’

सन्तरी लौट आया और ससम्मान कहने लगा—‘आम्रात्यश्रेष्ठ ! आप अन्तर्द्वार पर पधारे देव !’

अनेक विशाल द्वारोंको पार करते हुए अन्तःद्वार पर आम्रात्यश्रेष्ठ आ पहुँचे । परिचारिकाओंने सम्मान प्रदर्शित करते हुए उनको अभिवादन किया ।

आम्रात्यश्रेष्ठ बोले—‘सम्राटदेवसे मेरे आनेकी सूचना दो और कहो कि मैं उनसे इसी समय मिलना चाहता हूँ ।’

अपने भीतर प्रविष्ट होनेका संकेत करते हुए थोड़ा रुककर परिचारिकाने अन्तःपुरमें प्रवेश किया और ईधर द्वार पर गम्भीर मुद्रामें आम्रात्यश्रेष्ठ खड़े थे । तिष्यरक्षिता सम्राटसे अलग हट गई ।

परिचारिकाने अन्तःपुरसे लौटकर आम्रात्यश्रेष्ठके समक्ष मस्तक नवाकर कहा—‘देवी तिष्यरक्षिताकी आज्ञा है कि इस समय सम्राटदेवसे कोई भी नहीं मिल सकता ।’

आम्रात्यश्रेष्ठ सुनकर लुब्ध हो उठे और बोले—‘देवी तिष्यरक्षिता मत कहो । परिचारिकाश्रेष्ठी तिष्यरक्षिता कहो ।’

परिचारिकाने नतमस्तक होकर कहा—‘जो आज्ञा देव !’

‘परिचारिकाश्रेष्ठी आम्रात्यश्रेष्ठको आज्ञा दे सकती है ?’ मस्तक पर आँखें चढ़ाकर परिचारिकाकी ओर देखते हुए आम्रात्यश्रेष्ठ रुष्ट होकर बोले ।

परिचारिका घबरा गई । हाथ जोड़े हुए नतमस्तक हो वह आम्रात्य-श्रेष्ठके समक्ष मौन खड़ी थी ।

बोले आम्रात्यश्रेष्ठ—‘सम्राटदेव प्रकोष्ठमें हैं ?’

‘हाँ श्रीमन्त !’ ससम्मान बोली परिचारिका ।

‘मेरे आगमनको सूचना उन्हें मिली ?’

‘हाँ देव !’

‘उन्होंने कुछ कहा नहीं ?’

‘वही जो देवी तिष्य भूल हो गयी देव !’ दाँतोंसे जिह्वा द्वाबकर, परिचारिका गलती पर पाश्चात्ताप करते हुए सँभलकर फिर बोली—‘परिचारिकाश्रेष्ठी तिष्यरक्षिताने जो कहा श्रीमन्त !’

आम्रात्यश्रेष्ठ क्रोधसे पागल हो उठे और अपनी उँगुलीसे रत्नजटित हीरक मुद्रिका निकालकर उन्होंने परिचारिकाको दिया और कहा—‘इसे सम्राटदेवके समक्ष उपस्थित करो ।’

परिचारिका अपने अन्तःपुर-प्रवेशका संकेत कर भीतर चली गयी और द्वार पर प्रतीक्षा करते हुए आम्रात्यश्रेष्ठ खड़े थे ।

सम्राट और तिष्यरक्षिता सजग हो गए थे । परिचारिकाने नतमस्तक होकर अभिवादन किया और उस हीरक मुद्रिकाको, जो विशेष प्रयोजनके सन्देशका परिचायक थी, सम्राटके समक्ष रख दिया ।

‘यह क्या है देव ?’ तिष्यरक्षिताने पूछा ।

‘आम्रात्यश्रेष्ठ किसी आवश्यक कार्यसे पधारे हैं ।’

‘उन्हें आज्ञा दें, इस समय वे नहीं मिल सकते ।’

‘ऐसा नहीं हो सकता भद्रे !’ यह मुद्रिका अत्यन्त आवश्यक कार्यका प्रतीक है ।’

तिष्यरक्षिता आम्रात्यश्रेष्ठ पर क्रुद्ध हो उठी, क्योंकि वह उसी समय सम्राटदेवको वशीभूतकर वरदान ले लेना चाहती थी ।

परिचारिकाको सम्राटने आज्ञा दी—‘बुलाओ आम्रात्यश्रेष्ठको ।’ आम्रात्यश्रेष्ठको सूचना देने परिचारिका लौट गयी । तिष्यरक्षितासे सम्राट बोले—‘भद्रे ! तुम बगलके कक्षमें शीघ्र जाकर विश्राम करो । इस समय आम्रात्यश्रेष्ठ आ रहे हैं ।’

तिष्यरक्षिता सम्राटको अभिवादन कर दूसरे कक्षमें चली गयी । सम्राट आम्रात्यश्रेष्ठकी प्रतीक्षा करने लगे । आम्रात्यश्रेष्ठने सम्राटके कक्षमें प्रवेश किया और सम्मान प्रदर्शित करते हुए अभिवादन किया । माणिक मरकतमय आसन पर बैठनेका संकेत करते हुए सम्राटने कहा—‘कहो आम्रात्यश्रेष्ठ !’

आम्रात्यश्रेष्ठने आजानुसुज, उन्नत ललाट, विशालनेत्र सम्राट अशोक की ओर निहारा । आम्रात्यश्रेष्ठका मुखमण्डल कुछ म्लान था । उन्होंने अपने बहुत बड़े अपमानका अनुभव किया था । जिससे वे चंचल हो उठे थे, उन्होंने कहा—‘सम्राटदेव !’

सम्राट उनकी ओर देखने लगे ।

‘मेरा अपमान परिचारिकाश्रेष्ठी तिष्यरक्षिताने किया है । एक परिचारिका मुझे आज्ञा दे ?’ भौंहेँ मस्तक पर चढ़ाकर आम्रात्यश्रेष्ठ बोले । उनकी वाणीमें कुछ तीव्रता थी और ग्लानि भी ।

सम्राट मौन थे । आम्रात्यश्रेष्ठ पुनः बोले—‘मेरी इतनी अवस्था बीत गयी, किन्तु इतना बड़ा अपमान मेरा नहीं हुआ कभी । यह सहन नहीं हो सकता सम्राटदेव !’

सम्राट कुछ न बोले ।

‘बोलिए सम्राट ! यदि मुझे अपमानित देखना चाहते हों, तो मैं

राजकार्यसे अलग हो सकता हूँ, किन्तु ऐसा अपमान कदापि सहन न होगा ।' कहते हुए आमात्यश्रेष्ठका आत्मगौरव जागृत हो उठा, आमात्य-श्रेष्ठ कुछ उत्तेजनमें आ गए थे ।

सम्राट मौन थे, गम्भीर थे और कुछ सोचने लगे थे ।

आमात्यश्रेष्ठने देखा; उनकी कटु वाणीने सम्राटको प्रभावित कर दिया है और वे स्वयं सोचने लगे—मुझसे कुछ ज्यादाती हो गयी है । मैंने स्वयं उत्तेजनमें आकर सम्राटदेवकी मर्यादाका ध्यान नहीं रखा । स्वयं सम्राटदेवका अपमानकर वही अपराध किया है, जो तिष्यरक्षिताने हमारे साथ किया था ।

आमात्यश्रेष्ठ मौन हो पश्चात्ताप करने लगे । सम्राटने मौन भंग किया, बोले—'त्रुटि हो गई आमात्यश्रेष्ठ ! क्षमा करें वृद्धवर !'

आमात्यश्रेष्ठका ज्योम दूर हो गया था, उन्होंने मस्तक नवाकर सम्राटसे कहा—'मेरे वचनोंमें जो आपने कटुताका अनुभव किया हो, उसे क्षमा करें देव ! उत्तेजनमें आकर उचित-अनुचितकी मर्यादाका ध्यान नहीं रह गया था । परिचारिकाश्रेष्ठी तिष्यरक्षिताकी वाणीने मेरे संयत मनको उद्वेलित कर दिया था, मौर्यशिरोमणि ?'

मुस्कराते हुए सम्राटने कहा—'हीरक मुद्रिकाका संकेत तिष्यरक्षिताके द्वारा अपमानित होनेके कथनका ही द्योतक है आमात्यश्रेष्ठ ?'

नहीं देव ! कुछ दूसरा ही संदेश निवेदन करने आया हूँ ।'

'तो कहिये उसे । तिष्यरक्षिताके कथनपर विचार करूँगा ।' बोले सम्राट ।

मन्त्रिवरने कहा—'सम्राटदेवके आचरणके विरुद्ध प्रजा-परिषदने सम्राट और तिष्यरक्षिताके अत्यधिक सम्पर्कके कारण प्रस्ताव उपस्थित किया है । प्रजा-परिषद कहती है इस अवस्थामें भी एक नवयुवतीके प्रेममें विभोर, विषय-वासनामें आचूड़मग्न सम्राट को क्या अधिकार है, जो वे अपनी प्रजाको धर्म-पालनका सर्वदा आदेश देते रहते हैं ? वे

पहले स्वयं धर्मका आचरण करें, तब औरोंको आदेश दे सकते हैं।'

मौनावलम्बनपूर्वक सम्राट सुनते रहे।

आमात्यश्रेष्ठ फिर बोले—'प्रजा-परिषदके हृदयमें सम्राटदेवके प्रति जो आस्था थी, वह जाती रही। उसकी दृष्टिमें सम्राटदेवका आचरण दोषग्रस्त हो गया है।

सम्राट कुछ चिन्तित हो गए। सोचने लगे आमात्यश्रेष्ठ ठीक कहते हैं। मेरे आचरणमें त्रुटि अवश्य आ गयी है। क्या तिष्यरक्षिताको अलग किया जा सकता है? सिर हिलाते हुए सम्राटने दृढ़तासे निश्चय किया—'नहीं। कहीं शरीरसे प्राण अलग ही जाने पर चेतना रह सकती है! तिष्यरक्षितासे अपनेको अलग रखकर मैं तड़प-तड़पकर मर जाऊँगा किसी तरह वह मुझसे अलग नहीं की जा सकती। हमारा उसका अविचल प्रेम है। अभी उसे राजमहिषी बनानेका मैंने वचन दिया है। मेरे असंगत जीवनका आंधार अब तिष्यरक्षिता ही है। तिष्यरक्षितासे रहित नीरस जीवन लेकर क्या करूँगा?—सोच रहे थे सम्राटदेव।

'और प्रजा परिषदकी यह घृणा-भावना जो सम्राटदेवके प्रति उत्पन्न हो गयी है, वह कभी मौर्य साम्राज्यके लिए अहितकर हो सकती है सम्राटदेव!' कहा मंत्रिप्रवरने।

सम्राट सोचते रहे—तिष्यरक्षिता, तिष्यरक्षिता! तिष्यरक्षिता अलग नहीं की जा सकती। मैं इसका मोह त्यागनेमें असमर्थ हूँ। यह मेरे रग-रगमें व्याप्त हो गई है। भला मैं इसे कैसे त्याग दूँगा? यद्यपि तिष्यरक्षिता वहाँ समस्त नहीं थी, किन्तु उसकी मादक प्रतिमा सम्राटदेवकी दृष्टिमें समा गई थी। उसके अलग हो जानेकी कल्पनासे सम्राट व्याकुल हो गये। उन्हें मर्यादाका ध्यान न रहा और वे बोल उठे—'नहीं मंत्रिप्रवर! बृद्धवर!! तिष्यरक्षिताको हमसे अलग करनेकी बात न सोचिए। उसका त्याग करनेमें मैं अपनेको सर्वथा असमर्थ पा रहा हूँ। किसी भी दशामें वह मुझसे अलग नहीं की जा सकती। मेरा दृढ़ निश्चय है।'

आमात्यश्रेष्ठ आश्चर्यचकित थे, मौन थे ।

सम्राट फिर बोले—‘प्रजा-परिषदकी घृणाका तो आप निवारणकर हां देंगे आमात्यश्रेष्ठ ! मैं पागल हो जाऊँगा । मेरे ऊपर कृपा कीजिए । मेरी दुर्बलता देखकर । आपसे कभी कोई बात छिपा नहीं रखी है मैंने । तिष्यरक्षिताको मुझसे अलग करनेको न कहिए । वहीं मेरा प्राण है, वहीं वही जोवनाधार हृदयेश्वरी.....। हृदय निर्बल है । त्याग नहीं हो सकता उसका । हाँ, उसके द्वारा जो आपका अपमान हुआ है, मेरी ओरसे उसे सहनकर क्षमा प्रदान करें । वह आपकी महिमा नहीं जान सकी थी । मैं समझा दूँगा ।’ फिर बोले सम्राट ।

आमात्यश्रेष्ठने अपना अपमान विस्मृत कर दिया । वे प्रसन्न हो उठे, सम्राटदेवकी कोमल वाणीसे । वे दयाद्रुं हो उठे बोले—‘तो आज्ञा दें, सम्राटदेव !’

‘हाँ, तो आप इस सम्बन्धमें अपना निश्चय बतावें ।’ सम्राटने कहा ।

‘जो आज्ञा देव !’

‘अपना कर्तव्य निश्चित कीजिए । मैं तिष्यरक्षिताका त्याग नहीं कर सकता और प्रजा परिषदका विचार बदलना होगा । इस सम्बन्धमें आमात्यश्रेष्ठ !’

आमात्यश्रेष्ठ बोले—‘यदि सम्राटदेव तिष्यरक्षिताका त्याग करनेमें असमर्थ हैं, तो उसे शीघ्र ही राजमहिषीका पद प्रदान करें । ऐसा करनेसे प्रजा-परिषदके भ्रमका निवारण कर सकता हूँ । और सम्राटके प्रति उत्पन्न हुई उसकी घृणा दूर हो जायगी ।

सम्राटका सारा लोभवेग दूर हो गया; वे आनन्दमें आ गए । बोले—‘आमात्यश्रेष्ठ ! आपने बाल्यकालमें भी मुझे प्यार किया है, और अब भी मैं आपकी कृपा चाहता हूँ वृद्धवर !’

सम्राटकी सरल विनीत वाणीने आमात्यश्रेष्ठको वशीभूत कर लिया । वे गद्गद् हो गए, उनके मनकी अपमानजनित व्यथा दूर हो गयी ।

सम्राटने परिचारिकाश्रेष्ठी तिष्यरक्षिताको पुकारा ।

वह अभिवादन करती हुई सम्राटके समक्ष उपस्थित हो गयी ।

सम्राटने कहा—‘तिष्ये ! आम्रात्यश्रेष्ठको तुम्हारे कट्टु व्यवहारसे जो व्यथा हुई और उनका मन दुःखी हुआ, उसके लिए क्षमा माँग लो । तुम्हें इन वृद्धवरकी महिमाका पता नहीं था, इसीलिए अनजानमें तुमसे अपराध हो गया । क्षमा माँग लो और आम्रात्यश्रेष्ठका आशीर्वाद भी ।’

ज्योंही तिष्यरक्षिता आम्रात्यश्रेष्ठके समक्ष क्षमा माँगनेके लिए प्रस्तुत हुई, त्योंही वे बोल उठे, नहीं राजमहिषी । ऐसा न करो आपने मुझे राजमहिषी होनेकी प्रतिष्ठासे आज्ञा प्रदानकी है । जिसमें मेरे अपमानका प्रश्न ही नहीं उठता ।’

‘घन्य हैं आम्रात्यश्रेष्ठ ! आप विशाल हृदय हैं, तभी तो मौर्यसाम्राज्यका सुचारु रूपसे संचालन हो रहा है ।’ सम्राट बोले ।

‘हाँ, मन्त्रिप्रवर ! आपने अभी तिष्यरक्षिताको आशीर्वाद नहीं दिया ।’ कहते हुए मुस्करा पड़े सम्राट ।

राजगद् कंठसे आशीर्वादकी झड़ी लगा दी आम्रात्मश्रेष्ठने और अपनी सारी शुभकामनाएँ प्रकट कर दीं उन्हीने ।

सम्राट प्रसन्न थे, प्रसन्न थी तिष्यरक्षिता और आम्रात्यश्रेष्ठ तो आनन्द में थे ही ।

निस्तब्धता भंग करते हुए आम्रात्यश्रेष्ठ बोले—‘सम्राटदेव ! अब क्यों विलम्ब करते हैं, लीजिए राजमहिषी पदका द्योतक रत्नजटित किरीट अपने हाथोंसे देवी तिष्यरक्षिताको पहना दें ।’

सम्राटने अपने हाथोंसे तिष्यरक्षिताको राजमहिषी पदका किरीट पहनाया ।

आम्रात्यश्रेष्ठ, सम्राट और नवसाम्राज्ञीको अभिवादन करते हुए बोल उठे—‘सम्राटकी जय हो । राजमहिषीकी जय हो ।’

सम्राट बोले—‘आम्रात्यश्रेष्ठ !’

‘आज्ञा सम्राटदेव !’

‘साम्राज्य भरमें शुभविवाहोत्सवको घोषणा हो जानी चाहिए !’

‘जो आज्ञा देव !’

‘हाँ, युवराज कुशालको भी सूचना देंगे ।’ तिष्यरक्षिताने कहा ।’

‘जो आज्ञा देवी !’ कहकर सम्मानपूर्वक दोनोंको अभिवादनकर
आमात्यश्रेष्ठ प्रकोष्ठके बाहर हो गए ।

तिष्यरक्षिताको सम्राटने हृदयसे लगा लिया । तिष्यरक्षिता बोली—
‘देवका सच्चा अनुराग इस सेविका पर है । मैं उस प्रकोष्ठसे मन्त्रिप्रवर
और श्रीसम्राटदेवकी हुई वार्त्ता सुन रही थी ।’



३

प्रियदर्शी सम्राट अशोक और तिष्यरक्षिताका विवाहोत्सव था ।
नगरकी सड़कें सजाई जा रही थीं । सगे-सम्बन्धी और अधीनस्थ दूर-दूरके
प्रमुख राज-कर्मचारी आमन्त्रित हो गए ।

यथावसर सभी आमन्त्रित बड़े-बड़े सामन्त, श्रेष्ठी, माण्डलीक, तथा
सम्मानित व्यक्ति पधारने लगे । उनका स्वागतकर राज-भवनके अतिथि
प्रकोष्ठमें उन्हें ठहराया जाने लगा ।

कलिंग देशके उपप्रजापति कुमार दशरथदेव भी आ गए । परन्तु
अभी तक युवराज कुशालका आगमन नहीं हुआ ।

संदेश-पायक पत्र लेकर उज्जयिनी गया तो था, किन्तु युवराज वहाँसे
दूर चले गए थे । युवराज्ञी कान्चनमाला और युवराज-पुत्र सम्प्रति भी
साथ थे । ये लोग नए स्थापित औषधालयका निरीक्षण करने गए थे ।

औषधालयके विशाल भवनमें कितने ही रोगी पड़े थे, जिनकी

उचित दंगसे चिकित्सा हो रही थी। कुछ रोगी स्वस्थ हो रहे थे, जिन्हें दो-एक दिनोंमें ही घर चले जानेका आदेश हो जायगा और कुछ नये रोगी चिकित्सा करानेके उद्देश्यसे औषधालयमें भर्ती होना चाहते थे। थोड़े ही दिनोंमें इस औषधालयकी इतनी अधिक ख्याति हो गयी थी कि दूर-दूरके भी लोग आरोग्यता प्राप्त करनेके उद्देश्यसे यहाँ आने लगे।

चिकित्सक बड़े दक्ष थे। उनका निदान और औषधोपचार विलक्षण था। बड़ेसे-बड़े रोगी भी शीघ्र अच्छे हो जाते थे।

युवराज कुणाल सपत्नीक सम्प्रतिके साथ वहाँ अचानक पहुँचे थे। चिकित्सक महोदयने उनको अभिवादन किया और सम्मान प्रदर्शित करते हुए औषधालयका निरीक्षण कराने लगे। रोगियोंमें युवराज और युवराज्ञीके दर्शनसे अपार हर्ष छा गया। थोड़ी देरके लिए वे कराहना भूल गए—उनकी पीड़ा दूर हो गयी।

युवराज्ञीने कहा—‘युवराजदेव !

‘हाँ प्रिये !’ बोले कुणाल।

‘इन रोगियोंकी सेवा सबसे बड़ा धर्म है।’

‘निःसन्देह भद्रे !’

‘सच्ची सेवा तो जनताकी औषधालयमें ही होती है।’

चिकित्सकसे बोले युवराज—‘औषधालयके लिए जो राजकीय सहायता मिलती है, यदि पर्याप्त न हो तो कुछ और बढ़ा दी जाय।’

‘हाँ श्रीमान् ! दूर-दूरसे आते हुए रोगियोंकी संख्या देखते हुए यही कहना पड़ेगा कि कुछ कर्मचारी और बढ़ा दिए जायँ और औषधिका भी अधिक मात्रामें संग्रह हो। ऐसा करने पर जो राजकीय सहायता प्राप्त है, वह कम पड़ेगी।’

‘औषधियोंके पौधे लगाए गए हैं ? क्या वे कमी पूरी नहीं कर सकते ?’

‘अभी उनका भी निरीक्षण कराता हूँ, श्रीयुवराजदेव ! उनसे अभी कमी पूरी नहीं हो सकती, वे तो अभी रोपे गए हैं ।’*

‘अच्छा आपका क्या अनुमान है ? कितनी और वृद्धि कर दी जाय सहायतामें ?’

‘यदि डेढ़गुनी सहायता बढ़ा दी जाय तो भी किसी तरह काम चल सकता है, श्रीमन्त !’

‘ठीक है । सोचा जायगा ।’ चलिए, औषधि-वृक्षोंका उद्यान देखना चाहता हूँ । इसके पश्चात् पशुचिकित्सालय भी देखना है ।’

युवराज जाने लगे । रोगीगण जो एकटक उन्हें और देवी कांचन-मालाको देख रहे थे और ममभक्त रहे थे कि पृथ्वी पर कोई देवता और देवी स्वर्गसे उतर आई है, जयजयकार करने लगे । औषधालय जयजयकारकी ध्वनियोंसे निर्नादित हो उठा ।

ठीक इसी समय कुछ लोग एक जले हुए रोगीको लिए औषधालयमें आ पहुँचे । रोगीकी दशा शोचनीय थी—उसकी आँखें, नाक और मुँह जल गए थे, उसे असह्य वेदना हो रही थी ।

युवराज और देवी कांचनाका हृदय उस रोगीको देखकर काँप गया । उस रोगीकी आकृति भयावह हो गयी थी । उसके अच्छे होनेकी सम्भावना नहीं थी । चिकित्सक महोदयसे बोले युवराज—‘क्या यह रोगी भी आपकी चिकित्सासे ठीक हो जायगा ?’

‘हाँ श्रीमन्त ! सम्भावना तो ऐसी ही है, किन्तु अच्छा हो ही जायगा यह भी नहीं कहा जा सकता ।’

‘आप तब किस आधार पर ऐसा कह रहे थे कि इसके अच्छे हो जानेकी सम्भावना है ।’

* ‘हर जगह देवताओंके प्रियने चिकित्साका दो तरहका प्रबन्ध किया है—मनुष्योंकी चिकित्सा एवं पशुओंकी चिकित्सा ।’ देखिए—‘अशोक’ श्रीभगवतीप्रसाद पांथरीकृत पृ० १६२ ।

‘हमारे पास औषधि इतनी अच्छी है कि एक बार इससे भी अधिक खराब दशामें एक रोगी आ गया था, जिसकी चिकित्साकी गयी और वह अच्छा हो गया। उसे देखकर युवराज ! कोई नहीं कह सकता था कि उसे फिर आँख मिल जायगी, वह अच्छा हो जायगा; किन्तु इसी औषधिके प्रभावसे वह बहुत थोड़े समयमें अच्छा हो गया।’

वात्सीलाप करते हुए युवराज औषधियोंका उद्यान देखने चले गए; माली सिंचाई कर रहा था। आकर उसने युवराज और युवराज्ञीके चरणोंमें प्रणाम कर प्रसन्नताका अनुभव किया। यत्र-तत्र उद्यानका निरीक्षण समाप्तकर युवराज पशु-चिकित्सालय पहुँचे। वहाँ अभी कोई रोगी पशु नहीं आया था। वह अभी-अभी निर्मित किया गया था। प्रचार हो जाने पर अपना रोगी पशु-चिकित्सके लिए जनता लावेगी।

संध्याका समय था। युवराज उज्जैनके लिए चल पड़े। युवराज थोड़ी ही दूर गए थे कि डाकुओंका एक दल सामने, आ मार्ग रोक खड़ा हुआ। डाकुओंके अधिनायककी दृष्टि कांचनमाला पर पड़ी। उसने कहा— देखो वीरो ! यह किसी युवतीको भगाए जा रहा है, इस व्यक्तिसे इसका उद्धार कराना आवश्यक है। फिर युवराजकी ओर संकेत कर वह बोला— ‘इस युवतीको तुम कहाँ भगाए जा रहे हो ? सावधान ! इसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें अपने प्राणोंसे भी हाथ धोने पड़ेंगे।’

कांचन घबरा गयी। उसकी घबराहट युवराजसे छिपी न रही। इसी बीच युवराजके संरक्षकोंकी वह टुकड़ी आ पहुँची जो पीछे-पीछे चली आ रही थी। कुछ देर तक डाकुओंसे युद्ध हुआ, किन्तु डाकु संरक्षकों द्वारा बन्दी बना लिए गए। उन्हें निकटके जनपदीय बन्दीगृहमें पहुँचानेका आदेश देकर युवराज आगे बढ़े।

कांचन बोली—‘युवराज ! अब रातका समय हो आया है, अतः यहीं कहीं रुककर रात बिता ली जाय, तब दूसरे दिन फिर चलना आरंभ किया जाय। मार्ग ठीक नहीं है।’

‘प्रिये ! तुम डर गयीं ।’ बोले युवराज ।’

‘डरकी तो बात ही है, स्वामी ! यदि डाकुओंका बंह दल मुझे आपसे छीन ले गया होता, तो आप मुझे जीवित भी न पाते ।’

‘तब तुम्हारे लिए मुझसे भी अधिक सम्प्रति दुःखी होता ।’ सुस्कुरा कर बोले युवराज ।

‘दुःखकी तो बात ही है स्वामी !’

‘डाकू यदि तुम्हें पकड़ ही ले गए होते, तो तुम क्या करतीं ?’

‘मैं अपने प्राणोंका मोह त्यागकर एक बार तो वीरतासे उनसे अवश्य लड़ती और जब हार जाती तब निश्चय ही अपना प्राण त्याग देती । और यदि मैं आपसे यही प्रश्न करूँ कि यदि डाकू मुझे पकड़ ले गए होते तो आप क्या करते ? इसके उत्तरमें आपका क्या कथन है, प्राणनाथ !’

‘मेरे जीवित रहते हुए ऐसा संभव ही नहीं है भद्रे !’

‘मान लें यदि ऐसा होता तो ?’

‘न होनेवाली बातोंकी कल्पना ही क्यों की जाय, प्रिये ।’

कल्पना ही सही स्वामी ! उसका उत्तर तो आपको देना ही है ।’

‘तो मैं भी तुम्हारे साथ डाकुओंके यहाँ चला चलता और तुम्हारा साथ न छोड़ता ।’ कहकर युवराज सुस्कुरा पड़े ।’

कांचन संतुष्ट हो गयी । युवराजका रथ एक गाँवके निकट पहुँच गया । कांचन यहाँ रुक जाना चाहती थी । उसने सारथीसे रथ रोकनेको कहा और बोली—‘प्राणनाथ ! बस अब मेरा साहस आगे बढ़नेमें असमर्थ है । अतः रात यहीं बिता ली जाय ।’

रात शुक्लपक्षकी थी । सारे भूमण्डलमें चाँदनी उतर रही थी । गर्मी के दिन थे, रथ एक ग्रामवासीके द्वार पर जा खड़ा हुआ ।

ग्रामवासीके उस परिवारमें भगड़ा हो रहा था । पारिवारपतिके एक लड़केने आकर पितासे अपने पितामहकी असावधानीका कथन किया ।

लड़केने कहा—‘पिताजी; बाबाने (पितामहने) वह मिट्टीका बर्तन घोते समय असावधानीसे फोड़कर खर्च बढ़ा दिया, जिसमें वे खाया करते थे । मैंने सोचा था कि इसे यदि यह फूटनेसे बचा रह गया तो आपके खानेके लिए दूसरा बर्तन न खरीदना पड़ेगा । बाबाके बाद उसीमें आपको खानेकी व्यवस्था हो जायगी; लेकिन हमारा सोचना सब व्यर्थ हो गया । मिट्टीका वह पात्र बाबाजीके जीवनकाल तक भी न चल सका । अब बाबाजीकी लापरवाहीसे वह मिट्टीका पुराना बर्तन फूट गया ! अब बाबा जीके लिए दूसरा बर्तन खरीदना पड़ेगा । खर्च बढ़ गया न ? इस बुद्धेसे जान परेशान हो गयीं । बर्तन घोते समय मैंने बाबाजीसे कह भी दिया था कि यह बर्तन फूटने न पावे ।’

लड़केके पिता और माताने उस अपमानित बृद्ध को खूब डाटा और कहा—‘तुमने यह बर्तन ठीकसे क्यों नहीं सँभालकर धोया ? अब तुम किसमें खाना खाओगे ? तुम्हारे लिए थाली नहीं है । तुमने सोचा था कि इसे फूटनेपर थालीमें खाना मिलेगा ?’

लड़केने कहा—‘यह बात नहीं पिताजी; बाबाने खर्च बढ़ा दिया । मैंने सोचा था, जबतक ये जिन्दा रहेंगे तबतक इनके खानेके लिए वह काम देगा और इनके मरनेके बाद जब आप बृद्ध होंगे और मैं घरका मालिक हो जाऊँगा तो इसीमें आपको खिलाता रहूँगा । हाँ, माताजीके लिए भले ही दूसरा नया मिट्टीका बर्तन एक बार खरीद देता; अब इसके फूट जाने पर दूसरा भी खरीदना पड़ेगा ! मैं तो सोचमें पड़ गया हूँ ।’

लड़केका पिता बोला—‘क्या कहा ? क्या मुझे भी तू इनी तरह घरका मालिक हो जानेपर पुराने मिट्टीके बर्तनमें ही खिलानेकी बात सोच रहा है ?’

‘हाँ पिताजी ! मैं आपकी इस परम्पराको अवश्य चलाता रहूँगा । जिस प्रकार बाबाजीके साथ आपका व्यवहार चल रहा है, वही मेरा व्यवहार आप और माताजीके साथ होगा । मैं इसका ध्यान रखूँगा ।’

वृद्धोंको थालीमें भोजन नहीं देना चाहिए और न उनका सम्मान ही करना चाहिए । मैंने यह सब आपके द्वारा किये गये बाबाके प्रति व्यवहारको देखकर सीख लिया है । लेकिन अब क्या होगा ? बाबाने तो मिट्टीका वह पुराना बर्तन तो फोड़ ही डाला !'

लड़केकी बातें सुन उसका पिता घबरा गया और वह अपने अपराधोंके प्रति पश्चात्ताप करने लगा । अपना अपराध स्वीकार कर उसने अपने लड़केको हृदयसे लगा लिया और वह वृद्ध पिताके चरणों पर गिर कर क्षमा माँगने लगा । वृद्धने अपने पुत्रके अपराधोंको क्षमा करते हुए उस लड़केकी प्रखर बुद्धिकी सराहना की, जिसके संकेतसे उसने गन्दे पुराने मिट्टीके बर्तनको फोड़ा था । लड़केका पिता आजसे प्रतिज्ञा कर रहा था कि पिताका वह अपमान कभी न करेगा । ठीक इसी समय युवराजका रथ उस गाँवमें आ पहुँचा था ।

सारथीने घोड़ा रोक दिया और उतरकर घरके स्वामीसे कहा—'भद्र ! मैं आज आपके यहाँ रुककर रात्रि व्यतीत करना चाहता हूँ ।'

इस परिवारके लोग पहले तो भयभीत हो गए; सोचा—डाकुओंका दल आ गया । कैसे प्राण और धन बचेंगे, किन्तु सामने एक अनुपम सुन्दरीके साथ एक बच्चे और युवकको देखकर वे बोले—'भाई रातमें तुम कहाँसे चले आ रहे हो ?'

'यह सब तुम पूछकर क्या करोगे ?' बोला सारथी ।

'अरे भाई इसलिए पूछ रहा हूँ कि कभी-कभी डाकू लोग इधर ऐसे ही आ जाया करते हैं । जनता डाकुओंसे पीड़ित है ।'

'क्या डाकुओंके दमनके लिए राज्यकी ओरसे कोई व्यवस्था नहीं है । भद्र ?' बोले युवराज रथसे उतरकर ।

युवराजको आपादमस्तक देखते हुए ग्रामवासी बोला—'नहीं भदन्त; राज्यकी ओरसे इसका इन्तज़ाम तो है, लेकिन राजकर्मचारी डाकुओंसे मिल जाते हैं । युवराज कुयालदेव सुना है, भेष बदलकर राजकर्मचारियों

की जाँच तो किया करते हैं, फिर भी राजकर्मचारी सुघर नहीं सकते ।’

‘क्या कभी युवराज इधर नहीं आए, भेष बदलकर ?’ युवराज बोले ।

‘इधर तो युवराजका आना कभी नहीं हुआ भद्र !’

‘तब उनके भेष बदलनेकी बातें आप कैसे जानते हैं ?’ युवराज बोले ।

‘भद्र ! उनके राज-काज देखने और बौद्ध-धर्मके प्रचारकार्यको सुना है । सभी उन्हें देवता कहते हैं, ऐसा न्यायप्रिय राजा कौन होगा ? प्रिय-दर्शी सम्राट् अशोकवर्द्धनसे भी बड़कर युवराजदेव हैं । उनकी जगह यदि दूसरा कोई होता, तो आरामसे रहता, मौज उड़ाता; उसे प्रजासे क्या ? प्रजा पर जो कुछ भी बीतती, उससे कोई सरोकार न होता; लेकिन युवराजदेवका यश फैलता जा रहा है, वे लोकप्रिय होते जा रहे हैं । प्रजाके कष्ट दूर करनेके लिए वे सदैव प्रयत्नवान् रहते हैं । धन्य हैं युवराज, सुख की गोदमें पलकर भी उन्हें प्रजाके कष्टका ज्ञान कैसे हो गया ! समझमें नहीं आता ।’

‘आप कभी युवराजसे मिले थे भद्र ?’

‘नहीं श्रीमन्त ! इतना सौभाग्य नहीं है मेरा कि उनसे मिल पाऊँ । सबसे बड़ा विघ्न तो उनसे मिलनेमें कर्मचारी ही डाल देते हैं । वहाँ तक कौन पहुँच सकता है ? युवराज जो ठहरे ।’

ग्रामवासीको युवराजसे बातें करनेमें आनन्द आ रहा था । उसके प्रति अपने सम्बन्धमें बातें सुनकर युवराज भी प्रसन्न थे । युवराजने पूछा — ‘भद्र ! आपने कभी युवराजसे मिलनेका प्रयत्न किया ?’

‘नहीं श्रीमन्त ! जब उनसे मिलनेमें अड़चनें बहुत हैं तब कैसे मिलता ?’

‘मिलना चाहते हैं ?’

‘क्यों नहीं । यदि देवतुल्य युवराज से मिल पाता तो झरूर मिलता । और पहले तो मैं राजकर्मचारियोंके बारेमें ही उनसे निवेदन करता और

तब इधर डाकुओं द्वारा जो अशान्ति-अराजकता फैली है, इस सम्बन्धमें भी बातें करता ।’

‘किन्तु भद्र ! आप उनसे मिलनेकी कठिनाइयोंका अमुभव करके ही नहीं मिलना चाहते ! श्रेष्ठ पुरुषोंका उरसाह कार्यकी कठिनाइयोंका स्मरण करके ही नहीं भंग हो जाता । कठिनाइयाँ तो मार्ग प्रशस्त करती हैं भद्र !’

‘हाँ श्रीमन्त ठीक कहते हैं ।’

‘तो आप मिलेंगे उनसे ।’

‘हाँ, हाँ ! अवश्य मिलूँगा अवश्य ।’

‘हमारे साथ हो लें, मैं उन्हें आपको मिला दूँगा । कोई कठिनाई नहीं होगी । कठिनाइयाँ हमारे समक्ष इस बातकी जाँच करने उपस्थित हो जाती हैं कि हमारे हृदयमें हमारी कामना कितनी दृढ़ है । जिनकी अभिलाषा प्रबल होती है उनको कठिनाइयाँ प्रेरणा प्रदान करती हैं ।’

‘क्या आपभी युवराजदेवसे मिलने चलेँगे श्रीमन्त ?’

‘मैं वहीं रहता ही हूँ भद्र !’

ग्रामवासी घबरा गया । सोचा उसने ‘राजकर्मचारियोंकी अनायास मेरे मुँहसे निन्दा निकल आई । यदि यह कोई श्रेष्ठ राजकर्मचारी है, तो अवश्य मेरे कथन पर अप्रसन्न हो गया होगा ।’ उसने राजकर्मचारियोंके सम्बन्धमें जो बातें कह दी थीं, उसका वह सुधार करना चाहता था, किन्तु अब वह प्रसंग समाप्त हो चुका था । हाथसे फेंका गया डेला कैसे वापस आता ? एक बार उसने सोचा—‘फिरसे राजकर्मचारियोंके संबंधमें वात्ता कर ली जाय ।’ जिसमें वह अब उनकी प्रशंसा अवश्य कर देगा; किन्तु फिर सोचा इतनी देरसे इस भद्र पुरुषसे बातें हो रही हैं । कहीं एक ही बात बार-बार दुहरानेसे यह श्रौं भी अप्रसन्न न हो उठे । खैर जो कुछ हुआ सो हुआ; अब तो उसका कोई सुधार न होगा ।

वह प्रकट होकर फिर बोला—‘श्रीमन्त ! यदि क्षमा करें, तो मैं आपका परिचय आपके ही द्वारा जानना चाहता हूँ ।’

‘परिचय मिल जायगा भद्र ! अभी तो मैं रात्रिमें यहाँ रुक रहा हूँ ।’

‘किन्तु श्रीमान्जी; आपका परिचय जान लेनेके लिए हृदयमें बड़ी प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी है । श्रीमान्जी कौतूहल शान्त करें ।’

‘मैं तो आपलोगोंका सेवक हूँ । आपलोगोंकी सेवाके लिए ही मेरी प्रियदर्शी सम्राट् अशोकवर्द्धन द्वारा नियुक्ति हुई है ।’

‘ठीक है श्रीमान्जी; यह परिचय अपूर्य है । क्षमा करेंगे ।’ एक बार ग्रामवासीने फिर बड़ी ही सावधानीसे युवराज और युवराज्ञीकी ओर देखा । सोचा उसने—‘कहीं युवराजदेव ही तो नहीं आ गए हैं । यह व्यक्ति भी देवताकी तरह दिखाई पड़ रहा है और बात-चीतसे भी व्यवहारमें मृदुल स्वभाव दिखाई पड़ रहा है । हाँ, किन्तु युवराज यहाँ कैसे आ जायेंगे ? इस व्यक्तिकी सम्राट् द्वारा नियुक्ति हुई है, अतः स्वयं युवराजदेव भी तो हो सकते हैं । अन्य राजकर्मचारियोंकी नियुक्ति तो स्वयं युवराजदेवके ही हाथोंमें है; अतः यह व्यक्ति अवश्य युवराज ही है ।’

उसकी जिज्ञासा और तीव्र हुई, तीव्रतर हुई । हाथ जोड़कर मस्तक झुका उसने पूछा—‘श्रीमन्त; क्या आप स्वयं युवराजदेव ही तो नहीं हैं ?’ युवराज मुस्करा उठे और मौन हो गए ।

‘बोलिए श्रीमन्त !’

‘भद्र ! आपकी कल्पना ठीक है ।’

वह व्यक्ति दौड़कर युवराजके चरणों पर गिर पड़ा और बोला—
‘श्रीमन्त धर्मविवर्द्धन युवराजदेवकी जय हो ।’

‘क्या युवराजदेवके साथ युवराज्ञी भी पधारी हैं; महाराज ?’ उसने काँचनार्की ओर संकेत किया ।

सारथीने परिचय दिया—‘हाँ भद्र ! युवराज्ञी ही हैं और ये युवराज-पुत्र सम्प्रति हैं ।’

ग्रामवासियोंमें हर्ष छा गया । वे युवराज और युवराज्ञीकी जय बोलने लगे । सारे गाँवमें समाचार फैल गया । सबलोग दर्शनार्थ एकत्र होने

लगे । सबलोग मिलकर युवराजके आकस्मिक आगमनमें हर्ष मना-मनाकर उनकी सेवामें तत्पर हो गए । ग्रामवासियोंके क्रिया-कलापसे युवराज बड़े प्रभावित हुए । रात्रि चहल-पहलमें व्यतीत हो गयी ।

प्रातःकाल होनेपर युवराज उज्जैन लौटनेके लिए तत्पर हो गए । गाँवके लोग उन्हें विदा करनेके उद्देश्यसे आ पहुँचे ।

युवराज एक आदमीसे बोले—‘रथ तैयार हो गया है भद्र ! अब हम किस मार्गसे जायें । मैं आशवासन देकर कहता हूँ कि इस प्रदेशमें अब डाकुओंका भय न रह जायगा । आपलोगोंने कभी भी आकर अपनी पीड़ा हमारे पास तक नहीं पहुँचाई । खैर, देखा जायगा ।’

युवराजको चलनेके लिए तत्पर देख एक आदमी बोला—‘युवराज-देव यदि इस मार्गसे जायें तो सुविधा होगी आगे चलकर यह कच्ची सड़क राजमार्गमें मिल जायगी ।’

दूसरा आदमी बोला—‘वह मार्ग ठीक नहीं है, हे इस मार्गसे जानेमें सुविधा होगी ।’

पहले आदमीने सोचा मेरा बतलाया मार्ग गलत होना चाहता है, इसने आगे बढ़कर प्रतिवाद किया—‘वाह; यह मार्ग कैसे ठीक होगा ?’

दूसरा—‘तब क्या वह ठीक होगा ?’

पहला—‘युवराज उस मार्गसे न जायेंगे ।’

दूसरा—‘तब क्या उस मार्गसे जायेंगे ?’

दोनों व्यक्तियोंमें कहा-सुनी होने लगी । गाँवके अन्य लोग और युवराज मौन होकर सुनने-देखने लगे और सोच रहे थे—किस मार्गसे चला जाय । मार्ग दोनों ही हमें गन्तव्य स्थान पर पहुँचा देंगे । दोनों ही व्यक्ति श्रद्धापूर्वक मार्ग बतानेमें तत्पर हैं । युवराज किसीके भी प्रेमको ठुकराना नहीं चाहते थे ।

देवी काँचनाने मुस्कराकर युवराजसे कहा—‘देव किस मार्गसे चलेंगे ?’

युवराज बोले—‘प्रिये ! अभी इसका निर्णय स्वयं हो जाता है ।’

पहला आदमी अपनी घोती लपेटते हुए कुछ क्रुद्ध होकर बोला—‘मैं कहता हूँ, युवराज इसी मार्गसे जायँगे ।’

दूसरा—‘मैं कहता हूँ, युवराज इसी मार्गसे न जायँगे, उस मार्गसे जायँगे ।’

‘क्या, इस मार्गसे युवराज उज्जैन न पहुँचेंगे ।’ पहला आदमी बोला ।

‘यही तो मेरा भी प्रश्न है, क्या इस मार्गसे जाने वाला उज्जैन न पहुँचेगा ।’ दूसरा उसे घूरते हुए बोला ।

पहला—‘यह और वह दोनों मार्ग उज्जैन पहुँचेंगे, लेकिन मैंने युवराजसे पहले कह दिया था और यह मार्ग ज्यादा सुविधाजनक है ।’

दूसरा—‘और इस मार्गमें कौन-सी कठिनाई सामने आ रही है ?’ सुस्क्राकर कांचन बोली—‘जान पड़ता है आज फिर यहीं रहना पड़ेगा ।’ युवराज बोले—‘देखो; दोनों प्रेमपूर्वक मार्ग बता रहे हैं किसको ठुकराया जाय । मैं अपनी ओरसे दोनोंका सम्मान करूँगा । जब तक ये लोग एक मत होकर मार्ग न बता देंगे, तब तक तो रुकना ही पड़ेगा ।’ पहला आदमी बोला—‘भले ही वह मार्ग ठीक हो, सब सुविधा हो लेकिन तुम्हारे बताए मार्गसे युवराज नहीं जायँगे ।’

‘इमसे युवराजसे कौन शत्रुता है, जो मेरी बात युवराज न मानेंगे !’

‘और मुझसे शत्रुता है ?’

‘अच्छा; शत्रुताका यहाँ कुछ प्रश्न नहीं है । इसका निर्याय स्वयं युवराजदेव ही कर लेंगे । मानते हो मेरी बात ?’

‘ठीक है । मानता हूँ ।’

‘दोनों युवराजसे हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भावसे बोले—‘आप किस मार्गसे जाना अच्छा समझते हैं युवराजदेव !’

‘आप लोग जिस मार्गको निश्चित कर कहेंगे । एक साथ दोनों मार्गसे मैं जा नहीं सकता । मैं तो आप दोनोंकी श्रद्धासे प्रभावित हूँ भद्र !’

सब लोग हँस पड़े । सब लोगोंने कहा तुम दोनों ही मूर्ख हो ।

अरे चाहे जिस मार्गसे युवराज जा सकते हैं । मार्ग दोनों ही अच्छे हैं । तब एकमत होकर तुम लोगोंको अपना-अपना हठ छोड़ देना चाहिए ।’ पहलेने कहा—‘युवराज चाहे जिस मार्गसे जायँ, लेकिन मुझे इस बातकी प्रेशानी है कि यह आदमी हमारा सही कहने पर भी विरोध करता है । हमें दुःख इस बातका है ।’

सब लोगोंने कहा—‘अच्छा भाई तुम्हारे बतलाए मार्गसे ही युवराज जायँगे । बस अब ठीक है न ?’

दूसरा आदमी हार नहीं सकता था, किन्तु हारना चाहता था सोचा—‘अब बहुत हो गया । युवराज हम लोगोंकी बातोंमें अबतक उलझे रहे । सब लोग उसका (पहले आदमीका) समर्थन भी कर रहे हैं, अब मान लेना चाहिए ।’

प्रकट होकर वह बोला—‘अच्छा युवराज अब उसी मार्गसे चले जायँ ।’

युवराज हँसकर बोले—‘इस बार इस मार्गसे जा रहा हूँ, अब फिर कभी आने पर उस मार्गसे भी चला जाऊँगा ।’ कांचन सहित सब लोग हँस पड़े । गाँववालोंने कहा युवराज और युवराज्ञीकी जय ! युवराज-पुत्रकी जय ! सबसे विदा लेकर युवराज उज्जैनके लिए चल पड़े ।



४

उज्जैन पहुँचने पर युवराजको मस्तक नवाकर परिचारक बोला—‘युवराज देवकी जय, युवराज्ञीकी जय; युवराज-पुत्रकी जय । युवराजदेव ! राजनगर पाटलीपुत्रसे एक संदेश-पायक आया है, जब युवराजदेव यहाँसे चले गये तभीसे वह भी आ पहुँचा है ।’

‘संदेशपायक ! पाटलीपुत्रसे ?’

‘हाँ देव !’

‘भेजो उसे ।’

संदेश करने युवराज और युवराज्ञीको अभिवादन कर पत्र उनके समक्ष बढ़ा दिया ।

‘क्या है ?’ बोले युवराज ।

संदेशपायक खड़ा हो गया । युवराज पत्र पढ़ने लगे । पत्र पढ़कर वे बोले—‘लो प्रिये ! तुम पाटलीपुत्र चलना चाहती थीं । अब तो चलना ही होगा ।’

कांचनकी उत्सुकता बढ़ी, वह बोली—‘पत्रमें क्या लिखा है ?’

‘पत्र, पत्र ही नहीं है, यह निमंत्रण-पत्र है प्रिये !’

‘कैसा स्वामी !’

‘यही कि सम्राटदेवका यह वैवाहिक निमन्त्रण-पत्र है ।’

‘मस्तक पर भौहें चढ़ाकर कांचन बोली—‘सम्राटका विवाह ?’

‘हाँ प्रिये !’

‘किससे ?’

‘परिचारिकाश्रेष्ठी तिष्यरक्षितासे ।’

‘आप हँसो तो नहीं कर रहे हैं युवराजदेव ? क्या सचमुच सम्राट इस अवस्थामें विवाह कर रहे हैं और वह भी परिचारिकाके साथ ?’

‘इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिये प्रिये !’

‘तो इस उत्सवमें निश्चय ही हम लोगोंको सम्मिलित होना चाहिए ।’

‘हाँ प्रिये ! शीघ्र ही चलूँगा ।’

‘इस शुभ विवाहसे युवराजदेव ! मुझे अनिष्टकी आशंका हो रही है ।’

‘ऐसा न सोचो प्रिये !’

‘नहीं युवराजदेव ! इस अवस्थामें सम्राटका विवाह करना हम-सब,

लोगोंके लिए हितकर नहीं हो सकता । विवाह करके सम्राट अपने स्वतंत्र विचारोंकी रक्षा करनेमें असमर्थ हो जायेंगे । परिचारिका तिष्यरक्षिताने सम्राटको अपने वशमें करके अपनी सन्तानकी ही यौवराज्यपद पर अभिषिक्त करा आपको पदच्युत करा दे तो ? उस समय सम्राट उचित-अनुचितका निर्णय करके भी उचित पर आचरण न कर सकेंगे । यह सम्राटकी ही बात नहीं है, ऐसा होता रहा है ।' बोली कांचना ।

‘और यदि तुम्हारी कल्पनाके विपरीति बातें हुईं तो ?’

‘यह भी हो सकता है, किन्तु अधिकांश हमारी कल्पना ही घटित होती देखी गयी है, स्वामिन् !’

हो सकता है देवि ! किन्तु पहले तो मैं भविष्यका कल्पना ही नहीं करना चाहता और यदि तुम्हारी कल्पना सत्य भी हुई, तो मैं इस क्षणभंगुर युवराजपदकी ही बात नहीं करता, प्राणोंका भी पिताकी सन्तुष्टिके लिए उरसर्ग कर सकता हूँ भद्रे ! मैं नवजननी तिष्यरक्षिताको पाकर माता अस्निग्धमित्राके वियोगसंभूत मातृविहीनताकी उदासी भूलकर प्रसन्नताका अनुभव किए बिना न रहूँगा प्रिये !’ बोले युवराज कुणाल ।

‘क्षमा करें युवराजदेव !’ कांचनाने कहा ।

‘उदासीनताका परित्यागकर देवि ! राजनगर पाटिलपुत्र चलनेकी शीघ्र तैयारी करो । समय थोड़ा रह गया है ।’

दूसरे दिन प्रातःकाल युवराज पुत्र एवं पत्नी सहित सशस्त्र अश्वारोहियोंके साथ चल पड़े । जब वे नगरके निकट आ पहुँचे, तब एक परिचारक द्वारा उन्होंने आगमनकी सूचना भेजी । समाचार पाते ही सम्राटने महाभयङ्गागाराधिकृत एवं महाबलाधिकृतको अगवानीके हेतु भेजा ।

युवराज और युवराज्ञीको सम्मान प्रदर्शितकर वे लोग सादर इन्हें लिवा ले गए । आज राजनगर विशेष शोभासंकुलित जान पड़ रहा था । नगरकी साजसजा देखते हुए, युवराज चले आ रहे थे । वे भव्य राज्य-प्रासादके अतिथि प्रकोष्ठमें ठहराए गए । कलिगप्रदेशके उपप्रजापति

कुमार दशरथदेव युवराज कुणालसे आकर गले लगे और उन्होंने देवी कांचनाको प्रणाम किया तथा कुमार सम्प्रतिको गोदमें उठा लिया। आज अनेक वर्षोंके पश्चात् दोनोंके मिलनमें स्नेह उमड़ पड़ रहा था। दशरथ-देवसे मिलकर युवराज सम्राटको अभिवादन करने उन्हें, कांचना और सम्प्रतिको साथ लेकर चल पड़े।

प्रमुख द्वार पर इन लोगोंको देखकर परिचारिकाने अभिवादन किया। युवराज बोले—‘मेरे आगमनकी सूचना सम्राटदेवको दो।’

मस्तक नवाकर प्रतिहारी चला गया और सम्राटको सम्मान प्रदर्शित कर बोला—‘प्रमुख द्वार पर दशरथदेवके साथ युवराजदेव कुणाल, देवी युवराज्ञी तथा युवराजकुमार सम्प्रति उपस्थित हैं। ये सब श्रीसम्राटदेवके दर्शनार्थी हैं।’

‘आने दो उन्हें।’ प्रसन्नता प्रकट करते हुए बोले सम्राट।

‘जो आज्ञा।’ कहकर प्रतिहारी द्वार पर आया और विनम्रतासे बोला—‘युवराजदेव चलिए श्रीसम्राटदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।’

सबोंने सम्राटको अभिवादन किया। सम्राट प्रसन्न थे, इन लोगोंको हृदयसे लगाकर बोले—‘कैसे थे तुम लोग?’

‘हमलोग आनन्दपूर्वक थे पिताजी!’

‘उज्जैनका क्या समाचार है? राज-कार्य सुचारुरूपसे तो चल रहा है?’ बोले सम्राट।

‘हाँ पिताजी! वहाँ सुख शान्ति है।’

‘राजकीय औषधालयोंका क्या समाचार है? और बौद्धधर्मका प्रभाव कैसा है?’

‘औषधालयोंमें चिकित्सक बड़ी तत्परतासे कार्य कर रहे हैं, दूर-दूरके रोगी आ-आकर आरोग्यता प्राप्त कर रहे हैं, औषधियोंके वृत्त रोपे जा रहे हैं। मैं स्वयं औषधालयोंका निरीक्षण करने गया था और उधर दो दिन लग गए। इसीसे यहाँ आनेमें विलम्ब हुआ पिताजी! दयालुताके कारण

बौद्धधर्मके प्रति जनता बड़ी आस्था रखती और आदरसे उसे ग्रहण करती जा रही है।' युवराजने नतमस्तक होकर उत्तर दिया।

'मार्गकी थकानसे युवराज पीड़ित हैं, इन्हें ले जाओ आराम दो दशरथ !' कहते हुए सम्राटने सम्प्रतिको गोदमें उठा लिया। सम्राटको अभिवादनकर सब लौट पड़े।

'प्रमुख द्वार पर महामात्य उपस्थित हैं। श्रीसम्राटदेव !' परिचारक बोला।

'आने दो !'

'जो आज्ञा देव !'

आकर आम्रात्यश्रेष्ठने अभिवादन किया।

'आम्रात्यश्रेष्ठ !' बोले सम्राट।

'आज्ञा देव !'

'महापरिचारकसे बोलिए कि वह युवराज कुणाल और युवराज्ञी कांचनाको उचित परिचर्याका प्रबन्ध कर दें। इन लोगोंको कोई कष्ट न होने पावे।'

'जो आज्ञा सम्राटदेव।' कहकर आम्रात्यश्रेष्ठ युवराजसे मिलने चले गए।

दूसरे दिन प्रातःकालसे ही सम्राटके विवाहकी तैयारी हो रही थी। सारा नगर स्वर्गकी भाँति सुशोभित हो उठा। स्थान-स्थान पर मंगलवाद्य बज रहे थे। सारी प्रजा हर्षमें निमग्न थी। राजनगरके बड़े-बड़े लोग आमन्त्रित थे। नगाड़े बज रहे थे। विवाहमंडपके प्रवेश द्वार पर युवराज कुणाल स्वयं सबके स्वागतार्थ खड़े थे।

प्रमुख लोगों, सभी विद्वानों और पुरोहितको उपस्थितिमें सम्राट और तिष्यरक्षिताका विवाहकार्य सम्पन्न हुआ। लोगोंके जयजयकारसे दिशाएँ प्रतिध्वनित हो उठीं। सभी कह उठे—'सम्राटकी जय। साम्राज्ञीकी जय।' उपस्थित बड़ेसे बड़े व्यक्तियोंके मुखसे सम्राटके साथ अपना जयघोष

सुनकर तिष्यरक्षिताके हर्षका ठिकाना न था। आज उसके मनकी एक बहुत बड़ी साध पूरी हो चुकी थी। आजसे वह परिचारिकासे ऊपर उठकर राजमहिषी है। वह सम्राटके हृदयकी, सारे साम्राज्यको अधिष्ठात्री है। सबके सब राज्यकर्मचारी उसकी कृपाकी आकांक्षा रखेंगे। सब उसके संकेतों पर चलेंगे।

उधर सम्राट भी प्रसन्न थे। सौन्दर्य-प्रतिमा तिष्यरक्षिताको पाकर। विवाह हो जाने पर अब प्रजा-परिषदको उनके आचरण पर सन्देह करने का सम्राटको भय नहीं है। अब तिष्यरक्षिताका विशेष सम्पर्क जो प्रजा-परिषदके हृदयमें सम्राटके प्रति श्रद्धाके स्थान पर घुणाका कारण बन रहा था, वह सब दूर हो गया था।

सुवराज कुणालने पहले सम्राटके तसपश्चात् राजमहिषीके चरणोंका स्पर्श किया। सम्राटने पूछा—‘सब कार्य समाप्त हो गया कुणाल ?’

‘हाँ पिताजी ! सब कार्य समाप्त हो गया। अतिथि लोग अपने-अपने स्थान पर पधारे।’ कहा कुणालने।

सुवराजके अलौकिक सौन्दर्य पर तिष्यरक्षिताकी दृष्टि पड़ी, वह मुग्ध हो गयी। उनके गठित दृष्ट-पुष्ट शरीर और मणिमुक्तालसित राजकीय वस्त्राभूषण, मधुर मुस्कान, अत्यन्त शालीनता और प्रभावशाली व्यक्तित्वने तिष्यरक्षिताको विचलित कर दिया। उसने सोचा—‘जिस प्रकार एक दरिद्रको राज्यकी आकांक्षा होती है, वैसेही यौवनको उन्मादकारिणी अवस्था यौवनकी और सुन्दरताकी अपेक्षा रखती है। मेरे हृदयमें राज-महिषी होनेका लोभ था, यौवनका तिरस्कारकर उसकी प्राप्ति हुई; किन्तु यौवन और राज्य ? राज्यसे यौवनकी सृष्ट्या-वासना कहाँ शान्त हो सकती है ?’ वह पश्चात्ताप कर उठी।

आज तिष्यरक्षिताकी दृष्टिमें यौवनकी मादकताका प्रश्न प्रसून था, राज्यका महत्त्व कम; प्रायः नहींके बराबर था। संसारकी सुन्दरियाँ बिना राजमहिषी पद प्राप्त किए सुखी हैं, क्योंकि उनके यौवनको माँग उनके

समयस्क पति द्वारा पूर्ण हो जाती है और राजमहिषी होकर भी वह बृद्ध सम्राटसे वृत्त हो सन्नेमें निराश है। तिष्यरक्षिता दुःखी हो उठी, उसने राज्यके लोभसे अपने जीवनके साथ खिलवाड़ कर डाला ? अब वह जीवन भर तड़पती रह जायगी। उसे सुख और शान्ति कहाँ मिल सकती है ?

पछुता-पछुताकर मौन थी, दुःखी थी; नवयुवती उन्मादिनी तरंगाकुल तरंगिणीकी भाँति तिष्यरक्षिता। विलुब्ध थी !

‘युवराज !’ बोली तिष्यरक्षिता ।

‘हाँ, माता राजमहिषी !’ झुका दिया मस्तक युवराज कुशालने और सम्मान प्रदर्शित करते हुए अमृतमय शब्दोंमें बोले कुशाल। जिस प्रकार शान्त स्थिर वायुमें पंखा चलाकर गति पैदा कर दी जाती है, वैसे ही कुशालकी वाणीने तिष्यरक्षिताकी दृष्टिको आंदोलित कर दिया। उसके नेत्रोंमें अनेक भाव-चित्र खिंचने लगे। कुशालकी सौन्दर्यमयी प्रतिमाने उसके हृदयमें हलचल पैदा कर दो, वह अपनेको खो बैठी।

‘तुम उज्जैनसे आने पर मुझसे नहीं मिले। अतः मेरा उलाहना स्वीकार करो, यदि मुझसे अप्रसन्न नहीं हो तो।’

‘नहीं माता; आपसे न मिल सकनेका कारण अप्रसन्नता नहीं है। मैं इतना अधिक व्यस्त था कि अवकाश न मिल सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ राजमहिषी ! अब तो जननी ! आप मेरी माता है; अतः मेरा भी भार आपको ही वहन करना है; मैं निश्चिन्त हो गया।’ कहते हुए कुशालने मस्तक नवा दिया।

युवराज अपने प्रकोष्ठमें आजा ले चले गए और उनकी ओर निहारकर तिष्यरक्षिताने उनकी प्रतिमा हृदयमें रख ली।

उन्मादिनी तिष्यरक्षिताकी दशा अकथनीय थी, वासनाजनित अतृप्त व्याकुलताकी आँचमें उसका हृदय दग्ध होने लगा।



युवराज कुणालके रूपका आसवपानकर कामपोड़िता राजमहिषी तिष्यरक्षिता सम्राट अशोकवर्द्धनकी अंकशायिनी उस कक्षमें पड़ी थी; जो अत्यन्त कान्तियुक्त मणिमय सोपानों एवं स्वर्णके वातायनोंसे सुशोभित था, स्फटिकमणिसे निर्मित फर्श जिसमें यत्र-तत्र हाथीदाँत लगे थे, मोती, वज्र, प्रवाल, मणि, स्वर्ण एवं रजतसे बने हुए स्तम्भ जगमगा रहे थे, फर्श मूल्यवान् विछौनोंसे वेष्टित थी, और फर्शके ऊपर स्फटिकमणिकी बनी हुई रत्नोंसे विभूषित पल्लंगके लिए एक वेदी बनी थी। पल्लंगके ऊपर सुन्दर मालाओंसे युक्त चाँदीके श्वेत छत्रके नीचे तिष्यरक्षिता पड़ी थी। दीपकके प्रकाशमें उसकी शोभा द्विगुणित हो उठी थी। सम्राट अशोक क्रीड़ाके पश्चात् पड़े सो रहे थे, किन्तु राजमहिषी तिष्यरक्षिता क्रीड़ासे निवृत्त होकर भी युवराज कुणालकी रूप माधुरीका स्मरण कर थोड़ा आसव पीकर अस्त-व्यस्त अवस्थामें पड़ी तड़प रही थी, उसके वल्ल खिसक गए थे, वह इधरसे उधर करवटें बदल-बदलकर भी शान्ति नहीं पा रही थी। ये सभी सुखकी अर्गाणत वस्तुएँ उसे फीकी लग रही थीं। वह व्यथित थी, उसके नेत्रोंमें नींद नहीं थी। वह धीरेसे एकबार उठी और युवराजको भूलनेके लिए फिर थोड़ा-सा उसने आसव लिया, किन्तु आसवकी मादकता फिर भी युवराजके स्मरणकी मादकतापर अपना प्रभाव न जमा सकी। वह रातभर युवराजको स्मरण करती हुई जागती रही। उसके नयनोंमें युवराज कुणालकी सौन्दर्य-प्रतिमा, प्राणोंमें मधुर कल्पना, वल्लस्थलमें मिलनकी प्रबल उत्कण्ठा और अंग-अंगमें कामवासनाकी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। अन्तःपुरका हास-विलास उसे दुःखदायी हो गया था।

इस प्रकार कितने ही दिन बीत गए।

स्वर्णह्वयके नीचे माणिकमरकतमय सिंहासनपर विशालनेत्र, उन्नत-ललाट, आजानुभुज सम्राट अशोक बैठे थे, शीशपर मणियुक्त किरिट सुशोभित था, सामने सामन्त, सभासद, मंत्रोगण विराजमान् थे, उसी समय युवराज आए और सम्राटको अभिवादन करके आसन पर बैठ गए ।

सम्राट बोले—‘कुणाल ! आ गए तुम ?’

‘हाँ पिताजी; अब उज्जैन जानेकी अनुमति लेने आया हूँ ।’

‘सोच रहा हूँ कुणाल; बौद्धमहासभा तक रुके जाओ ।’

‘जो आज्ञा पिताजी !’

‘आमात्यश्रेष्ठ !’ बोले सम्राट ।

‘हाँ सम्राटदेव !’

‘बौद्धमहासभाके सम्बन्धमें क्या प्रबन्ध हो रहा है ?’

‘जी श्रीसम्राटदेव ! कश्मीर, गांधार, महिसामण्डल (दक्षिणी मैसूर), यवन (यूनानी प्रदेश), अपरन्तका (पैठानिकोंका निवास स्थान), हिमालय प्रदेश, महाराष्ट्र, बनवासी (उत्तरी कनारा), सुवर्णभूमि (बंगाल) और लंका प्रदेशमें गए धर्मप्रचारकोंको सूचना दे दी गयी है कि श्रीसम्राटदेवके संरक्षण एवं भोगालिपुत्र तिस्र (उपगुप्त) की अध्यक्षतामें बौद्धधर्मकी तीसरी महासभाकी आयोजना की जा रहा है;* समय पर आप लोग उपस्थित होकर कार्यक्रम सफल बनाएँ ।’

‘विदेशमें धर्मप्रचारके लिए इस बार विशेष रूपसे विचार करना होगा आमात्यश्रेष्ठ !’ बोले सम्राट ।

‘उचित ही होगा श्रीमान् ।’ आमात्यश्रेष्ठने कहा ।

राज-सभासे सम्राट उठकर चले गए । सभी सभासद भी अपने निवास-स्थानको पधारे ।

कुछ दिनोंके पश्चात् दोपहरका समय था, सम्राट अन्तःपुरमें राज-

महिषी तिष्यरक्षिताके साथ बैठे थे और उसकी सुन्दरतामें आनन्द ले रहे थे, उसी समय द्वारपर परिचारिकाने अपने प्रवेशका संकेत किया।

राजमहिषीसे सम्राट अलग हट गए। परिचारिकाने अभिवादन किया और सम्राटको सूचित किया कि 'द्वार पर आम्रात्यश्रेष्ठ खड़े हैं।'

'उन्हें भेजो।' सम्राटने आज्ञा दी।

प्रतिहारिणीने अभिवादन किया और वह बाहर द्वार पर आ गयी।

आम्रात्यश्रेष्ठ आकर सम्राटको अभिवादन कर खड़े हो गए।

'मैंने असमयमें आकर श्रीमान्जीको कष्ट दिया; इसके लिए देव क्षमा करेंगे।' आम्रात्यने कहा।

'आपका आगमन अकारण नहीं हो सकता वृद्धवर! बोलिए क्या समाचार लाए?' सुस्फुराकर सम्राटने कहा।

'यही बौद्ध-महासभासे सम्बन्धित सन्देश लाया हूँ सम्राटदेव!'

'कल ही तो बौद्धमहासभाका अधिवेशन है, आम्रात्यश्रेष्ठ! सब प्रबन्ध हो गया?'

'हाँ श्रीमान्! सब हो गया। आमन्त्रित लोग आ रहे हैं। अबतक लगभग दो सहस्र बौद्ध परिव्राजक उपस्थित हो चुके हैं।'

'महेश्वर और संघमित्राका समाचार मिला?'

'हाँ सम्राटदेव! मैंने स्वागतार्थ युवराज कुशालको भेज दिया है। उनके आगमनकी सूचना मुझे अभी-अभी एक परिचारक द्वारा प्राप्त हुई है।'

'महासभामें आमन्त्रित लोगोंको कोई कष्ट न होने पाए। ध्यान रखिएगा।'

'जो आज्ञा देव!'

आम्रात्यश्रेष्ठने सम्राटको अभिवादनकर प्रत्यावर्तन किया और इधर-उधर जाकर महासभाकी व्यवस्थामें वे तल्लीन हो गए।

सम्राट बोले—'तिष्ये!'

'आज्ञा सम्राटदेव!' कहती हुई तिष्यरक्षिता उपस्थित हुई।

‘बौद्ध-धर्मके इस अधिवेशनमें यदि सफलता मिली, तो अब विदेश में भी इसका प्रचार होने लगेगा ।’

तिष्यरक्षिताको बौद्ध-धर्मका यह सब बखेड़ा प्रिय नहीं लगता था, किन्तु फिर भी वह सम्राटका इसके प्रति अनुराग देखकर उपेक्षा न कर सकी । दिखावटी प्रेम दिखाकर वह बोली—‘यह सब सम्राटदेवके प्रयत्नका फल है ।’

‘तुम्हारे प्रेमके कारण मेरे चित्तमें शान्ति है भद्रे ! अब मैं तुमसे बल पाकर धर्मकार्यमें पूरा समय दूँगा ।’

राजमहिषी खिन्न हो गयी । वह यह सुनना नहीं चाहती थी ।

‘बोलो प्रिये; ठीक है न ?’

‘श्री सम्राटदेवका कथन उचित जान पड़ता है । ऐसा ही होना चाहिए ।’

‘कल तुम्हें भी काषायवस्त्र धारण करके महासभामें चलना है ।’

‘.....।’ मौन थी राजमहिषी ।

भद्रे ! तुम्हारे सुन्दर शरीर पर यह वस्त्र बड़ा भव्य जान पड़ेगा ।’

तिष्यरक्षिता मुस्करा पड़ी । उसके मुस्कराहटसे सम्राट कामाहत हो गये । उन्होंने अपनी भुजाओंमें राजमहिषीको पकड़ लिया । तिरछी दृष्टि किये तिष्यरक्षिता भूमिकी ओर देखती रही ।

‘देखना भद्रे; सभा-मण्डपमें कहीं ऐसी मुस्कराहटकी मुद्रामें न हो जाना ।’

‘नहीं तो कितने ही लोग विचलित हो जायेंगे ? यही न सम्राटदेव कहना चाहते हैं ?’ कहा तिष्यरक्षिताने ।

‘चाहे और कोई भले ही विचलित न हो, किन्तु मैं तो धैर्य नहीं रख सकता प्रिये !’

‘यह तो हमारे ऊपर श्रीसम्राटदेवकी महती कृपाका ही लक्षण है ।’

‘इसका श्रेय तुम्हींको है प्रिये ! तुमने हमारे लिये महान् त्याग किया

है। राज्य तो तुच्छ वस्तु है, तुमने राज्यके लोभसे मुझे नहीं अपनाया है, बल्कि मैं तो तुम्हारी इसमें बड़ी उदारता देखता हूँ।’

‘सम्राटदेव महान् हैं। उनके मुँहसे छोटी बातें नहीं निकल सकती।’

इसी प्रकार आनन्दमें वह दम्पति हूबा था ? प्रतिहारिणीने आनेका संकेत कर कक्षमें प्रवेश किया और अभिवादन कर खड़ी हो गयी।

‘बोल; क्या संदेश लाई है ?’ सम्राटने पूछा।

‘प्रमुख द्वार पर सम्राट कुमार महेन्द्र और सम्राट कुमारी संघमित्रा उपस्थित हैं, वे श्रीमान्का दर्शन करना चाहते हैं।’

‘आने दो।’ सम्राट बोले।

सम्राट प्रसन्न हो गये। पुत्र और पुत्रीसे मिले बहुत दिन बीत गए थे। ये लोग विवाहमें उपस्थित न हो सके थे। सम्राटको महेन्द्र और संघमित्रा सम्मान प्रदर्शित करनेके लिए अभिवादन करना ही चाहते थे कि सम्राटने उठकर उन्हें हृदयसे लगा लिया। हर्षातिरेकमें सम्राटके नेत्र जलसे परिपूर्ण हो गए। बहुत दिनोंके पश्चात् सम्राटकी दोनों सन्तानें उन्हें नयन-विषय हुई थीं। थोड़ी देर मौन होकर सम्राट बोले—‘तुम लोग आनन्दसे थे न ?’

‘हाँ पिताजी !’ दोनोंने कहा।

तिष्यरक्षिता उन दोनोंके समन्त उपस्थित हुई। उसे दोनोंने अभिवादन किया। उन दोनों काषायवस्त्रधारो सम्राटकी प्रिय सन्तानोंको देखकर तिष्यरक्षिता मुग्ध हो गई। दोनों स्वभावतः सुन्दर थे, नेत्रोंमें विशेष प्रकारके आकर्षण थे और उन दोनोंके आचरणसे पवित्रता आभासित हो रही थी। दोनोंके व्यक्तित्व महान् थे। तिष्यरक्षिता बड़ी प्रभावित हुई उनसे। वह बड़ा विनम्र वाणीमें बोली—‘प्रियवर महेन्द्र ! और बेटी संघमित्रा ! क्या तुम्हे निर्मात्रण नहीं मिला ?’

‘मिला माता राजमहिषी ! किन्तु विवाहकी तिथि समाप्त हो जानेके पश्चात्।’

‘मैंने सोचा तुम लोग हमारे ऊपर अप्रसन्न होनेके कारण ही उस विवाह-समारोहमें नहीं सम्मिलित हो सके ।’

‘माता इसमें अप्रसन्नताका कोई कारण नहीं । हम लोगोंको आपकी आवश्यकता थीं माता ! मातृ-वियोग जनित उदासीनता हमारा अब दूर हो गयी ! हम लोगोंको तो अब आपका ही भरोसा है । हम लोगोंका ही नहीं, अब तो पूरे राज-परिवारका सम्पूर्ण भार आप पर ही आ पड़ा जमनी !’ बोले कुमार महेन्द्र ।

तिष्यरक्षिता गम्भीर मुद्रामें मौन होकर सुनती रही । कुमार महेन्द्रकी बातोंका उसपर प्रभाव तत्काल पड़ा । उसमें कुछ आत्मीयताके भाव स्फुरित हो आए । उसने महेन्द्रको हृदयसे लगा लिया और पवित्र अन्तःकरण संघमित्राका हाथ पकड़कर अपने समीप बैठा लिया । संघमित्राकी पीठ पर हाथ फेरते हुए राजमहिषीने कहा—‘बेटी ! यात्राकी थकानसे तुम थक गयी होंगी । चलो स्नान करो । शरीरमें कुछ स्फूर्ति आ जायगी ।

प्रतिहारिणीने पुनः प्रवेश किया और अभिवादन कर सम्राटसे कहा—‘द्वार पर युवराज कुणाल खड़े हैं देव !’

‘भेजो !’ सम्राट बोले ।

युवराजको प्रवेशकी सूचना देने वह बाहर चली गयी । युवराज भीतर प्रविष्ट हुए । उन्होंने राजमहिषी और सम्राटको अभिवादन किया ।

तिष्यरक्षिता बोली—‘युवराज !’

‘हाँ माताजी !’

‘कुमार महेन्द्रको लिवा जाकर स्नानादिका प्रबन्ध कर दो । बेटी संघमित्राकी व्यवस्था मैं यहीं कर दे रही हूँ ।’

‘जो आज्ञा माताजी !’

तिष्यरक्षिता युवराजको देखते ही विचलित हो जाया करती थी, उसके हृदयमें वासना थी, पाप था । कुणालके हृदयमें श्रद्धा थी, पवित्रता थी ।

समाटकुमारी संवमिनागे कहा—‘माता अभी मैं भाभी कांचनमालासे नहीं मिल सकी हूँ, अतः उनसे जा रही हूँ मिलूँगी और यह उन्हींको कष्ट दूँगी । मैं फिर अवकाश लेकर आपकी सेवामें उपस्थित हो जाऊँगी ।’

तिष्यरक्षिताने आग्रह नहीं किया । उन सबोंने सम्राट और राजमहिषी-को अभिवादन किया और कक्षके बाहर चलना आरम्भ किया । तिष्य-रक्षिताने द्वार तक उन सबोंको पहुँचाया ।



६

राज-भवनसे दूर एक विशाल मैदानमें बौद्धमहासभाके अधिवेशनकी व्यवस्था की गयी थी । सारा मण्डप खूब सजा दिया गया था । स्थान-स्थान पर पतिहारीगण नियुक्त कर दिए गए थे । सभामण्डपके प्रवेश द्वार पर महाप्रतिहार खड़े हाकर आगत विद्वानों एवं भिक्षुओंका स्वागत कर उचित स्थान पर बैठा रहे थे । इस प्रकार महासभामें सम्मिलित होनेके लिए बाहरसे आए हुए परिव्राजकों, आचार्यों, विद्वानों एवं भिक्षुओंको यथास्थान बैठा दिया गया । सब शान्तचित्तसे बैठे थे । चयन, ज्यापान, योरिपु, रौष, आम्नोय आदि देशोंसे विदेशी योग्य बौद्ध विद्वान् तथा तक्ष-शिला, वाराणसी, उज्जैन, काश्मीर, सिंहल, बिदर्भ और कलिंग आदिके भारतीय बौद्ध विद्वान् उपस्थित थे ।

भोगालिपुत्त तिस्स (उपगुप्त) सभापतिके आसन पर बैठे थे । उनके पार्श्वमें परिव्राजकाचार्य भिक्षुश्रेष्ठ महारामा यश विराजमान थे ।

सम्राट अशोक, राजमहिषी तिष्यरक्षिता एवं युवराज कुशाल अभी तक सभामण्डपमें न पधारे थे । उनकी प्रतीक्षा हो रही थी ।

कुछ समय पश्चात् एक सुन्दर रथ पर आरूढ़ हुए युवराज कुणाल

और राजमहिषी तिष्यरक्षिताके साथ काषायवस्त्र धारणकर प्रियदर्शी सम्राट् अशोकवर्द्धन् सभामण्डपके प्रमुखद्वार पर आ पहुँचे ।

महाप्रतिहारने झुककर सम्मान प्रदर्शित करते हुए उन्हें अभिवादन किया । आम्रात्यश्रेष्ठने सम्राटके निकट पहुँचकर उनका स्वागत किया और सादर उन्हें लाकर स्वर्णसिंहासन पर बैठा दिया । उनके पार्श्वमें युवराज और राजमहिषी तिष्यरक्षिता भी बैठ गयीं । सारा सभामण्डप काषायवस्त्र-धारी बौद्धोंसे देदीप्यमान् हो उठा । सम्राटके हृदयमें हर्ष छा गया ।

सभाका कार्यक्रम आरम्भ हो गया । विद्वानोंके भाषण एक दूसरेके पश्चात् प्रारम्भ हो गए । बौद्धधर्मके प्रसरणके लिए सभी विद्वानोंने अपना-अपना दृष्टिकोण उपस्थित किया । अपने सिंहासनसे सबसे पीछे सम्राट उठ खड़े हुए और बोले—‘आगत विद्वानों ! आपलोगोंने बौद्धकी उन्नतिके लिए जो दूर-दूरसे कष्ट उठाकर पदार्पण किया और अपने अमूल्य उपदेशोंसे सबको लाभान्वित किया है, मैं अत्यन्त आभारी हूँ । विगतकालके राजाओंकी कामना थी कि धर्मके साथ उन्नति करें, किन्तु धर्मकी उन्नति न हो सकी । किस प्रकार धर्मकी यथेष्ट उन्नति हो ? किस प्रकार लोगोंको धर्मके साथ उच्च बनाऊँ ? इस पर मैंने विचार किया है मैं धर्म-संदेशों अथवा अनुशासनोंको प्रकाशित कराऊँगा एवं धर्म-विधान अथवा धर्मकी शिक्षा दूँगा । धर्मकी शिक्षा सुनकर लोग उसपर आचरण करेंगे । इस प्रकार धर्मके साथ उनका स्तरोन्नयन होगा । मेरे पुरुष जो हजारों मनुष्योंके ऊपर शासनके लिए नियुक्त हैं—धर्म-प्रचार करेंगे, रज्जुकको भी, जो सौ सहस्र प्राणियोंके ऊपर शासनके लिए नियुक्त हैं, वे भी धर्मकी शिक्षा लोगोंमें मिलकर देंगे । इसके लिए मैं धर्म-स्तंभ, धर्ममहामात्र स्थापित करूँगा तथा शिलालेख लिखाऊँगा । इस प्रकार मैं धर्मके प्रचार हेतु, १—धर्मानुशासन, धर्मलिपि, धर्म-स्तंभ, २—धर्मविधान और ३—धर्म-महामात्र आदि उपायोंसे काम लूँगा ।’

‘इनमेंसे धर्ममहामात्रोंका धर्म-प्रचारमें प्रमुख कार्य होगा । सम्प्रदाय-

गत विभिन्नता दूर करनेका प्रयत्न किया जायगा; क्योंकि इससे विघ्न उपस्थित होता है। धर्ममहामात्रोंमें धर्मकी देखभाल, धर्मकी वृद्धि और धर्म पर आचरण करनेवालोंके सुख एवं हितके लिए विशेष प्रयत्नशील होना है। इसके अतिरिक्त सर्वमङ्गलके लिए हमारे राजकर्मचारियोंको विशेष ध्यान देना होगा।'

‘आमात्यश्रेष्ठ !’ कहा सम्राटने।

‘आज्ञा सम्राटदेव !’ कहते हुए, आमात्यश्रेष्ठ उठ खड़े हुए।

‘सार्वजनिक हितके लिए रेणु-रुक्त प्रान्तर पर पेड़ लगवाना, फल-फूलोंके वृक्ष रोपना, कूएँ खुदवाना, धर्मशालाएँ बनवाना, पशुओं एवं मनुष्योंके लिए औषधालयोंका निर्माण कराना आदि लोकोपकारी कार्योंकी व्यवस्था शीघ्र करनी है।’

‘जो आज्ञा सम्राटदेव !’

‘धर्म महामात्रोंके द्वारा ब्राह्मणों, गृहस्थियों, असहायों और वृद्धोंके सुखके लिए कार्य भार सौंपा जाता है, वे बौद्धधर्मकी अलौकिक-सार्वलौकिक कल्याण-भावनाका प्रचारकर उसके विस्तारके लिए प्रयत्नशील होंगे। प्रत्येक पाँचवें वर्ष युक्त, रण्युक और पादेशिक सर्वत्र मेरे विजित राज्यमें राज्यकार्यके अतिरिक्त धर्म-प्रचारके लिए दौरा करें। धर्म प्रचारका कल्याणमय कार्य सीमान्त प्रदेशोंमें भी उसी लगनसे होना चाहिए। सीमान्त प्रदेशके अन्तर्गत यवन, कम्बोज, गांधार तथा अपरंताके अन्य प्रदेश, राष्ट्रिक, पैठानिक, नामाक या नाभर्षतिमें भी धर्म-प्रचारका कार्य हम लोगोंका प्रमुख कर्त्तव्य है।’

उपस्थित लोगोंने ताली बजाकर हर्ष व्यक्त किया। इस मंगलमय कार्यके लिए प्राणियोंमें संयम और अहिंसा आवश्यक है। मनुष्योंके अतिरिक्त पशुओंके भी स्वास्थ्य, वृद्धि, रक्षण और भरण-पाषाणका कार्य होना चाहिए। कोई पशु यज्ञ अथवा होमके लिए न मारा जाय। हमारे राज्यके अन्तर्गत तोता, मैना, अरुण हंस, बनहंस, नन्दोमुख सारस

(बक) जलुका (चमगीदड़) चींठी, मछलियाँ विदर्भी (विशेष मछली) संकुन्नमच्छ, कछुआ, कपाठ-शय्यका प्राणशश, बारहसिंहा, ओकपिंडा, बतक, श्वेत बतक और पालतू बतक एवं अन्य चतुष्पद जो न किसी काममें आते हैं और न खाए जाते हैं, इनका मारना वर्जित किया जाता है। बकरी, भेड़ी, शूकरी, जो नव प्रसूता है या जो दूध देती है, न मारी जायँ तथा इनके बच्चे जो छुः महीनेसे कम हैं, वे भी न मारे जायँ। मुर्गोंके मारनेकी अनुज्ञा नहीं है। जिस भूसेमें जीव हों, वह फूँका न जाय। विना प्रयोजन तथा प्राणियोंकी हिंसाके कारण जंगल जलायें न जायँ। जोवका पोषण जोवसे न होना चाहिये। तीन त्वातुर्मासों तथा तिष्य (पौष महीना) पूर्णिमाके दिवस मछली न तो मारी जा सकती है और न बेची जा सकती है। ऐसा तीन दिनों तक होगा; अर्थात् प्रथम पक्षके १४ वें, १५ वें दिन और दूसरे पक्षके पहले दिन तथा अन्य उपवासके दिनोंमें भी इस आज्ञाका पालन करना होगा। इन्हीं अवसरों पर हाथियोंके जंगल और केवट भोगस्तेयोंमें अन्य प्रकारके पशु न मारे जायँ। प्रत्येक पक्षके आठवें, चौदहवें, पंद्रहवें तिथिपर एवं तिष्य एवं पुनर्वसु दिवसके अवसर पर बैलो पर गरम लोहेका दाग न लगाया जाय। भेड़ों, बकरो शूकरो एवं अन्य दागे जानेवाले जानवरोंको ऐसे अवसरों पर दागा न जाय।'

'हमें यह सब धर्मके कार्य अपने राज्य तक ही नहीं सीमित करना है; किन्तु विदेश—चोड़, पाण्ड्य, सत्युपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णीके राज्यों एवं अन्तियोकस, यवन, कम्भोज, राष्ट्रिक, पैठानिक आन्ध्र नाभति, मग, तुरमय, अलिकसुन्दर एवं अश्टिगोनसके यवन राज्योंमें तथा अंतिकोयस, सोरिया, मिश्र, मैसीडोनिया, इपीरस, कैरीन, चीन एवं ब्रह्मा आदि देशोंमें भी धर्म-प्रचारकर विश्वमें धर्मकी पताका फहरानेका प्रयत्न करना है।'

'सर्व-भूतानां अक्षति च समचेरां च, संयम् च, मोदवं च'के अनुसार विश्व बन्धुत्वके निकट आना है।'

‘आचार्य मोगालीपुत्र तिस्र !’ सम्राटने कहा ।

‘हाँ सम्राटदेव !’ उत्तर मिला

‘भगवान्का धर्म कितना महान् है ?’

‘भगवान्के धर्मके चौरासी हजार खण्ड हैं देव !’

‘अच्छा, मैं प्रत्येकके अर्थ एक एक विहार अर्पण करूँगा । मेरे अधीनस्थ यहाँ जितने राजा उपस्थित हैं, उन्हें विहार बनवानेका आदेश दिया जा रहा है ।’

‘आमात्यश्रेष्ठ !’

‘आज्ञा सम्राटदेव !’

‘पाटलीपुत्रमें एक ‘अशोकाराम’ नामक विहार बनवानेका प्रबन्ध करें । इस समय धर्मके प्रचारार्थ मेरे हृदयमें जो कामनाएँ हैं, जो योजना है, वह सब करनेके लिए अधिक समयकी अपेक्षा रखता है । समय थोड़ा है, अतः इस सम्बन्धमें आमात्यश्रेष्ठ मुझसे फिर मिलें और वर्तलाप कर लें । यहाँ तो इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूँ कि धर्मानुराग, लगन, आत्मसंयम और महान् उत्साहके बिना किसी महान् उद्देश्यकी पूर्ति नहीं होती । धर्म-महात्माओंकी नियुक्ति आमात्यश्रेष्ठ अपनेही हाथोंमें लें ।’

मस्तक झुकाकर आमात्यश्रेष्ठ बोले—‘जो आज्ञा सम्राटदेव !’

सम्राटने महाबलाधिकृतकी ओर दृष्टिकी, वे खड़े हो गए और मस्तक नवाकर बोले—‘आज्ञा देव !’

‘धर्म-प्रचारके कार्यमें जितने मनुष्योंकी आवश्यकता हो, आमात्यश्रेष्ठ की इच्छानुसार प्रबन्ध करें ।’

शीश झुकाकर महाबलाधिकृतने समर्थन किया ।

‘कोषाध्यक्ष ! और महाभाण्डागाराधिकृत !’ संवेत करते हुए बोले प्रियदर्शी सम्राट ।

दोनों नत-भाल मुद्रामें खड़े होगए और आज्ञाकी प्रतीक्षा करने लगे ।

सम्राट बोले—‘आमात्यश्रेष्ठको जितने द्रव्यकी आवश्यकता धर्मप्रचा-

रार्थ हो, दें। जितनी आवश्यक वस्तुओंकी इन्हें जरूरत हो, तुरन्त प्रबन्ध करें।'

'जो आज्ञा सम्राटदेव !' कहते हुए वे लोग बैठ गए।

'धर्मप्रचार-कार्यकी योजनाके संबंधमें विचार-विमर्शके लिए आमात्य-श्रेष्ठ ! मैं आपको आमन्त्रित करता हूँ, भूलेंगे नहीं।'

आमात्यश्रेष्ठने सम्मान प्रदर्शित करते हुए समर्थन किया।

बौद्धमहासभा विसर्जित हुई। सब लोग यथास्थान चले गए।

युवराज कुयाल, राजमहिषी तिष्यरक्षिता और सम्राट अशोक फिर एकही रथपर बैठ राजभवनकी ओर चल पड़े।

मार्गमें तिष्यरक्षिता बोली—'सभामण्डपमें भीड़के एकही प्रकारके वस्त्र धारण करनेसे एक अपूर्व दृश्य दिखाई पड़ता था।'

'यह पिताजीकी धर्म-प्रियताका उज्वल प्रतीक था माताजी !' बोले युवराज कुयाल।

आनन्दमें तिष्यरक्षिता झूम उठी। वह कुयालकी बातोंमें विशेष आनन्दका अनुभव किया करती थी; वह कुयालसे वार्तालाप करनेमें रुत न होती थी। तिष्यरक्षिता बोली—'तभी तो युवराज; सम्राटने धर्मोन्नतिके निमित्त महान् घोषणाकी है।'

'अब सभी धर्मोंसे बौद्धधर्मका स्तर ऊँचे उठ जायगा, माताजी !' कुयालने कहा।

'यदि बौद्ध-धर्म राज्य-धर्म घोषित कर दिया गया तो अवश्य ही यह श्रेष्ठ धर्म हो जायगा युवराज !' तिष्यरक्षिता बोली।

इसी प्रकार आपसमें बातें करते हुए, वे सब राजभवन पहुँचे। युवराज कुयाल राजमहिषी और पिताको अभिवादन कर अपने आवास स्थानकी ओर चल पड़े।

राजमहिषी तिष्यरक्षिताके साथ सम्राटने अन्तःपुरमें प्रवेश किया। अन्तःपुरमें प्रविष्ट होकर सम्राटने काषायवस्त्र बदलकर अन्य वस्त्र धारण

किया और तिष्यरक्षिता वहीं समीप खड़ी थी ।

सम्राटने कहा—‘भद्रे ! वस्त्र बदल लो ।’

‘सम्राटदेव काषायवस्त्रसे ऊब गए हैं, किन्तु मेरा मन अभी नहीं ऊबा है ।’ मधुर मुस्कानके साथ तिष्यरक्षिताने कटाक्ष किया ।

सम्राट उसके निकट आगए और उसके कन्धे पर हाथ रखते हुए बोले—‘भद्रे ! धर्मप्रचारके समय अवसर विशेष पर ही काषाय वस्त्र धारण करता हूँ ।’

‘तो महाराजका मन भी वस्त्र-परिवर्तनके साथ-ही-साथ इस समय बदल गया है !’ मुस्कराते हुए श्रृंगड़ाई लेकर राजमहिषी बोली ।

‘प्रिये ! तुम्हारा अपना अलग महस्व है । तुम्हारी रूपमाधुरी बरबस अपनी ओर खींच ही लेती है और जब तुम्हारा स्मित बदन, तुम्हारी भावभंगिमा देखता हूँ, तो विवश हो जाता हूँ ।’ बोले सम्राट ।

‘मानव-शरीर क्षणभंगुर है देव ! इसमें इतनी आसक्ति ठीक नहीं ।’

सम्राट हँस पड़े । तिष्यरक्षिताकी बात सुनकर ।

‘सम्राटदेवने शायद यही सोचकर हँसा है कि अब तक सभामण्डपमें मैं बोलता था, सबको सुननेके लिए; किन्तु यहाँ मैं बोलती हूँ ।’ अनुभव किया और कहा तिष्यरक्षिताने ।

‘हाँ शुचिस्मिते ! तुम्हारा अनुमान यथार्थ है ।’

‘श्रीसम्राटदेव जब सभामण्डपमें बोलनेके अधिकारी हैं, तो मैं भी अन्तःपुरमें अपना अधिकार मानती हूँ ।’ मुस्करा पड़ी तिष्यरक्षिता ।

‘अन्तःपुर ही क्यों तुम तो हमारे हृदय और समग्र शासनकी भी अधिकारिणी हो प्रिये ।’ सम्राट बोले ।

‘मुझे क्षमा करें सम्राटदेव ! मुझे अवसर पर मर्यादाका ध्यान नहीं था ।’

‘मर्यादाका तुमने उल्लंघन कहाँ किया प्रिये; जो क्षमा माग रही हो । प्रणय वार्तामें इतनी सूक्ष्म मर्यादा नहीं देखी जाती ।’

‘सम्राटदेवकी दृष्टि दोषरहित है, अतः दोष होने पर भी उन्हें नहीं दिखाई पड़ता । सम्राट महान् हैं । चन्द्रमाका विंश गन्दे जलमें भी स्वच्छ दिखाई पड़ता है ।’

‘किन्तु भद्रे तुम्हारी भावना गन्दे जलके समान नहीं है ।’ कहते हुए, सम्राटने उसे बाहुपाशमें जकड़ लिया ।

तिष्यरक्षिता मौन थी, मुस्कुरा रही थी ।



७

बौद्ध महासभाके समाप्त होने पर सम्राटके आदेशानुसार उपयुक्तने थीरोंको धर्म-प्रचारके हेतु हजर उधर भेजा; जिसमें मुख्य प्रेषित गण थे— (१) मभन्तिक—काश्मीर और गांधारमें, (२) महादेव—महिसा मण्डल (मैसूर मानवाता) में (३) महारक्षित—यवन, यूनानी प्रदेशमें, (४) धर्मरक्षित, (जो मूलतः यवन था)—अपरंतका (यह पैठानिकों का निवास स्थान था) में, (५) मञ्जहिमा—हिमालय प्रदेशमें, (६) महाधर्मरक्षिता—महाराष्ट्रमें, (७) रक्षित—चोङ्ग, पाण्ड्य, सरयपुत्र और केरलपुत्रमें, जिन्हें उत्तरी कनारा या वनवासी प्रदेशके नामसे कहा गया है, (८) सोन और उत्तरा—सुवर्ण भूमि या पेगु और मौलमें । और (९) महेन्द्र, राष्ट्रिय, उत्तरीय संबल और भद्रासर—लंका या सिंहलमें आदि ।

हिमवन्त या बर्फीले प्रान्तमें यक्ष, गन्धर्व, नाग एवं कुम्भकोने चौरासी हजारकी संख्यामें बौद्ध-धर्म स्वीकार किया । काश्मीर और गांधार प्रदेशमें थीरोंके प्रभावसे असी हजार मनुष्योंने बौद्ध-धर्मको अंगीकृत किया तथा

एक लाख मनुष्यों ने थीरोसे प्रव्रज्या ग्रहण की। महादेव थीरोने महिसा-मण्डलमें जाकर चालीस हजार मनुष्योंको बौद्धधर्म स्वीकार कराया और चालीस हजार मनुष्य उसके द्वारा भिक्षु बने। रक्षित थीरो वनवास प्रदेशमें साठ हजार मनुष्योंको बौद्ध-धर्म स्वीकार कराया तथा सैंतीस हजार मनुष्योंको दीक्षा देकर भिक्षु बनाया। इस थीरोने वहाँ पाँचहजार बिहार भी बनवाए। थीरो योनको (यवन) ने अपरंतका प्रदेशमें ७० हजार लोगोंको धर्मका रहस्य बताया, जिससे एक हजार क्षत्रिय और उससे भी अधिक महिलाएँ भिक्षु-संघमें प्रविष्ट हो गईं। महाराष्ट्र प्रदेशमें थीरो महारक्षितने चौरासी हजार मनुष्योंको बौद्ध-धर्म ग्रहण कराया तथा तेरह हजार मनुष्योंको भिक्षु बनाया। थीरो या आचार्य महारक्षितने यवन प्रदेशमें एक लाख, सत्तर हजार मनुष्योंको बौद्ध-धर्म ग्रहण कराया तथा दस हजार मनुष्योंको दीक्षा दी। आचार्य मज्जहिमोने अन्य चार आचार्योंके साथ हिमवन्त प्रदेशमें असी करोड़ मनुष्योंको बौद्ध-धर्म अंगी-कृत कराया। यहाँके पाँचों थीरोके समाजमें एक लाख मनुष्योंने दीक्षा ली और संघमें प्रवेश किया। इसी प्रकार आचार्य सोन, आचार्य उत्तर सुवर्णभूमिमें छः लाख मनुष्योंको बौद्ध-धर्मका ज्ञान कराया तथा २५००० लोगोंको दीक्षा दी तथा डेढ़ हजार भिन्न जातिके स्त्री-पुरुषोंको भिक्षु संघमें प्रविष्ट किया।

इस प्रकार बौद्ध-धर्मका बड़े धूमधामसे प्रचार एवं प्रसार होने लगा।

अन्तःपुरके प्रमुख द्वार पर एक दिन संध्या समय युवराज कुशाल उपस्थित हुए। प्रतिहारिणीने सम्मान प्रदर्शित किया।

युवराजने सम्राटकी सेवामें सूचना देनेकी आज्ञा प्रदानकी।

प्रतिहारिणीने कक्षमें प्रवेशकर मस्तक झुकाया और सूचना निवेदित की—प्रमुख द्वार पर युवराज उपस्थित हैं, सम्राटदेव !”

‘भेजो ।’

प्रतिहारिणी बाहर चली गई ।

कक्षमें युवराज कुणालने प्रवेश किया; सम्राटको और माता तिष्यरक्षिताको उन्होंने अभिवादन किया ।

‘कहो कुणाल ! कैसे आए ?’ पूछा सम्राटने ।

‘अनुमतिके लिए आया हूँ पिताजी; कांचन और सम्प्रतिके साथ कल प्रातःकाल उज्जैयिनी जाना चाहता हूँ ।’ कहा कुणालने ।

तिष्यरक्षिताकी आशा पर तुषारापात होगया । वह घबरा गयी । उसने कुछ और ही सोचा था । तत्काल उसने कहा—‘प्रिय युवराज ! मैं तुम्हें वहाँ जानेकी अनुमति न दूँगी और न देने दूँगी ।’

मुस्कुरा पड़ी तिष्यरक्षिता । उसकी और देखने लगे युवराज और सम्राट भी ।

‘वहाँ शीघ्र प्रस्थान न करनेसे अब शासनमें कुछ ढीलापन आ सकता है, माताजी !’ कहा कुणालने ।

‘मेरी आज्ञा है कि तुम उज्जैनी न जाओ । तुम्हारे वहाँ जानेसे मुझे दुःख होगा ।’ तिष्यरक्षिता बोली ।

‘मैं यह जानता हूँ माताजी ! कि आपका मेरे ऊपर अपार स्नेह है; किन्तु शासनका कार्य कैसे चलेगा, अतः इसे देखते हुए आपकी आज्ञाका नहीं, मोहका कुछ त्याग करना ही पड़ेगा ।’

‘नहीं मेरे युवराज ! सम्राटदेव वृद्ध हो चले हैं, पाटलिपुत्रमें रहकर राज्यकार्य देखना; क्योंकि अब यहाँ तुम्हारे सहयोगकी आवश्यकता है । कुमार दशरथको उज्जयिनी भेज दिया जायगा । यहाँ रहनेसे तुम राजनगरकी परिस्थितियोंसे अवगत हो सकोगे ।’ तिष्यरक्षिताने कहा ।

‘बैठा कुणाल ! राजमहिषी तुम्हारी मा ठीक कह रही है । मेरे पश्चात् तुम्हेंको सम्राट होना है; अतः यहाँकी सभी परिस्थितियोंसे भिन्न होना अत्यन्त आवश्यक है ।’ सम्राटने कहा ।

‘जो आज्ञा देव !’ बोले कुणाल ।

तिष्यरक्षिता सम्राटकी बात सुनकर प्रसन्न होगयी ।

युवराज कुणाल राजनगर पाटलिपुत्रमें ही रहने लगे । धीरे-धीरे राज्यकार्य तिष्यरक्षिता और युवराज कुणाल ही देखने लगे । सम्राट अब आराम करने लगे । उधर बनावटी प्रेममें तिष्यरक्षिताने सम्राटकी वशीभूत कर रखा था । युवराजको उजयिनी न जाने देकर तिष्यरक्षिताने सोचा था—धीरे-धीरे अत्यन्त निकट रहकर युवराज हमारे सौन्दर्य पर आकृष्ट हो ही जायँगे ।

युवराज कभी-कभी उससे परामर्शके लिए उसके निकट आने लगे और वह उनसे अत्यधिक आत्मीयता दिखाने लगी । वह अपनी ओर युवराजके आकृष्ट होनेकी सफलता पर प्रमत्त होने लगी ।

हृद चरित्र युवराजके हृदयमें पवित्रता थी और माताके प्रति पुत्रका जो सहज अनुराग होता है, वही था; किन्तु इस प्रेमको तिष्यरक्षिता दूसरे दृष्टिकोणसे देखती थी । उसका विश्वास था कि मैं अपनी आशामें सफल होरही हूँ । उसके हृदयमें पाप था और कुणालके प्रति प्रबल आसक्ति ।

यह सब होते हुए भी युवराजको उसके गन्दे विचारोंका पता न था । उसके प्रेममय विचारोंको वे अत्यधिक मातृस्नेहके रूपमें ही देखनेको अभ्यस्त थे । उधर पहले तिष्यरक्षिताने यही सोचा था कि युवराज हमारे सौन्दर्य पर आकृष्ट होकर स्वतः विचलित होजायँगे, किन्तु वह अर्धिक प्रतीक्षा करने पर भी असफल रही । युवराजके पवित्र आचरणमें कोई विकार पैदा न हुआ ।

किन्तु तिष्यरक्षिता व्यथित थी, उसके हृदयमें आंदोलन था । वह अपने प्रयत्नमें विफल थी ।

जब तिष्यरक्षिताका सौन्दर्य युवराजको प्रभावित न कर सका, तब वह अन्य उपाय ढूँढनेके लिए विवश हुई । उसकी वासना तीव्रतर होने लगी । उसे देवी कांचनमाला पर ईर्ष्या हुई । उसने सोचा यदि कांचन युवराजकी

संतुष्टिके लिए न होती, तो मैं अपनी आकांक्षामें अवश्य सफल होती । रात-दिन वह कुणालके लिए रह-रहकर तड़पने लगी । उसने सोचा यदि एक बार भाँ मैं युवराजको हृदयसे लगा सर्की तो मेरी तृषा शान्त हो जायगी और संभव है, तब युवराज भी मुझसे प्रेम करने लगेँ । वह युवराजको अत्यधिक प्रेम करने लगी । जिस दिन युवराज राज्यकार्यसे अवकाश पाकर उससे न मिल पाते, वह उन्हें स्वयं बुलवा लेती और कुछ न कुछ बड़े आग्रह और प्रेमके साथ बिना खिलाए न मानती ।

तीसरी बौद्ध-महासभामें सम्राटकी घोषणानुसार राज्यमें बनाए जानेवाले स्तूपोका कार्य प्रबल वेगसे होरहा था । सम्राटके शयन-प्रकोष्ठके प्रमुख द्वार पर आम्रात्यश्रेष्ठ आ पहुँचे ।

सम्राट शयन-प्रकोष्ठमें राजमहिषीके साथ वार्तालाप कररहे थे । प्रतिहारिणीने आकर राजमहिषी तथा सम्राटको सम्मान प्रदर्शित किया । सम्राट बोले—‘क्या है; प्रतिहारिणी ?’

नतमस्तक होकर प्रतिहारिणी बोली—‘श्रीसम्राटदेवसे मिलनेके लिए प्रमुख द्वार पर आम्रात्यश्रेष्ठ पधारे हैं ।’

‘भेजो ।’

सम्राटके समक्ष उपस्थित होकर राजमहिषी और सम्राटको अभिवादन कर आम्रात्यश्रेष्ठने सम्मान प्रदर्शित किया ।

‘कहो वृद्धवर ! कैसे कष्ट किया आपने ?’

‘सम्राटदेवको सूचना देने आया हूँ कि जो कुछ पहले स्तूप बने थे उनकी मरम्मत करा दी गयी है और कितने ही स्तूप नष्ट बनवाए गए हैं ।’ आम्रात्यश्रेष्ठने कहा ।

‘इस समय कहाँ-कहाँ स्तूप होगए हैं आम्रात्य श्रेष्ठ ?’

आम्रात्यश्रेष्ठ जो स्तूपोकी तालिका बना लाए थे, सामने उपस्थितकर बोले—‘देखिए श्रीमान् !’

स्तूपोकी तालिका हाथमें लेकर सम्राटने तिष्यरक्षिताको दे दिया और

कहा—'देखो भद्रे ! पढ़ो तो ?'

तिष्यरक्षिता पढ़ने लगी—

(१) कपिला—(काफिरस्तान)—यहाँ पर एकसौ फीट ऊँचा पिलुसार स्तूप बना, (२) नगर (जलालाबाद), (३) उदयान—इस स्थान पर भगवान् बुद्धने राजा शिविके रूपमें कबूतरको छुड़ानेके लिए वाज्रको अपना माँस दिया था, (४) तक्षशिला—इस स्थान पर भगवान् बुद्धने अपना सिरदान दिया था, (५) सिंहपुर यहाँ ४०-५० ली दक्षिण—पूर्वमें २०० फीट ऊँचा पत्थरका स्तूप है । (६) उरस, (७) कश्मीर—यहाँ पर चार स्तूप हैं, (८) थानेश्वर—यहाँ पर ३०० फीट ऊँचा स्तूप है, (९) श्रुयन, (१०) गोविसन—यहाँ बुद्धदेवने धर्मका प्रचार किया था, (११) हयमुख, (१२) प्रयाग—यहाँ एकसौ फीट ऊँचा स्तूप है । इसी स्थान पर शास्त्रार्थ करनेवालोंको बुद्ध भगवान्ने पराजित किया था । (१३) कौशाम्बी—इस स्थान पर बुद्धदेवने धर्म प्रचार किया था, (१४) कपिलवस्तु—इस स्थानपर २० फीट ऊँचा स्तूप बना है । (१५) श्रावस्ती—यहाँ पर ७० फीट ऊँचा स्तम्भ है, (१६) रामग्राम—इस स्थानपर बुद्धदेवने अपने बालोंको कटवाया था और यहींसे छन्दक सारथीको वापस लौटाया था, (१७) कुशीनगर—यहाँ पर २०० फीट ऊँचा स्तूप बना है, इस स्थान पर आठ राजाओंके मध्य बुद्धदेवके अवशेषोंका बैठवारा हुआ था, (१८) सारनाथ, (१९) गान्धीपुर, (२०) महाशाल यहाँपर कुंभ स्तूप है, (२१) वैशाली यहाँपर ६० फीट ऊँचा स्तूप है, (२२) वज्जी—यहाँ पर बुद्धदेवने धर्मका प्रचार किया था (२३) गया, (२४) बौद्ध-गया—इस स्थान पर एक घसि-हारिनने बैठनेके लिए बुद्धदेवको घास दी थी (२५) पाटलिपुत्र, (२६) राजगृह, (२७) ताम्रलिपि, (२८) कर्मसुवर्न, (२९) उड़ीसा (३०) दक्षिण कोशल, (३१) चोल प्रदेश, (३२) द्रविड और कांचीप्रदेश (३३) बल्लभी (३४) महाराष्ट्र, (३५) मुल्तान,

(३६) अफन्तु—सिन्धके पास, (३७) सिन्धके पास, (३८) चीनपटी—यहाँ २०० फीट ऊँचा स्तूप है, (३९) मथुरा और (४०) यहाँ पाटलिपुत्रमें अशोकाराम या कुककुटाराम विहार है। इसके अतिरिक्त प्रस्तर स्तंभोंकी भी व्यवस्था होरही है जो आज्ञानुसार यथास्थान स्थापित किए जायेंगे।’

सम्राट इस तालिकाको सुनकर प्रसन्न होगए। उन्होंने पूछा—‘आमात्य-श्रेष्ठ ! इन स्तूपोंको देखना चाहता हूँ।’

‘जो आज्ञा महाराज !’

बनावटी मनसे तिष्यरक्षिता बोली—‘क्या सम्राटदेवके साथ चलनेकी मुझे भी अनुमति होगी ?’

वास्तवमें सम्राट विलासितासे कुछ ऊब भी उठे थे और उनके मनमें कुछ उचाट ऐसा पैदा होगया था कि कुछ समय धर्म-प्रचारके कार्यमें लगना चाहते थे और तिष्यरक्षिताके अस्यन्त सम्पर्कताके कारण उन्हें कुछ शिथिलता—अस्वस्थता—का अनुभव होने लगा था, अतः उन्होंने दो-एक महीनेके लिए राजमहिषीसे अलग रहना आवश्यक भी समझा था। स्तूपोंके निरीक्षणमें तिष्यरक्षिताको साथ न लेकर, अकेले जानेमें उन्हें दो लाभ सुझाई पड़े। पहला स्वास्थ्यसुधार और दूसरा धर्मप्रचार। थोड़ी देर मौन रहनेके पश्चात् सम्राट बोले—‘भद्रे ! आमात्यश्रेष्ठके साथ मैं बाहर स्तूपोंके निरीक्षणकाकार्य करने जाऊँगा। तुम्हारा कुणालके साथ रहकर शासनकाकार्य देखनेका उत्तरदायित्व बढ जाता है। अतः तुम्हारा पाटलिपुत्रमें ही रहना आवश्यक प्रतीत होता है।

तिष्यरक्षिता तो वास्तवमें यही चाहती भी थी, वह आनन्दमग्न होगयी; उसका हृदय आनन्दमें घड़कने लगा। कुछ समय तक एकान्तमें कुणालको पाकर वह निश्चय ही उसे अपनी ओर आकृष्ट कर लेगी। उसे सफलता प्रतीत होने लगी। आन्तरिक आनन्दपर नियंत्रण कर वह बोली—‘इस प्रकार निरीक्षण कार्यमें श्रीसम्राटदेव कितने दिनोंतक बाहर रहेंगे ?’

‘डेढ़-दो महीनेकी अवधिमें सम्भवतः कार्य समाप्त हो जायगा, भद्रे ।’

थोड़ी देरमें मौन रहकर वह बोली—‘जो आज्ञा सम्राटदेव !’

सम्राटने आमात्यश्रेष्ठसे कहा—‘कुखालको भेजिए ।’

आमात्यश्रेष्ठ युवराजको बुलवानेके लिए परिचारकको भेज ही रहे थे कि वे स्वतः आते दिखाई पड़े ।

‘आइए युवराज’ श्रीसम्राटदेव आपको स्मरण कर रहे हैं ।

आमात्यश्रेष्ठको सम्मानप्रदर्शित करते हुए युवराज सम्राटके समक्ष उपस्थित होनेके लिए उनके शयन-प्रकोष्ठमें प्रविष्ट हुए । वहाँ उन्होंने पिता और माताका चरण स्पर्श किया और विनीत भावसे पूछा—‘पिताजी; आज्ञा प्रदान करें, किसलिए स्मरण किया है आपने ?’

‘बेटा; दो-डेढ़ महीनेके लिए मैं बाहर दौरे पर कल जारहा हूँ, स्तूपोंके निरीक्षण कार्यके लिए, तुम राजमहिषीके साथ शासनका कार्य देखोगे ।’

‘जो आज्ञा पिताजी !’ युवराज बोले ।

‘इसीलिए तुम्हें बुलवाया था । जा सकते हो ।’

पिता और माताके चरणोंमें कुखाल मस्तक नवाकर चले गए । प्रातःकाल दूसरे दिन तैयारी कर आमात्यश्रेष्ठ सम्राट-अशोकवर्द्धनसे जा मिले ।

सम्राटके समक्ष विनत होकर वे बोले—‘श्रीसम्राटदेव ! तैयारी पूरी है और रथ भी तैयार होगया है; श्रीमान्जीकी प्रतीक्षाकी जा रही है ।’

एक घंटेमें सम्राट तैयार होगए और आमात्यश्रेष्ठके साथ निरीक्षण कार्यके लिए चल पड़े ।



वृहदाकार दर्पणके समक्ष अपने शयन-प्रकोष्ठमें तिष्यरक्षिता खड़ी हो गयी। उसे महान् आश्चर्य हुआ। आज सम्राटको बाहर गए आठ-दस दिन व्यतीत हो गए, किन्तु युवराज उसके सम्पर्कमें आकर और उसे एकान्तमें पाकर भी उसके सौन्दर्य पर आकुष्ट न हुए।

तिष्यरक्षिता चकित थी, वह अपने युगकी अपनेको सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी मानती थी और थी भी। जितेन्द्रिय सम्राट अशोक उसके सौन्दर्य पर ही तो आसक्त हो गए थे; भला इससे बढ़कर उसके सौन्दर्यका और क्या प्रमाण हो सकता था।

वह युवराजसे क्या कहे, कैसे कहे? सोच-सोचकर उसका हृदय धड़कने लगता। वह बेचैन हो उठी।

उसने आज अपना खूब शृङ्गार किया और पुनः दर्पणके समक्ष जाकर अपना रूप देखा। आपादमस्तक अंग-प्रस्थंग उसने दर्पणमें देख डाला। कितना भव्य रूप है—सोचा उसने। एक बार तो वह शान्त हुई, फिर सोचा—‘देखें, आज उस पाषाण-हृदयमें इस सौन्दर्यके लिए लोभ उत्पन्न होता है, या नहीं?’

इसी समय प्रतिहारिणी आ उपस्थित हुई और अभिवादनकर उसने निवेदन किया कि—‘प्रमुख द्वार पर युवराज उपस्थित हैं।’

‘उन्हें भेजो।’

वह प्रतिहारिणी बाहर चली गयी।

युवराजने प्रवेश किया। तिष्यरक्षिता बोली—‘आओ युवराज! कलसे ही तुम दिखाई नहीं पड़े।’

‘इसीलिए आज इस समय चार ही बजे माताजी सेवामें उपस्थित हुआ हूँ। कल दौरे पर चल गया था; इसीलिए नहीं उपस्थित हो सका।’

क्षमा करें राजमहिषी-जननी !' अभिवादन करते हुए बोले कुणाल ।

'युवराज ! तुम तो जानते ही हो कि मैं आजकल यहाँ अकेली ही इसलिए जी ऊब जाता है । तुम्हारे भरोसे ही तो मैं यहाँ रुक गयी, नहीं तो मैं भी सम्राटके साथ चली जाती ।'

'मैं तो इसीलिए आता रहता हूँ, माताजी ! कहीं कोई कष्ट तो आपको नहीं है ? मैं सदा ध्यान रखता हूँ मुझे नौकरों और परिचारिकाओं पर उतना विश्वास नहीं है, जितना कि मुझे स्वयं अपने पर । फिर भी मैं तो सेवाके लिए तत्पर ही हूँ, जो आज्ञा हो । हाँ कल न आ सका, इसके लिए क्षमा करें । अब ऐसा न होगा । जब तक पिताजी न आ जायेंगे मैं राजभवन छोड़कर बाहर न जाऊँगा ।'

'उज्जैनमें मैं वेष बदलकर रात्रिमें भ्रमण किया करता था । यही सोच रहा हूँ कि आजसे यहाँ भी वही कार्य किया करूँ ।'

'इससे क्या लाभ है ?'

'कितनी ही बातोंका सुधार हो जाता है, माताजी ! इसका मैंने उज्जैनमें अनुभव किया है ।'

अवसर पाकर तिष्यरक्षिता बोली—'ठीक है, कहो तो मैं भी साथ चला करूँ ?'

'नहीं माता ! आपको रात्रिमें कष्ट होगा ।'

'तुम तो साथ हो ही, और फिर प्रजाके कष्टको दूर करनेके लिए अपने कष्टको भूलना ही पड़ता है, युवराज !'

'ठीक है माताजी ! आपका कथन; किन्तु आप कहाँ चलेंगी ?'

'खैर, आज मैं तुम्हारे साथ वेष बदलकर भ्रमण करूँगी और देखती हूँ कि कितना सफल होती हूँ । आज परीक्षा कर लो, कलसे उचित समझना तो साथ ले चलना नहीं तो बन्द हो जाऊँगी ।' कहकर मुस्कुरा उठी तिष्यरक्षिता ।

'अच्छा; जो आज्ञा ।' कुणाल बोले ।

तिष्यरक्षिता कुछ आशान्वित हुई। आज वह अपनी जलन दूर करेगी, उसने प्रण किया। उसका हृदय उद्वेलित हो उठा। ।

युवराज बाहर जानेके लिए तत्पर हो गए। तिष्यरक्षिताने कहा—
‘युवराज ! तुमने कुछ खाया नहीं। लो कुछ खाकर तब जाओ।’

उसने अंगूरका एक गुच्छा लाकर युवराजके समक्ष रख दिया। आरामीयता दिखानेके लिए वह गुच्छेसे तोड़-तोड़कर अंगूर युवराजके हाथों पर रखती जाती थी और युवराज बड़े प्रेमसे खाने लगे।

तिष्यरक्षिताने मुस्कराकर कहा—‘युवराज ! कांचन तुम्हें इतने प्रेमसे न खिलाती होगी।’

मौन ही रहकर मुस्करा पड़े युवराज।

‘बोलो युवराज !’

‘बोलूँ क्या माताजी ! उसके और आकके प्रेममें महान् अन्तर है। आपके प्रेमकी तुलना कांचनके प्रेमसे नहीं हो सकती। माताका स्नेह बड़ा हर हालतमें होता है, उसकी बराबरी भला पत्नीका प्रेम कर सकता है ? ओह ! माताका निःस्वार्थ प्रेम होता है।’ कहा कुशालने।

एक बार तिष्यरक्षिताकी इच्छा हुई कि वह कुशालसे अपनी प्रबल-आकांक्षा—प्रणय-निवेदनके लिए कह दे; किन्तु उसका साहस न हुआ। कुशालका चरित्र पवित्र और महान् था।

‘युवराज ! जब तुम मुझे माता कहते हो, तो मैं लजित हो जाती हूँ, मैं तुमसे अवस्थामें कितनी छोटी हूँ।’ मुस्कराकर तिष्यरक्षिता बोली।

‘इससे क्या माताजी ! आपका पद बड़ा है। समाजमें मनुष्यका मूलयांकन अवस्थासे नहीं होता, पदसे होता है। आप मेरी माता हैं। आपका पद बड़ा है।’

‘ठीक है युवराज ! ठीक है।’ एक क्षणके लिए वह गंभीर हो गयी। दूसरे क्षण उसने कुशालको हृदयसे लगा लिया, उसका हृदय धड़कने लगा। उसने अपनी भुजाओंमें युवराजको झोरसे दबाया।

तिष्यरक्षिताके इस आलिगनसे युवराज चौंक पड़े । उन्होंने कुछ और ही अनुभव किया । युवराजके पवित्र और सन्देहगत मनोभावोंका अनुभव कर तिष्यरक्षिताने तुरन्त अपना विचार बदल दिया और कहा—‘युवराज ! तुम ठीक कहते हो माताका हृदय पुत्रके लिए विशाल होता है ।’

अब युवराज, जो तिष्यरक्षिताके आचरण पर सन्देहकर चौंक पड़े थे, लज्जाका अनुभव करते हुए एक बालककी भाँति उसके हृदयसे चिपक गए और उनका सन्देह जाता रहा । वे अपनेको ही धिक्कारने लगे ।

कुणाल तिष्यरक्षितासे अलग होकर बोले—‘माता अब जा रहा हूँ । आवश्यक का है ।’

‘अच्छा तो आज रात्रि-भ्रमणके लिए चलना है, मैं तैयार रहूँगी, तुम कब तक आ जाओगे ?’

‘लगभग दस बजे तक आ जाऊँगा । ऐसा ही अनुमान है माताजी !’
कहा कुणालने ।

‘अच्छा जाओ ।’ तिष्यरक्षिता बोली ।

युवराजने उसे प्रणाम किया और वे बाहर चले गए ।

युवराजके चले जाने पर वह फिर दर्पणके समक्ष उपस्थित हो गयी । उसके हृदयमें कितने ही विचार उत्पन्न हुए और वह बार-बार सोचती रही । उसके रोम-रोममें अंग-प्रत्यंगमें युवराजके लिए उन्माद छा गया । उसने आज युवराजके लिए उनका आलिगनकर प्रणय-द्वार खोल दिया था, किन्तु युवराज उसके सौन्दर्य पर आकृष्ट न हुए । सौन्दर्य वह सौन्दर्य नहीं जिसपर जितेन्द्रिय भी एक बार विचलित न हो जाय, किन्तु ‘समाप्त मेरे सौन्दर्य पर ही सुग्ध हुए थे ।’—सोचा उसने ।

आजकी घटनासे तिष्यरक्षिताने अनुमान किया—‘मेरी सुन्दरतासे कुणालका चरित्र महान् है; अतः सौन्दर्य पर वे कभी नहीं आकृष्ट हो सकते, कभी नहीं डिग सकते । वह बेचैन होकर प्रकोष्ठमें इधर-उधर घूमने लगी । उस दिन वह अत्यधिक व्यग्र थी, युवराजको हृदय लगाकर अब

वह अपनी वासना-जनित ज्वाला शान्त करेगी, किसी भी बहाने यदि उसने फिर युवराजको हृदयसे लगाया तो इस बार वह उनकी भी वासना डभार देगी और यदि एक बार भी युवराजने उसकी आकांक्षा पूर्णकी तो सदैवके लिए वे उसके दास बन जायेंगे और वे सब कुछ भूलकर उसके इशारे पर चलने लगेंगे। कांचनका भी साथ छोड़कर वे उसके हो जायेंगे। यदि कहीं उसकी उपेक्षा युवराजने की तो वह साम्राज्ञी है, नष्ट-भ्रष्टकर देगी और युवराज फिर किसी कामके नहीं रह जायेंगे। वे तब देखेंगे कि स्त्रोके हृदयकी वासना कितनी भयंकर होती है।

आज वह युवराजको नशेमें अभिमूतकर देगी, उन्हें जब यह ज्ञान नहीं रहेगा कि मैं तिष्यरक्षिता हूँ, बल्कि मुझे कांचन होनेका ही वे निश्चय करेंगे, तब मैं अपनी आग आज बुझा लूँगी और भविष्यके लिए भी आशा बनी रहेगी।

परिचारिकाको राजमहिषाने बुलाया और कुछ मादकद्रव्य लानेका आदेश दिया।

परिचारिका चली गयी और राजमहिषीका हृदय उरफुल्ल हो उठा। उसने ऐसा मार्ग निकाला कि अब उसकी आकांक्षा निर्विघ्न पूर्ण हो जायगी।

थोड़ी देरमें परिचारिका आयी और उसने निवेदन किया कि राज-महिषीकी सेवामें मादकद्रव्य उपस्थित है।

‘श्रच्छा ! ठीक है, रखदो।’

‘जो आज्ञा राजमहिषी !’

परिचारिका चली गयी।

ठीक समय पर युवराज रात्रि-भ्रमणके लिए उपस्थित होगए।

तिष्यरक्षिताने बड़ी आत्मीयतासे कहा---‘आओ युवराज ! रात्रि-भ्रमणके लिए तुम तैयार होकर आगए ?’

‘हाँ माताजी !’

‘किन्तु मैं तो अभी तैयार न हो पायी । तुम थोड़ा विश्राम करलो, तबसे मैं भी तैयार हो जाऊँगी ।’

युवराज पलँग-पर लेट रहे थे कि तिष्यरक्षिताने हाथमें मादक-द्रव्य लेकर कहा—‘लो युवराज मेरा आग्रह है, थोड़ा इसे पीलो ।’

उसने अपने हाथसे युवराजकी ओर पात्र बढ़ा दिया । युवराजने यह नहीं सोचा था कि यह कोई मादकद्रव्य है, पीने लगे और पी गए ।

तिष्यरक्षिताने पूछा—‘कैसा है इसका स्वाद युवराज ?’

‘यह बहुत स्वादिष्ट है माताजी !’

‘थोड़ा और लाऊँ ?’

‘नहीं इतना पर्याप्त है माताजी !’

‘नहीं-नहीं; थोड़ा और लो ।’—कह दूसरे पात्रमें उसने थोड़ा और दिया । युवराज उसे भी पी गए । थोड़ी देर पश्चात् वह बोली—‘युवराज भाँग तुम पीते हो ?’

‘नहीं माताजी; नशीली वस्तुएँ मैं नहीं सेवन करता ।’

‘कभी तुमने भाँगका स्वाद लिया है ?’

‘कभी नहीं ।’

‘तो तुमने पहले ही क्यों नहीं बता दिया । इसमें थोड़ी-सी भाँग पड़ी थी ।’ मुस्कराकर तिष्यरक्षिता बोली ।

कुणालने मुस्कराकर कहा—‘सच ! इसमें भाँग पड़ी थी ? माताजी ? मुझे क्या मालूम कि आप भाँग पिला रही हैं ?’

‘लैर, कोई बात नहीं । इसमें नाम-मात्रके लिए भाँग है, कोई हानि नहीं होगी । नशा थोड़ी हो सकती है, किन्तु इसकी नशा बड़ी श्रानन्द-दायक होती है, युवराज !’

‘अब तो आपने पिला दिया है, देखिए ।’

‘अच्छा तुम थोड़ी देर लेटकर आराम करो, तब तक मैं तैयार हो आती हूँ ।’ तिष्यरक्षिताने कहा ।

युवराज उसकी पलँग पर लेट गए। तिष्यरक्षिता चली गयी, दूसरे कक्षमें। उसने सोचा आघ घण्टेमें युवराज नशाभिभूत हो जायँगे और चलनेमें असमर्थ भी; अतः उसने जान-बूझकर विलम्ब करना प्रारम्भ कर दिया।

थोड़ी देरके पश्चात् युवराजका कंठ सूखने लगा। भाँगकी नशा चढ़ने लगी, एक घण्टे पश्चात् तिष्यरक्षिताने कक्षमें प्रवेश किया। उसने देखा युवराज नशेमें आगए हैं। युवराजको बड़ी घबराहट हुई, वे मौन हो गए। नशेमें वे चलने-फिरनेमें असमर्थ हो गए। उन्हें इस दशामें पड़ा देख तिष्यरक्षिता सम्राटके प्रकोष्ठमें, चली गयी और परिचारिकाको बुलाकर उसने उसे सोनेके लिए जानेका आदेश दे दिया। परिचारिका चली गयी। तिष्यरक्षिता फिर सम्राटके प्रकोष्ठसे होते हुए अपने शयन-कक्षमें प्रविष्ट हुई, उसने यह कार्य इसलिए किया, जिससे परिचारिकाओंको यह कदापि न पता चले, कि युवराजके साथ अपने शयन-कक्षमें राजमहिषी पड़ी हैं।

अपने शयन-कक्षमें आकर तिष्यरक्षिताने सब ओरसे दरवाजोंको भीतरसे बन्दकर लिया।

युवराज भाँगके नशेमें इतने अभिभूत थे कि उन्हें यह ज्ञान नहीं रह गया कि वे अपने शयन-प्रकोष्ठमें देवी कांचनमालाके साथ हैं अथवा राज-महिषी तिष्यरक्षिताके साथ उसके शयन-कक्षमें।

युवराज बोले—‘प्रिये ! कंठ सूख गया है ... कंठ ... पानी ... ।’
तिष्यरक्षिता तो यही सुनना चाहती थी। आज उसका मन-मयूर हर्षसे नृत्यकर उठा। वह युवराजके निकट चली गयी।

तिष्यरक्षिता मौन थी। आज वह युवराजके प्रत्येक अंगका इच्छानुसार स्पर्शकर सकती थी।

तिष्यरक्षिता वासनाके संपूर्णवेगसे उद्वेलित हो उठी। जिसके लिए वह रात्रिमें, दिनमें सर्वथा उन्मादिनीकी भाँति तड़प रही थी, जिसके दृढ़

चरित्रके आगे कभी भी अपनी बातें कहनेका उसे साहस नहीं हुआ था, आज वह उसके षडयन्त्रमें आ पड़ा है। दिन-दिनकी आकांक्षाओंकी पूर्तिका समय उसने सहज ही पा लिया है। युवराजकी बातोंमें आनन्दका अनुभवकर उनकी ओर उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। आज उसने युवराजके मुखसे 'प्रिये' शब्द सुना था; उसके दुःखका, उसकी व्यथाका, उसकी ग्लानिका आवेग इस शब्दके सुनते ही दूर हो गया। वह बोलना चाहती थी, कि कह दे 'प्राणनाथ क्या आज्ञा है ?' किन्तु सोचा उसने बोलनेसे यदि युवराजको कहीं पता चला कि कांचन नहीं, मैं हूँ; तो सब बना बनाया कार्य नष्ट हो जायगा।

युवराज बोले—'... प्रिये ! कंठ ...सूख गया है, पानी...लाओ। तुम्हें नींद आ गयी है ? ... बोलो ?'

तिष्यरक्षिता बोली—'हूँ।'

'पानी लाओ।' युवराज बोले।

तिष्यरक्षिताने जलपात्रमें थोड़ासा जल दिया। युवराजने जल पान किया और तब उनकी कुछ चेतना लौटी। वे कुछ प्रकृतस्थ हुए। ज्योंही उन्होंने दृष्टिपात किया उन्हें कामातुरा तिष्यरक्षिता समस्त अव्यवस्थित दशामें दिखाई पड़ी।

युवराज काँप गए और उनका मन ग्लानिसे भर उठा। वे उठे और भाग जाना चाहते थे, तिष्यरक्षिता मुस्कुरा रही थी और खड़ी होकर युवराजके समक्ष बोली—'प्राणनाथ ! क्यों भाग रहे हैं ?' उसने वातावरण मादक बना देनेका प्रयत्न किया।

युवराजकी ग्लानि क्रोधमें बदल गयी, उन्होंने उसे जोरसे धक्का देकर गिरा दिया और बोले—'हट जा दुष्ट हृदये ! सामनेसे ! कुलटा ! पापिष्टे ! नीच; वेश्या कहीं की ! हट जा ! मैं तेरा मुँह नहीं देखना चाहता।' युवराज क्रुद्ध, लज्जित और ग्लानियुक्त थे। उनके ऊपरसे जैसे नशाका प्रभाव दूर हो गया था।

युवराजके इस व्यवहारकी तिष्यरक्षिताने कल्पना नहीं की थी, उसने सोचा था—‘युवराज हमारे दास बन जायँगे—सम्राटकी तरह । वे हमारे प्रेममें पागल हो जायँगे । उसने अपना घोर अपमान देखकर कहा— ‘युवराज ! तुमने मेरा अपमान किया है और मेरा पातिव्रतधर्म नष्ट करना चाहा है । मैं यह सहन नहीं कर सकती । तुम्हें क्या अधिकार था, जो हमारे शयन-प्रकोष्ठमें आकर रहे और मुझे असहाय समझकर तुमने मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहा । मैं अवश्य तुम्हारे इस अपराधका दण्ड दिलाकर ही रहूँगी । तुम युवराज हो ! मैं राजमहिषी ! मैं तुम्हें दिखा दूँगी कि राजमहिषीका कोप कितना भयंकर होता है । तुमने मर्यादा भंगकी है ।’

युवराज सन्न हो गए, उनकी चेतना लुप्त हो गयी । वे कुछ बोल न सके ।

तिष्यरक्षिता बोली—‘मैं तुम्हारे इस आचरणके संबंधमें स्वयं न्याय करूँगी—पौर-सभाके सामने । अथवा सम्राटसे कहूँगी ।’

युवराज अब विवर्ण हो गए, स्तब्ध हो गए । सोचने लगे—‘अब क्या होगा ?’

‘बोलो कुणाल ! यह सब क्या किया तुमने ? दुनियाँ तुम्हें चरित्रवान् जानती है, किन्तु तुम बड़े कामुक हो, कामवासनासे प्रेरित होकर तुमने मर्यादा भंगकी है ।’

युवराज मौन थे । लज्जा, भय, श्लानिसे संकुलित हृदयमें वे कोई विचार नहीं उत्पन्न कर सके ।

‘मैंने तुम्हारा आचरण इतना निन्दनीय नहीं समझा था । तुम मुझे माता कहते थे, किन्तु तुम्हारे हृदयमें पाप था, वासना थी । सारी दुनियाँ तुम्हें साधु, सच्चरित्र और जितेन्द्रिय समझती है; किन्तु तुम पाण्डी, धूर्त हो । रात्रिमें आकर तुमने मुझे अपमानित करना चाहा है । तुम ‘प्रिये’, ‘प्रिये’ कहकर बारबार सम्बोधित कर रहे थे ? कौन जानता था कि तुम्हारे

हृदयमें इतना बड़ा पाप था ?' तिष्यरक्षिता बोली ।

युवराजको याद आया; उन्होंने प्रिये कहकर सम्बोधित किया है; किन्तु वे तो कांचनको कह रहे थे ।

‘मैं सत्य कहता हूँ माता राजमहिषी ! मैंने कांचनको समझा था ।’

‘वासनाका हृदयमें जब उद्वेलन होता है; तो तुम्हारी ही तरह पागल होकर प्राणी कुछका कुछ समझ लेता है, यह कोई नवीन बात नहीं है, कुणाल ! सभी अपनी मर्यादा छोड़ बैठते हैं । वही तुमने भी किया है ।’

युवराजको भेष आगयी, उन्हें पश्चात्ताप और ग्लानि होरही थी, यह सब क्या होगया, वे समझ नहीं पा रहे थे । उनकी भावनाओंको वाणीका रूप नहीं मिल पा रहा था ।

तिष्यरक्षिता अब भी कुणालके समक्ष खड़ी थी । कुणाल सिर नीचे किए उसके समक्ष खड़े थे; अपराधाकी भाँति ।

राजमहिषीने पुनः पूछा—‘बोलो; इसका तुम्हारे पास क्या उत्तर है कुणाल ! यह सब मर्यादाके विरुद्ध तुमने क्यों अपराध किया ?’

थोड़ी देरमें कुणालकी जैसे चेतना लौट आई और वे बोले—‘यह जो कुछ भी हुआ है, इसका सारा उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर है । तुम्हींने रात्रि-भ्रमणके वहाने मुझे यहाँ लुलाया और रात्रिमें भाँग पिला दिया । मैं नशेमें चूर्य होगया और तुमने ही मुझे इस कक्षमें इस पलंग पर लिटा दिया । यदि तुम्हारी कलुषित भावना न रही होती, तो तू इस कक्षमें क्यों आती ? मैं तो बेसुध पलंगपर पड़ा था और तुम तो चेतनावस्थामें थी ?’

‘ठीक है कुणाल तुम्हारा कथन, किन्तु तुमने पानी माँगा था और जब मैं तुम्हें जल दे रही थी, तभी तुमने हाथ पकड़कर मुझे खींच लेना चाहा । उस समय यदि मैं संभल न गयी होती तो हमारा पातिव्रतधर्म समाप्त हो जाता ।’

‘किन्तु यदि तुम्हारा कथन सत्य है कि तुम्हारे साथ मैंने अन्याय

करना चाहा, तो क्या तुमने शोर किया ? इससे सिद्ध है, तुमने ही यह सब बाल रचा है, तुम्हारी स्वयं ऐसी इच्छा थी; अतः इस सारी घटनाका उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर ही है ।’

‘शोर करती तो यह जानकर सर्भा तुमसे और मुझसे घृणा करते । इसीलिए मैंने मौन रह जाना ही अच्छा समझा । मर्यादाकी रक्षाके लिए ही मैं मौन थी ।’

‘क्या पौर-सभाके समक्ष हमारे अपराधके कथनमें तुम घृणासे अपनी रक्षा कर सकती हो ? तुम्हारी मर्यादा बनी रह सकती है ?’

धर्मभीरु युवराजके विचारों पर उसने पुनः सोचा और कहा—‘मेरी मर्यादा ! हाँ यदि तुम चाहे तो एक बात कहती हूँ—‘अब तुम मुझे माता न कहा करो, प्रियतम ! ‘प्रिये !’ कहकर ही संबोधित किया करो ।’ एक बार वह फिर मुस्कराकर आगे बढ़ी और युवराजको हृदयसे लगाना चाहता थी ।

युवराज पीछे हट गए और वहाँसे बाहर होजाना चाहते थे ।

तिष्यरक्षिताने कहा—‘जाओ युवराज ! अब निश्चय ही तुम्हारे आचरणमें मुझे घृणा उत्पन्न होगयी है । चाहे भले ही पौरसभा या सम्राटसे इस घटनाका वर्णन न करूँ, किन्तु मेरे अपमानका दण्ड तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा । न इस प्रकार सही, दूसरे ही ढङ्गसे, भोगना अवश्य पड़ेगा । जाओ ।’

युवराज कुशाल रुकना नहीं चाहते थे और न उससे बातें ही करना चाहते थे । वे तुरन्त कक्षसे बाहर होगए ।

तिष्यरक्षिता लौटी । वह विचार-मग्न होगयी ।

युवराज धीरे-धीरे तिष्यरक्षिताके संबन्धमें सोचते जाते थे और उन्हें इस ओरसे जाते कोई देख न ले; बचा-बचाकर जा रहे थे—अपने भवनकी ओर । अब भी युवराजके हृदयमें घोर ग्लानि थी । इस संबन्धमें वे किसीसे कुछ कहकर अपना मन हल्का नहीं कर सकते थे । दुःख-सुखकी

सहचरी प्राणवल्लभा कांचनमालासे भी वे इस संबन्धमें कुछ नहीं कहना चाहते थे। इस निन्दनीय बातको भला वे किसीसे कैसे कहते। उन्होंने सोचा—‘अब अवश्य राजनगर पाटलीपुत्रमें रहना उनके लिए विशेष हानिकर है। यदि कोई साधारण कारण भी दृष्टिगत हुआ तो भी उसी बहाने यहाँसे दूर होजाना ही अच्छा है। मैं भला किस प्रकार अब इस दुष्ट-हृदयाको माता कहकर उसके समक्ष अभिवादन करूँगा। कांचनने पहले ही कहा था—‘तिष्यरक्षिताका सम्राटके साथ विवाह हम लोगोंके लिए अहितकर होगा।’ उस समय मैंने उत्तर दिया था—‘प्रिये ! यह बात मुँहसे न निकाली। मुझे माता मिल गयी। मनुष्यका हिताहित स्वयं उसके ऊपर ही अवलंबित है; मैं स्वयं माता राजमहिषीके साथ ऐसा व्यवहार करूँगा कि उन्हें हमारे संबन्धमें अहितकर दृष्टिकोण अपनानेका अवसर ही नहीं प्राप्त होगा।’

युवराजकी उदासीनता और श्लानता देखकर कांचनमालाने पूछा—
‘देव ! आज आप बहुत खिन्न दिखायी पड़ते हैं।’

‘हो सकता है प्रिये !’

‘इसका कुछ कारण अवश्य होगा देव !’

पहले युवराज सब बातें कांचनसे गुप्त रखना चाहते थे, किन्तु कांचनके विशेष आग्रहपर सब घटना ज्योंकी त्यों वे सुना गए। कांचनने दाँतोंसे जीभ दबाकर बड़ा क्षोभ प्रकट किया।



सम्राट शीघ्रही निरीक्षण कार्य समाप्तकर लौट आए। वे तत्कालिका और न जा सके। अतः कुल बीस दिनोंके प्रवासके पश्चात् ही वे राजनगर पाटलिपुत्र वापस लौट आए।

उस दिनकी घटनाके पश्चात् फिर राजमहिषीके समक्ष युवराज न आ सके। बिगड़ी हुई परिस्थितिमें सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाकर वे सामंजस्य लाना चाहते थे। जिसका उन्होंने उसके समक्ष न आना ही एकमात्र उपाय समझा।

और तिष्यरक्षिताने समझ लिया था—कुणाल मेरे घृणित व्यवहारसे असन्तुष्ट हो गए हैं, अब वे मेरी ओर दृष्टि उठाकर देख भी नहीं सकते। उस दिनसे वह भी बहुत खिन्न रहने लगी। युवराजकी उस दिनकी भर्त्सना भरी बातें आज भी उसके मर्मको पीड़ा पहुँचा रही थीं।

‘कुलटा ! हट जा दुष्ट हृदये ! पापिष्ठे ! नीच ! वेश्या कहींकी ! सामनेसे हट जा !’ ये सब वाक्य उसे कंठ हो गए थे। इसका वह एकांतमें बार-बार स्मरण करती और तब उसका स्वाभिमान जाग उठता—‘राजमहिषी हूँ ! मेरा इस प्रकार अपमान ? कुणालको वाणीमें संयम रखना चाहिए था !’ उसके कपोल और नेत्र अरुण वर्ण हो जाते और दृष्टि स्थिरकर वह मौन हो जाती।

+ + +

‘आजकल तुम क्रुश हो गयी हो प्रिये !’

‘हाँ, सम्राटदेव ! अकेले आपकी अनुपस्थितिमें मेरा मन खिन्न रहता था !’

‘क्या कुणाल नहीं आता था तुम्हारे पास ?’

‘नहीं सम्राटदेव !’

कुणालका एकांतमें नवयुवती राजमहिषीके समक्ष न आना सम्राटने उसके आचरणकी महानता समझा।

‘वह महान् है भद्रे ! वह जानता है कि किसी नवयुवतीके साथ एकांतमें रहनेसे आचरण दोषग्रस्त हो जाता है। धन्य है, कुणाल ! तभी तो दुनियाँ उसके ऊपर मुग्ध है !’ कहा सम्राटने स्वाभिमानपूर्वक।

तिष्यरक्षिताने, जो कुणालकी प्रशंसा नहीं सुन सकती थी, कहा—‘इसमें

श्रीसम्राटदेवकी महानता दिखाई पड़ती है, किन्तु मुझे कुणालकी इर्ष्या दृष्टिगत होती है। वे मुझसे दिखावटी प्रेम करते हैं; किन्तु मनमें बड़ी जलन रखते हैं। एकान्तमें क्या वे क्षणमात्रके लिए आकर मेरा कुशल-क्षेम भी नहीं पूछ सकते थे? और तो और, क्या उनकी पत्नी कांचन-माला भी नहीं आ सकती थी। माना कुणालका यश मेरे सामने आनेसे नष्ट हो जाता, किन्तु कांचनको क्यों नहीं भेजते रहे? इससे सिद्ध है सम्राट-देव! वे सब मुझसे बड़ी जलन रखते हैं।’

सम्राट गंभीर हो गए। मौन हो गए।

तिष्यरक्षिता बोली—‘कांचन मुझे अब भी परिचारिकाश्रेष्ठी सम्भक्ती है।’

‘यह तुमने कैसे सम्भू लिया?’

‘मनुष्यके व्यवहारसे ही उसके हृदयगतभावोंका पता चल जाता है देव!’

‘यह तो ठीक है प्रिये! किन्तु एकाएक किसीके संबंधमें भ्रान्त धारणाओंको न ग्रहण कर लेना चाहिए। कभी-कभी इससे बड़ी हानि हो जाती है।’ कहा सम्राटने।

‘श्रीसम्राटदेवका कथन यथार्थ है, किन्तु मनको मन पहचानना है।’ तिष्यरक्षिता बोली।

‘अच्छा प्रिये! मैं इस संबंधमें यथार्थताका पता लगानेकी चेष्टा करूंगा।’ बोले सम्राट उसे शान्दवना देते हुए।

सम्राटका आगमन सुनकर युवराज उनके दर्शनोके लिए आ उपस्थित हुए।

परिचारिकाने भीतर प्रविष्ट होनेका संकेतकर सम्राटको अभिवादन किया और बोली—‘श्रीसम्राटदेवसे मिलने युवराज द्वार पर उपस्थित हैं।’

‘भेजो’। बोले सम्राट।

परिचारिका बाहर गई और उसने युवराजको भेज दिया।

‘आओ बेटा !’ बोले सम्राट ।

युवराजने सम्राटका चरण स्पर्श किया और एक बार तो तिष्यरक्षिता-को प्रणाम करनेका उनका मन नहीं कह रहा था, किन्तु फिर भी उन्होंने उसको भी अभिवादन किया ।

‘कहो कुणाल ! कोई विशेष बात तो नहीं है ?’ स्वाभाविक मुद्रामें सम्राट बोले ।

‘नहीं पिताजी ! केवल दर्शानेके लिए चला आया हूँ ।’

‘राजमहिषी तुम्हारी निन्दा कर रही हैं । मेरे चले जाने पर तुम इनकी खोज-खबर भी नहीं लेते रहे । इनका कथन है कि तुम कभी भी इनके पास नहीं उपस्थित हुए ।’

पहला वाक्य सुनकर कुणालका हृदय काँप गया । आकृति म्लान हो गयी । तिष्यरक्षिता मुस्कुग पड़ी, उनके बदलते हुए चेहरेको देखकर; किन्तु सम्राटके दूसरे वाक्यसे कुणाल प्रकृतस्थ हो गए । वे बोले—‘इधर चार-पाँच दिनोंसे मैं नहीं आ सका था, इसके पहले तो मैं निरन्तर ही आ जाया करता था । इधर न आनेका अवसर न पाने पर भी मैं राज-महिषीका ध्यान रखता था, पिताजी !’

‘इधर आज-कल तुमने कोई विशेष कार्य नहीं किया ?’

‘शिलालेख तैयार करानेके प्रयत्नमें रहा हूँ पिताजी !’

‘इधर राजकार्यका प्रबन्ध कैसा चल रहा है ?’

‘मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, पिताजी ! ठीकही चल रहा है । अब तो रात्रिमें भी भेष बदलकर स्वयं गुप्तचरका भी कार्य करता हूँ ।’

‘ठीक है, तुम जा सकते हो ।’

युवराजने सम्राट और राजमहिषीको सम्मान-प्रदर्शित किया और कक्ष से बाहर पदार्पण किया ।

सम्राट बोले—‘भद्रे ! कुणालके व्यवहारसे किसी ऐसी भावनाका आभास नहीं मिला, जो तुम्हारे प्रतिकूल कहा जा सके ।’

‘सम्राट महान् हैं, अतः सबको महान् समझतेमें अभ्यस्त हैं मैंने तो पहले ही कह दिया था, कि कुणालका दिखावटी प्रेम और है और हृदयमे मेरे प्रति भाव और ही हैं ।’

‘भाई मैं सुम्हारी इन बातों पर विश्वास नहीं कर सकता ।’
तिष्यरक्षिता मौन हो गयी ।



१०

उस दिनकी घटनासे युवराजदेव ! मेरा मन भंगभीत हो गया है । राजमहिषीकी उस दिनकी वासनापूर्ण भंगिमाका, जिसका आपने वर्णन किया था, याद आते ही मेरा कलेजा थरथरा उठता है । आपने उस उन्मादिनीको अपमानित कर उसके क्रोधको उभार दिया है, किस समय वह षडयंत्रकर आपका प्राण संकटमें डाल सकती है, कहा नहीं जा सकता । रात-दिन मैं इसी आशंकामें बेचैन हूँ ।’ कांचनमालाने कहा ।

‘युवराज बोले—‘नहीं प्रिये ! ऐसा न सोचो । उस दिन राज-महिषीके आचरणमें संयोगवश अव्यवस्था हो गई थी; किन्तु मुझे ऐसी कोई भयदायक बात नहीं दिखाई पड़ती; जिससे मेरे प्राणोंका संकट उपस्थित हो जाय । सम्राटदेवके समक्ष उस दिन राजमहिषीकी भावनाओं-से पता चल गया है कि वे उस घटनाको किसीके समक्ष प्रकट न कर सकेंगी ।’

‘किन्तु आपने उन्हें अनेक अपशब्द कह डाला है, जिससे वे आपने अपमानका अनुभव आज भी कर रही हैं । मैं समझती हूँ, चाहे उनकी भावनां भले ही आपके प्रति गन्दी न हो, किन्तु आपको सतर्क ही रहना चाहिये ! इस सम्बन्धमें आमास्यश्रेष्ठने भी सावधान रहनेके लिए कह

दिया है। आपकी प्राणरक्षाके प्रयत्नमें आमात्यश्रेष्ठ स्वयं तत्पर हैं, उनके गुप्तचरसे मुझे सब विदित हो गया है। अब रात्रिमें भेष बदलकर भ्रमणके लिए न जाया करें देव !'

'क्या माता राजमहिषी मेरे प्राणों पर आघात कर सकती हैं ? विश्वास नहीं होता प्रिये कि वे मेरे लिए इतना निष्ठुर हो जायँगी।'

'एक उन्मादिनी नवयुवती और फिर राजमहिषी ! जो वासनाके प्रबल आवेगमें मर्यादाका उल्लंघनकर अपमानित होगी, वह कितना भयंकर हो सकती है ! मुझे इसकी कल्पना है युवराज ! मैं देखती हूँ आमात्यश्रेष्ठके गुप्तचर आपके संरक्षणमें कितने सचेष्ट हैं। बिना किसी भयके वे इतने अधिक कार्यशील नहीं हो सकते।' कांचन बोली।

'प्रिये ! इसकी चिन्ता मत करो। जब तक मेरे हाथमें कृपाण है, तब तक भयका कोई कारण नहीं। दूसरी बात यह भी है कि उस दिन जब पितासे मैं मिलने गया था, तब उनको भी अभिवादन किया था; अतः मैंने जो उन्हें अपशब्द कह दिया था, मैं समझता हूँ, वह सब अब वे भूल जायँगी। मैंने उनके स्वभावमें कुछ नम्रताका अनुभव भी किया है। अतः कोई भयका कारण समझमें नहीं आता।'

'इसीलिए मैं आपको अकेले नहीं; छोड़ना चाहती। कारण इसका यही है कि आप उससे असावधान हैं और उसके हृदयमें प्रतिशोधकी ज्वाला धधक रही है। यदि आपका विचार हो तो एक बार मैं उससे मिलकर उसके अन्तर्गत विचारोंका अध्ययन कर लूँ।'

'यही मैं भी सोच रहा था प्रिये ! ठीक ही कहा तुमने।'

'आज मैं शामको मिलने जाऊँगी।'

युवराजने सहमति प्रकट की और कांचन राजमहिषीसे मिलनेके लिए तैयार होके लगी।

'एक बातका ध्यान रखना प्रिये ! यदि वे कुछ खानेके

लिए दें, तो उसे मत खाना और सम्प्रतिको साथ लेकर भी जाना ठीक न होगा ।’

युवराज्ञीने मुस्कुराकर कहा—‘क्या मैं भी कोई पुरुष हूँ, जिसके ऊपर आकृष्ट होकर वह अपना जादू चलावेगी ?’

‘नहीं प्रिये । मेरे प्राणोंका भय तो नहीं है, किन्तु तुम्हारे प्राणोंसे वह अवश्य ईर्ष्या करती होगी, क्योंकि रूपमें तुम उससे कम नहीं हो ।’

‘तभी तो समान रूप समझकर युवराज भ्रममें आप पड़ गए और राजमहिषाको कांचन समझ बैठे ।’ कहकर कांचन मुस्कुराई ।

‘उस घटनाकी स्मृति न कराया करो प्रिये ! जब कभी उसकी स्मृति मानस में आ जाती है, तो मैं लज्जा और क्षोभसे व्यग्र हो उठता हूँ ।’—कहते हुए युवराज गंभीर हो गए ।

आपका हृदय पवित्र है युवराजदेव ! यदि ऐसा न होता तो आप इसका वर्णन मुझसे न करते ।’ कांचनने कहा ।

शयन-कक्षमें राजमहिषी तिष्यरक्षिता लेटी थी । सामने आकर प्रतिहारिणीने अभिवादन किया ।

‘कहो क्या चाहती हो प्रतिहारिणी ?’

‘राजमहिषीसे मिलने युवराज्ञी कांचनमाला द्वारपर खड़ी हैं ।’

‘जाओ लिवा लाओ ।’ कहकर तिष्यरक्षिता उठी और विचार करने लगी—‘क्या कारण है ? जो इतने दिनोंके पश्चात् राजमहिषीसे कांचन मिलने चली है । ठीक है । जिसके प्रेममें युवराज मेरी उपेक्षा करते रहे हैं हमारे और उनके प्रेमके बीच जो दीवाल खड़ी है, यदि उसे ही दहा दिया जाय तो कितना उत्तम होगा ?’

‘आओ युवराज्ञी ! तुम्हारा स्वागत है ।’ तिष्यरक्षिताने कहा ।

कांचनने अभिवादन किया । उसका हाथ पकड़कर तिष्यरक्षिताने अपने पार्श्वमें बैठा लिया और कहा—‘आज इधर युवराज्ञीका आगमन कैसे होगया ? कहीं मार्ग तो नहीं भूल गयीं ।’ तिष्यरक्षिता कहकर मुस्कुरायी ।

मुस्कुराकर ही कांचनने भी उत्तर दिया—‘क्या अपने आत्मीयजनोंसे मिलने आना, मार्ग भूलनेका लक्षण है, माता राजमहिषी ! मैं सोचती रहीः राजमहिषी आज आवेंगी, आज नहीं आईं तो कल आवेंगी; इसी प्रकार प्रतीक्षा करते हुए कितने दिन बीत गए, कितने माह बीत गये, किन्तु आप न आयीं, न आयीं। ओह ! उज्जैयिनीसे आज कितने ही दिन मुझे आए, बीत गए, किन्तु एक बार भी आप मेरे पास न आ सकीं। अग्रमहिषी असंघमित्रा जिनका हम लोगों पर अपार स्नेह था; जो प्राणकी तरह हम लोगोको मानती थीं, यदि वे रहीं होतीं, तो कितनी ही बार मिली होतीं। आपकी निष्ठुरता देख चुकने पर ही मैं आज सेवामें उपस्थित होगयी हूँ।’

‘मानती हूँ, तुम्हारा कथन; युवराज्ञी ! किन्तु यही शिकायत मेरी तुमसे भी है। मैं नहीं पहुँच सकी तो तुम्हीं हमारे पास कहाँ आईं।’

‘यही तो मेरा उलाहना है कि अग्रमहिषी असंघमित्राने हम लोगोंके समक्ष कभी अपने श्रेष्ठपदका अनुभव नहीं किया और माता-पिताकी तरह पालन किया। संतानके प्रति जो प्रेम होता है, वह अधिकारसे बड़ा होता है। अपनी महिमा भूल जाती थीं माता असंघमित्रा।’ कांचनने कहा।

तिष्यरक्षिताको अन्तिम वाक्य व्यंग्य प्रतीत हुआ। उसने सोचा— कांचन मेरे पदसे ईर्ष्या रखती है। वह बोली—‘क्या छोटीका अपने बड़ोंके प्रति कुछ भी कर्त्तव्य नहीं है युवराज्ञी !’

‘है क्यों नहीं राजमहिषी ! किन्तु बड़ोंका छोटीं पर स्नेह करना परंपरासे आता हुआ सिद्धान्त है—यह न भूलिए।’ मुस्कुराकर कांचनने कहा।

‘किन्तु छोटीकी श्रद्धा-भावना ही बड़ोंके हृदयमें उनके प्रति स्नेहका स्फुरण करती है, यह भी नहीं भूला जा सकता युवराज्ञी ? तिष्यरक्षिता बोली।

यदि इसे इस ढंगसे कह लिया जाय कि बड़ोंका स्नेह ही छोड़ोंके हृदयमें श्रद्धा-भावनाको उभारता है, तो आपके पास इसका क्या उत्तर है राजमहिषी ?' कांचनने कहा ।

'ये सब तर्ककी बातें हैं । सिद्धान्त सिद्धान्तके लिए है, आचरणके लिए उसकी उतनी उपयोगिता नहीं सिद्ध होती ।' तिष्यरक्षिताने कहा ।

'खैर जो भी हो, आप अपनी ज्यादती मान लें; माताजी !' कहते हुए कांचन मुस्कुरा पड़ी ।

'मेरा मन तो लुम्हारी ही ज्यादती मानना चाहता है, क्योंकि जो उज्जैयिनी तक दूर जा सकती है, वह यदि मुझसे प्रेम करती, तो यहाँ रहकर अवश्य मुझसे मिलती ।'

'आप बड़ी हैं, माताजी अतः आप सब कुछ मान लेनेके लिए स्वतन्त्र हैं और आपकी इच्छा पर मैं नियन्त्रण नहीं रख सकती ।'

'रखना भी नहीं चाहिए ।'

यद्यपि कांचनने शुद्ध हास्यमें कथन किया था, किन्तु तिष्यरक्षिताको यह भी व्यंग्य प्रतीत हुआ । उसने कहा—'नियन्त्रण बड़ोंकी इच्छाओं पर रखनेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिए युवराज्ञी ?' चेहरा तिष्यरक्षिताका स्वाभिमानसे अरुण होगया ।

'और यदि चेष्टाकी ही जाय माताजी ?'

'तो अव्यवस्थित आचरण, समझा जायगा ।'

'आचरणको अव्यवस्थित होनेसे बंचानेका प्रयत्न कितने लोग कर पाते हैं, मैं नहीं कह सकती, जब इसका ध्यान स्वयं बड़ोंको नहीं रहता, तो छोटे कहाँ तक निभा सकते हैं, यह सोचनेकी बात है माताजी ?'

सहसा कुणालके प्रति किए गए व्यवहारका तिष्यरक्षिताको स्मरण हो आया और उसने सोचा उस दिनकी सारी घटनासे कांचन अवश्य अवगत है, जिससे वह हमारे ऊपर व्यंग्य कर रही है । राजमहिषीकी आकृति म्लान पड़ गई और वह लण्डित होकर मौन हो गई ।

कांचनने कहा—‘रुष्ट हो गयीं माताजी ? मैंने ऐसा कोई बात तो नहीं की, किन्तु यदि मेरी किसी बातसे आपको क्षोभ हो गया हो, तो मैं अपना कथन वापस लेती हूँ ।’

तिष्यरक्षिता कांचनसे तो पहलेहीसे जलन रखती थी, किन्तु आजकी बातोंसे वह और भी दुःखी हुई । बड़े धैर्यके उपरान्त उसने अपनेको संयत रखा और दिखावटी प्रेमसे कहा—‘युवराज्ञी ! रुष्ट होनेकी इसमें कोई बात नहीं है और यदि हो भी तो वह क्षम्य भी है ।’

‘हाँ, यही तो मैं भी सोच रही हूँ—आप हम लोगोंकी माता जो ठहरीं । माताका हृदय विशाल होता है, संतानके प्रति उसके हृदयमें बुराईके लिए स्थान नहीं होता, होना भी नहीं चाहिये । माता राजमहिषी !’ कांचनमालाने गंभीर मुद्रामें कहा ।

तिष्यरक्षिताने मुस्कुराकर कहा—‘खैर; वाद-विवाद छोड़ो, अपना कुशल-मंगल सुनाओ । आकर तुमने विवाद ही प्रारंभ कर दिया । न अपना दुःख-सुख सुनाया और न मेरा सुना ।’

‘विवाद नहीं मानिये उसे । मुझे माँख लग गयी थी । आखिर अब तो आप ही का भरोसा हम लोगोंका है । यदि आपकी निगाह इस तरह मोटी ही रहेंगे तो हम लोग कहींके न रहेंगे माताजी !’ कहकर कांचनने आत्मीयता प्रकट की ।

‘और मुझे भी तो तुम्हीं लोगोंका भरोसा है युवराज्ञी ! इसे क्यों भूल रही हो ?’

‘माता-पिताको भला ऐसा कौन कृतघ्नी होगा, जो भूल जायगा ? राजमहिषी ! कांचनने कहा ।

‘किन्तु युवराजने तो भुला ही दिया है । वे पहले मिलने आते थे, किन्तु अब वे भी नहीं आते ।’

‘उस दिन भाँगके नशेमें कुछ अशिष्टताका अनुभवकर वे लज्जित हो

गए हैं, जिससे उनका साहस माता राजमहिषीके समक्ष अकेले उपस्थित होनेका नहीं पड़ता ।' कहकर मन्दहाससे तिष्यरक्षिताकी ओर देखा कांचनमालाने ।

तिष्यरक्षिताकी आकृति लज्जा, ग्लानि और पीलेपनसे ग्लान पड़ गई । उसकी दृष्टि नीचे झुक गई । युवराजका ही दोष वह क्यों न कह दे, किन्तु फिर भी उसमें अपमान तो उसीका ही है ! थोड़ी देर तक तो वह इतना व्यथित हुई कि लज्जासे चेतना-शून्य सी प्रतीत हुई । उसने सोचा—'कांचन आज उसी की स्मृति कराने और उपहास करने के लिए उपस्थित हुई है, और कभी तो यह नहीं आती थी ? खैर, इसका प्रति-शोध मैं अवश्य लूँगी, अवश्य लूँगी । अपने अपमानका बदला अवश्य लूँगी । जो कुछ हो गया था; सो तो हुआ ही, किन्तु कुणालने कांचनसे क्यों कहा और कांचनसे कहा भी तो कांचनने मेरा क्यों उपहास किया ? क्यों अपमान किया ? मैं दिखा दूँगी कुणाल और कांचनको कि मेरे क्रोधमें ये दोनों भस्मीभूत हो जाते हैं या नहीं ? सोचते हुए तिष्यरक्षिताने कहा—'तो आज इसी उद्देश्यको लेकर आयी हो युवराज्ञी ?'

'क्या राजमहिषी ?'

'यही मेरा उपहास करनेका उद्देश्य ?'

'ना, ना, ना ! ऐसा कदापि न खयाल करें, माता राजमहिषी ! मैं तो आपका और युवराजका हित चाहती हूँ और इसमें आप दोनोंका अपमान हांगा । अतः न तो कहीं यह बात कही जायगी और न कही जानी ही चाहिए और न आपका उपहास करने ही आयी हूँ । मैं स्वयं इस प्रयत्नमें हूँ कि आप दोनोंका संकोच मिटा दूँ और आप दोनोंमें जो एक दूसरेके प्रति यदि कोई भाव पैदा भी हो गया हो तो उसका ऊन्मूलन हो जाना आवश्यक है और जिससे फिर आप लोगोंके मनमें सामंजस्य स्थापित हो जाय ।' कांचनने कहा ।

तिष्यरक्षिताके हृदयमें कांचनकी इन बातोंका कोई प्रभाव न पड़ा ।

उसके हृदयमें तो प्रतिशोधकी भावना प्रबल थी । उसे वह हृदयसे न निकाल सकी, न निकाल सकी ।

राजमहिषी मौन थी और सोच रही थी—‘मुझे बड़ा कलंक लग गया, उस दिनकी घटना जब प्रसार पा जायगी, तो मैं अपना मुँह कैसे दिखाऊँगी—श्रीसम्राटदेवके सामने ! यदि उन्हें इस घटनाका पता चला; तब क्या होगा ? निश्चयही वे भी मेरा परित्यागकर देंगे और फिर मेरा जीवन सर्वदाके लिए बर्बाद हो जायगा और कोई उपाय नहीं है, जो आनेवालों विपत्तियोंको टाल सके । यदि कुणाल और कांचनमालाको समाप्त कर दिया जाय तो उस दिनकी घटना जहाँकी तहाँ दबती पड़ी रह जायगी ।’

इस प्रकार आनेवाली भविष्यकी तीव्र आशंकासे वह अत्यन्त भयभीत हो गयी ।

एक गलतीको छिपानेके लिए मानव दूसरी गलतीकर बैठता है और तब उसका अपराध गुरुतर हो जाता है । मन्दबुद्धि मानव गलतीका सुधार फिर गलती करके करना चाहता है । किन्तु अपराधोंका सुधार अपराधोंसे कहाँ हुआ ? बार-बारका अपराध मानवका शीघ्र पतनकर देता है; जैसे लोहेसे उत्पन्न मुर्चा लोहेको खा जाता है । तिष्यरक्षिता कांचन और कुणालको शीघ्र समाप्तकर अपने अपराधका—उस दिनकी घटनाका सुधार करना चाहती थी । कांचनमालाको विनम्र देखकर उसे अवसर मिला । वह सोचने लगी ।

कांचनमाला बोली—‘अच्छा माता राजमहिषी ! मुझे आज्ञा प्रदान करें । जाना चाहती हूँ ।’ उठकर वह खड़ी हो गयी ।

‘बैठो युवराज्ञी ! अभी तो तुम्हें कुछ खिलाया भी नहीं । तुमने आते ही ऐसा विषय छेड़ दिया कि मैं अपनी सफाई देनेमें ही लग गयी और तुम्हें कुछ खिलाने-पिलानेका ध्यानही न रहा ।’ तिष्यरक्षिताने कहा ।

‘मुझे आपकी ममता चाहिए राजमहिषी माता ! बस उसीकी भूख है ।’ कांचनमाला बोली ।

‘ठीक है युवराज्ञी ! ममताके ही अन्तर्गत खान-पान भी है; बल्कि मैं तो इसका महत्व सबसे अधिक समझती हूँ । मेरी दृष्टिमें इसीकी प्रधानता है ।’

‘और मैं ममताको खान-पान तक ही नहीं सीमित रखना चाहती । मेरी दृष्टिमें खान-पानकी नहीं; ममतामें शुद्ध प्रेमकी प्रधानता होती है । माता !’

‘युवराज्ञी ! मैं पुनः विवादमें नहीं पड़ना चाहती । बैठो, थोड़ा जलपान कर लो; तब बातें होंगी ।’

‘इस समय मुझे क्षमा करें । फिर कभी आऊँगी तो ।’

तिष्यरक्षिता उठी और एक पात्रमें थोड़ा अंगूरका रस लाने स्वयं चली गयी । कांचन चलनेके लिए उठी थी; पुनः बैठ गयी । थोड़ी देरमें तिष्यरक्षिता लौटी और कांचनके समक्ष एक छोटेसे पात्रमें, अंगूरका शर्बत उसने रख दिया ।

‘कुछ भी उसके हाथसे न खाना’ युवराजकी इस बातसे उसके हृदयमें आशाका हो गयी थी । उसने प्रकट कहा—‘इस समय मेरी इच्छा कुछ भी खाने-पीनेकी नहीं है, माता राजमहिषी; क्षमा करें ।’

‘किन्तु मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें यह शर्बत तो पिला ही दूँ युवराज्ञी !’

‘खान-पानमें स्वेच्छाको ही प्रमुखता मिलती है, इसे याद रखें ।’ कहते हुए सुस्करायी कांचनमाला ।

‘किन्तु स्वाद और मात्राके संबंधमें इसका विचार होता है, युवराज्ञी; यहाँ तो प्रेम और अपमानका प्रश्न है ।’

‘मैं बिना कुछ खाए भी आपके प्रति सद्भावना रख सकती हूँ, इसमें आप अपमानका अनुभव कदापि न करें ।’ कांचनने कहा ।

‘नहीं, नहीं यह तो युवराज्ञीकी ज्यादाती है ।’

‘ज्यादती नहीं माताजी, यदि आपका यही कथन है तो फिर कभी

आने पर आपको इच्छानुसार कार्य कलेंगी । आज क्षमा करें ।' कहते हुए तिष्यरक्षिताको अभिवादनकर कांचनमाला प्रकोष्ठके बाहर चली गयी ।

आज तिष्यरक्षिता सम्पूर्णा बखेड़ा दूर कर देना चाहती थी, किन्तु वह सफल न हुई । उसने शर्बत फेंक दिया और सोचा—'यदि विष देनेमें सफल नहीं हुई, तो किली अन्य उपायसे कार्य करना है ।'



११

'राजमहिषी ! मैं और मेरे अनुचर युवराजको मारनेमें सफल न हो सके । समक्षयुद्धमें हमलोग उन्हें पराजित नहीं कर सकते ।' रुद्रसेनने कहते हुए तिष्यरक्षिताके समक्ष मस्तक नवा दिया ।

'तब क्या कर सकते हो ? मुझे तो तुम्हारी वीरता पर पूर्ण विश्वास था, रुद्रसेन !' तिष्यरक्षिताने शंभीरतासे कहा ।

'साम्राज्ञीका कार्य किसी अन्य उपायसेही करना होगा । यही सोच रहा हूँ॥'

'क्या ? क्या उपाय है; सुनूँ !'

'यदि आज्ञा हो तो कुषालके स्थान पर युवराज्ञी कांचनाको ही फँसाया जाय ।'

'हाँ; रुद्रसेन ! मुझे तो दोनोंका वध बारी-बारीसे करा देना है ।' तिष्यरक्षिता बोली ।

'जो आज्ञा ।' कहते हुए हाथ जोड़कर रुद्रसेनने मस्तक नवा दिया ।

'जा सकते हो रुद्रसेन !'

रुद्रसेन जाने लगा । द्वार तक जा चुका था । राजमहिषीने पुनः उसे सम्बोधित किया—'रुद्रसेन !'

'हाँ साम्राज्ञी ?'

‘सुनो; यह कार्य गुप्त और सावधानीसे करना है; और पूर्ण पुरस्कार मिलेगा, समझे ?’

‘जी, श्रीमतीजी ! अवश्य यह कार्य अत्यन्त गोपनीय है । रही बात पुरस्कारकी, उसे मैं श्रीमतीजीकी अनुकम्पासे ही सन्तुष्ट हूँ, मैं इसे ही सचसे बड़ा पुरस्कार मानता हूँ ।’

‘नहीं रुद्रसेन ! केवल मौखिक अनुकम्पासे ही काम नहीं चलता; मैं इसके अतिरिक्त पुरस्कृत भी करना चाहती हूँ ।’

रुद्रसेनने सम्मान प्रदर्शित किया ।

‘अच्छा जा सकते हो रुद्रसेन !’

रुद्रसेनने राजमहिषीको अभिवादन किया और प्रकोष्ठके बाहर प्रस्थान किया ।

चौथे दिन तिष्यरक्षिताके समक्ष रुद्रसेन सैनिक वेशमें पुनः उपस्थित हुआ । तिष्यरक्षिता बोली—‘कहो रुद्रसेन ! क्या समाचार लाए ?’

‘साम्राज्ञीकी आकांक्षा आधी पूरी हुई ।’

‘क्या तात्पर्य है, तुम्हारे कथनका ?’

‘यही कि युवराज्ञी कांचनमाला आपके गुप्त बन्दीगृहमें पड़ी हैं ।’

तिष्यरक्षिताका हृदय आह्लादसे भर गया । उसने पूछा—‘रुद्रसेन; इस कार्यमें कैसे सफल हो गए ?’

‘जब युवराज कुणाल देवी कांचनमालाके साथ भीषण वनस्थलीमें आखेटके लिए चले गए थे, तब हमारे आदमियोंने उनसे युद्ध किया । युद्धमें युवराज कुछ विशेष घायल भी हो गए हैं । मारे तो नहीं जा सके; किन्तु अवसर पाकर हमारे सैनिकोंने युवराज्ञीको बन्दी बना लिया । मार तो डाला जाता उन्हें वहीं, किन्तु मैंने सोचा—शत्रुका वध स्वयं साम्राज्ञी अपने समक्ष कराएँ, इसमें उन्हें प्रसन्नताका अनुभव होगा ।’

‘ठीक है रुद्रसेन ! तुम्हारी सेवाओंसे मैं सन्तुष्ट हूँ । जाओ एक खड्ग-धारी चाण्डालको तुरन्त बुला लाओ ।’

‘जो आज्ञा श्रीमतीजी ।’ कहकर अभिवादन करते हुए रुद्रसेन चला गया ।

थोड़ीही देरमें साम्राज्ञीके समक्ष एक भयानक आकृतिवाले चांडालको साथ लेकर रुद्रसेन आ पहुँचा । इन लोगोंको साथ लेकर तिष्यरक्षिता बन्दीगृहके द्वार पर पहुँची । बन्दीगृहका दरवाजा खुला था । वहाँ कांचनमाला नहीं थी । रुद्रसेनका प्राण सूख गया । वह घबरा गया ।

तिष्यरक्षिताने पूछा—‘रुद्रसेन ! कांचन कहाँ है ?’

‘आश्चर्य है साम्राज्ञी ! आश्चर्य ! बन्दोगृहमें कांचनको डालकर ताला मैंने स्वयं बन्द किया था । किसने ताला खोला ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ।’ रुद्रसेनकी ध्वनिमें कुछ घबराहट थी ।

‘क्या तुम कांचनको यहाँ वास्तवमें बन्दी बना गए थे ?’ साम्राज्ञीको सन्देह होने लगा था अतः सन्देह व्यक्त करते हुए उसने पूछा ।

‘क्या साम्राज्ञी अपने सन्देहका निवारण मेरी बातों पर विश्वासकर नहीं कर सकती ?’

‘नहीं रुद्रसेन ! सन्देहसे अधिक मुझे आश्चर्य है कि इस बन्दीगृहसे किसने कांचनको मुक्त कर दिया ?’

तीनों लौट पड़े ।

उधर कांचनमालाका साथ छूट जानेसे युवराज बड़े दुःखी हुए । अचानक कांचन लुप्त हो गई, यह सोचकर युवराज अपने शरीर पर लगे आवातोंको भूल गए और शीघ्रतासे कांचनका पता लगानेमें तत्पर हो गए । राजभवन पहुँचकर उन्होंने प्रतिहारीको आदेश दिया कि इसी समय आमात्यश्रेष्ठको उपस्थित करो ।

प्रतिहारी चला गया । उस समय आमात्यश्रेष्ठसे वह मिल न सका । उसे पता लगा, इस समय आमात्यश्रेष्ठ अत्यन्त व्यस्त हैं, वे पता नहीं कहाँ हैं ।

प्रतिहारी लौट आया । आकर युवराजसे उसने निवेदन किया ।

युवराजने मनमें सोचा—‘आमात्यश्रेष्ठके यहाँ आते-आते कांचन कहाँ से कहाँ चली जायगी; निश्चय ही मेरे हितमें तत्पर श्रुचिश्रिता प्राण-वल्लभा कांचनके प्राणों पर संकट उपस्थित है। मैंने यदि वहीं प्राण दे दिया होता, तो वह उत्तम होता, किन्तु कांचनको खोकर मैं हत्भाग्य यहाँ किस आशासे चला आया ? हाय ! मेरी प्राणप्रिया राजनगरके कुछ विद्रोहियोंके कुचक्रमें पड़कर कैसी यातना सह रही होगी। संभव है, उसने अब प्राण भी त्याग दिया होगा; अथवा मेरे हितमें तत्पर रहनेवाली बेचारी कांचनको विद्रोहियोंने ही मार डाला हो। अब क्या करूँ ? किन्तु यह कार्य कायरता और विलाप करनेसे नहीं हो सकता। शत्रुओंका पता लगाना और उनका दमन करना इस समय प्रमुख कार्य है और यह कार्य शीघ्र होना चाहिए। सोचते हुए युवराजके हृदयमें वीरताका स्फुरण हुआ। उनके विचारोंमें शिथिलता उत्पन्न करते हुए प्रतिहारीने निवेदन किया—‘देव ! प्रमुख द्वार पर मिलने आमात्यश्रेष्ठ उपस्थित हैं।’

युवराज स्वयं उठ खड़े हुए और द्वार पर आमात्यश्रेष्ठको पाकर प्रकोष्ठमें लिवा ले आए। आमात्यश्रेष्ठ बोले—‘युवराजदेव ! आहत हो गए हैं ?’

‘हाँ आमात्यश्रेष्ठ ! वृद्धवर ! मुझे आहत होनेकी व्यथा उतनी नहीं है, जितनी कांचनके लिए। अभी आपकी सेवामें एक परिचारक भेजा था, किन्तु आपसे उसको भेंट न हो सकी।’

‘हाँ युवराजदेव ! ठीक है, मैं कांचनकी खोजमें बहुत व्यस्त था।’

‘क्या उससे आपकी भेंट हुई ?’

‘हाँ युवराजदेव ! वे आरही हैं। बन्दीगृहमें पड़ी थीं।’

‘बन्दीगृहमें ?’

‘हाँ श्रीमन्त ! साम्राज्यके गुप्त बन्दीगृहमें वे बन्दी थीं।’

युवराजके आश्चर्यकी सीमा न रही। वे आँखें मस्तक पर फैलाकर बोले—‘माता तिष्यरक्षिताके गुप्त बन्दीगृहमें ?’

‘हाँ युवराज ! मैं आप तथा साम्राज्ञीकी सभी बातों और घटनाओंसे अवगत हूँ। आपसे अपमानित होकर किस प्रकार आपके अहितमें वे तत्पर हैं, मैं यह भी जानता हूँ। इसीलिए आपसे परामर्श करनेके लिए उपस्थित हुआ हूँ।’

युवराज मौन होकर दृष्टि नीची किए हुए सोच-मग्न हो गए।

‘मैं युवराजदेवके हितकी कामनासे इन सभी घटनाओंका निवेदन श्रीसम्राटदेवके समक्ष करना चाहता हूँ।’

नहीं बृद्धवर ! इन घटनाओंको अपने तकही सीमित रखकर आप मेरा हित करें। मैं नहीं चाहता कि माता तिष्यरक्षिताके बैरका अन्त बैरसे करूँ। वे मेरी माता हैं, अपने पवित्र कर्तव्योंसे ही अपने प्रति उनके हृदयमें उत्पन्न हुई बुराईयोंका मैं अन्त कर देना चाहता हूँ, चाहे वे मेरे अहितमें सदैव ही तत्पर क्यों न हों; इस कार्यमें मुझे बिना आपकी सहायताके सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि उनके रोषसे आपही मेरी रक्षा कर सकते हैं।’

‘मुझे इन सभी घटनाओंके संबन्धमें श्रीसम्राटदेवको अवगत करा देना आवश्यक प्रतीत होता है।’

‘किन्तु आम्रास्यश्रेष्ठ ! माता तिष्यरक्षिताको अपराधिनी प्रमाणित कर मैं कोई लाभ नहीं देख रहा हूँ। राजमहिषीको कलंकित प्रमाणित कर हम कलंकसे नहीं बच सकते। अतः यह मौर्य साम्राज्यके मानापमानका महत्त्वपूर्ण विषय है।’

आम्रास्यश्रेष्ठ मौन होगए। युवराज कुणाल पुनः बोले—‘मैं यही चाहता हूँ कि इस प्रकारकी सारी घटनाएँ अत्यन्त गुप्त रखी जायँ और आपही तक सीमित रहें।’

‘अच्छा युवराजको अभी मैं आपके समक्ष उपस्थित करने जा रहा हूँ।’ कहकर आम्रास्यश्रेष्ठ प्रकोष्ठसे बाहर चले गए। एक घड़ीमें कांचनमालाको साथ लेकर आम्रास्यश्रेष्ठ आ पहुँचे।

तिष्यरक्षिता सम्राट अशोकवर्द्धनके प्रकोष्ठमें गई। सम्राट चिन्तित दिखाई पड़ रहे थे। उनकी मानसिक अशान्ति देखकर उसने मुस्कुराकर पूछा—‘देव चिन्तित दिखाई पड़ रहे हैं।’

‘हाँ प्रिये ! चिन्ताका विषय ही उपस्थित होगया है। युवराज आखेटके लिए गए थे, वहाँ राजनगरके कुछ विद्रोहियोने उन्हें आहतकर दिया। युवराज! कांचनमाला भी उनके कुचक्रमें जा पड़ी थी।’

तिष्यरक्षिता कम्पित होगई, उसकी आकृति म्लान पड़ गई, हृदय घड़कने लगा। यदि इसी समय सम्राटने उसकी और दृष्टिपात किया होता, तो वे निश्चय ही युवराजके शत्रुओंकी खोज करलेते। मानसमें उठनेवाले विचारोंको सुसंयतकर वह बोली—‘कैसा कुचक्र देव ! आखेटके लिए युवराजदेव अकेले गए थे क्या ?’

‘नहीं भद्रे ! उनके साथ संरक्षक भी थे, किन्तु संयोगसे उनका साथ छूट गया और ऐसा प्रतीत होरहा है कि राजनगरमें कुछ विद्रोहियोंकी शक्ति बढ़ रही है, जो राजपुरुषोंके अहितमें तत्पर है। इन्हीं लोगोंने युवराजको अकेले पाकर उसपर आक्रमण कर दिया और कांचनको भी पकड़ लिया।’

‘कांचनको पकड़ लिया ?’ इस प्रकार प्रश्नसूचक वाणीमें तिष्यरक्षिताने कहा जैसे वह कुछ जानती ही नहीं।

‘तो क्या अभी कांचनका पता नहीं चला सम्राटदेव ?’

‘पता तो चला प्रिये ! आमात्यश्रेष्ठके प्रयत्नसे उसके प्राण बचे हैं।’

‘तो विद्रोहियोंका पता भी आमात्यश्रेष्ठने लगा लिया होगा ?’

‘अभी तो विद्रोहियोंका कुछ नहीं पता लगा, किन्तु आमात्यश्रेष्ठ, कांचनमाला तथा कुणालके प्रयत्नसे ऐसा प्रतीत होता है—अवश्य पता लग जायगा। पता लग जानेपर ही शत्रुओंको समूल नष्ट किया जा सकता है।’

तिष्यरक्षिताको विश्वास होगया कि अभी तक सम्राटको उसके घड़-

यंत्रका पता नहीं है, किन्तु शत्रुओंके समूह नष्ट होनेकी योजना सुनकर उसका हृदय काँप गया। सबसे अधिक रोष उसे आम्रात्यश्रेष्ठ पर हुआ, क्योंकि उन्होंने ही उसके प्रयत्नको विफल कर दिया था और अब उसके पीछे पड़े हैं। युवराजका सबसे बड़ा शत्रु राजमहिषी है, एक न एक दिन इसका पता अवश्य लग जायगा। यह सब सोचकर वह चिन्तामें पड़ गयी। 'आम्रात्यश्रेष्ठसे अब सदैव सावधान रहना है।' तिष्यरक्षिताने सोचा।

तिष्यरक्षिताकी ग्लान आकृति देखकर सम्राटने कहा—'प्रिये ! आज जबसे इस प्रसंगकी बात हुई है, तबसे मैं तुम्हें खिन्न देख रहा हूँ। तुम्हारी मानसिक अशान्तिका क्या कारण है ?'

तिष्यरक्षिताने सोचा सम्राटके अनुभवी नेत्रोंने उसकी मानसिक स्थिति-का अध्ययनकर लिया है, अतः यह कह देना कि मुझे कोई अशान्ति नहीं है, उचित न होगा। अपने हृदयको सँभालकर वह बोली—'सम्राट-देव ! जबसे इस घटनाका कथन आपने किया। मुझे युवराज तथा युवराज्ञीके प्रति किए विद्रोहियोंके आक्रमणसे बड़ा आघात पहुँचा है।'

'तभी तो सोचता हूँ प्रिये ! तुम्हारा हृदय विशाल है, तुम महान् हो। तुम्हारा चित्त बड़ा कोमल है।' कहा सम्राटने।

'युवराज ही हम लोगोंके प्राण हैं देव ! भला उनके ऊपर संकट उपस्थित होनेपर हम कैसे धैर्य रखें ?'

'यथार्थ है भद्र !'

युवराज और युवराज्ञीके प्रति सहानुभूति देखकर सम्राटको तिष्यरक्षिताके प्रति बड़ा सन्तोष हुआ; किन्तु तिष्यरक्षिताके अन्तःकरणमें खाला घषक उठी, जिसे सम्राटने युवराजके शत्रुओंके प्रति राजमहिषीका रोषपूर्ण आबेग समझा।



‘कहिए आमात्यश्रेष्ठ ! विद्रोहियोंका कुछ पता चला ? उस दिनसे जब युवराजके ऊपर उन लोगोंने आक्रमण कर दिया था, मैं चिन्तामें पड़ गया हूँ ।’ सम्राट बोले ।

‘हाँ सम्राटदेव ! यह चिन्ताका विषय ही है । अभी तक छानबीनकी जा रही है । विद्रोहियोंका पता तो अभी नहीं चला, किन्तु पता लगानेके लिए गुप्तचर कार्यरत हैं देव !’

परिन्वारकने प्रकोष्ठमें प्रवेशकर सम्राट और आमात्यश्रेष्ठको अभिवादन किया और कहा—‘देव ! तक्षशिलासे संदेश-वाहक आया है; किसी विशेष कार्यसे श्रीसम्राटदेवसे तत्काल मिलनेके लिए प्रमुख द्वार पर वह उपस्थित है ।’

‘उपस्थित करो उमे ।’ सम्राटदेव बोले ।

‘जो आज्ञा’ कहते हुए मस्तक नवाकर वह बाहर चला गया । संदेश-पायक प्रकोष्ठमें प्रविष्ट हुआ । उसने दोनों श्रीमानोंकी भूमिमें गिरकर अभिवादन किया ।

‘क्या समाचार लाए हो दूत ?’

संदेश-पायकने आमात्यश्रेष्ठके हाथोंमें तक्षशिलाधीशका पत्र जो भोजपत्रपर लिखा था, थमा दिया । आमात्यश्रेष्ठने पत्र पढ़कर सम्राटकी सुनाया । पत्रमें तक्षशिला नगर-निवासियों द्वारा गोपकचन्द्रभालके नेतृत्वमें भीषण विद्रोहका उल्लेख था । तक्षशिलाधीशने विद्रोहकों दबानेमें अपनी असमर्थता प्रकटकी थी और सम्राटदेवके स्वयं आनेकी कुछ सेनाके साथ, प्रार्थनाकी थी । यदि विद्रोह शीघ्र नहीं दबाया गया तो तक्षशिला पर विद्रोहियोंका अधिकार अवश्य हो जायगा ।

सम्राट बोले—‘आमात्यश्रेष्ठ ! कलही राजसभाका आयोजन होना चाहिए ।’

‘जो आज्ञा देव !’

अभिवादनकर परिचारक चला गया और आमात्यश्रेष्ठ भी चले गए । दूसरे दिन राजसभाका आयोजन हुआ । नगरके प्रमुख व्यक्ति, प्रधान कर्मचारी एवं अनेक श्रेष्ठ पुरुष उपस्थित हुए । युवराज कुणाल, राज्य-परिवारके अन्य व्यक्ति तथा आमात्यश्रेष्ठ अपने-अपने आसनों पर जा बैठे । सम्राट अशोक स्वर्णसिंहासन पर विराजमान हुए । सभाका कार्यक्रम उपस्थित किया गया । सम्राटने कहा—‘आमात्यश्रेष्ठ ! सभाकी कार्यवाही प्रारंभ करें !’

आमात्यश्रेष्ठ उठ खड़े हुए और बोले—‘प्रियदर्शी श्रीसम्राटदेव तथा उपस्थित सबजनों ! मौर्य साम्राज्यके अन्तर्गत तक्षशिला एक प्रभावशाली और महत्त्वपूर्ण प्रदेश है । इस प्रान्तके नागरिकोंमें अद्भुत वीरता एवं आत्मसम्मानका भाव है । वहाँके नागरिकोंने विद्रोह कर दिया है । यद्यपि वहाँ अनेक बार विद्रोह हुए हैं, किन्तु इस बार गोपक चन्द्रभालके नेतृत्वमें सभी नागरिक सुसंगठित प्रयासोंसे विद्रोह पर विद्रोह करते जा रहे हैं, राजकर्मचारी विद्रोहका दमन करनेमें अपनेको असमर्थ पारहे हैं । तक्षशिलाधीश द्वारा भेजे गए इस संदेशको पाकर हम चिन्तामें पड़ गए हैं ।

‘ठीक कहते हैं आमात्यश्रेष्ठ ! पिताजीके समयमें स्वयं एक बार जाकर मैंने विद्रोह दबाया था । वहाँके लोग बड़े स्वाभिमानी हैं ।’ सम्राटने कहा ।

‘सोचता हूँ, महाबलाधिकृत एक विशाल सेनाके साथ स्वयं विद्रोह-दमन करने जायँ ।’ आमात्यश्रेष्ठने कहा ।

‘मेरा ही वहाँ जाना उचित जान पड़ता है । मेरे बिना गए विद्रोह-का दमन कठिन प्रतीत होता है ।’ सम्राटदेव बोले ।

तिष्यरक्षिताको सम्राटदेवकी बातोंसे चिन्ता हो गयी, किन्तु वह बोल न सकी ।

‘किन्तु सम्राटदेवके वहाँ जानेसे राजनगर उदासीन हो जायगा । अन्ध्रा होता, मुझे ही वहाँ जानेकी अनुमति मिल जाती ।’ युवराज कुणाल बोले ।

‘तुम्हारा पराक्रम अकथनीय है और तुम योग्य भी हो, किन्तु संभव है, बल प्रयोगसे न काम लेना पड़े; अहिंसात्मक ढंगसे ही सफलता मिल जाय और इस नीतिको देखते हुए मुझे ही जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है ।’ सम्राटदेवने कहा ।

‘जो आज्ञा देव !’ कहते हुए कुणाल बैठ गए ।

श्रामात्यश्रेष्ठ ! मेरे प्रवासकालमें राज्य संचालनका सम्पूर्ण भार आप पर होगा और राज्याज्ञा प्रस्तुत होगी साम्राज्ञी तिष्यरक्षिता द्वारा ।’

मस्तक नवाकर सम्राटके समक्ष श्रामात्यश्रेष्ठने अपनी स्वीकृति दी । श्रामात्यश्रेष्ठ काँप गए, उन्होंने सोचा—‘मुझे कलुषित हृदय साम्राज्ञीकी आज्ञा माननी पड़ेगी ?’

तिष्यरक्षिता युद्धकी विकरालता समझकर काँप गयी । उसने सोचा—‘युद्ध अनिश्चित होता है । किसकी विजय होगी, नहीं कहा जा सकता । कहीं ऐसा न हो कि युद्धमें सम्राटदेवके प्राण संकटमें पड़ जायँ । अतः इनका युद्धमें जाना ठीक न होगा । दूसरे ही क्षण वह फिर सोचने लगी—‘सम्राटके चले जानेपर राजाज्ञा प्रस्तुत करनेका मुझे अधिकार मिल रहा है, इसका लाभ तो हमें अवश्य ही होगा । इसी दुविधामें पड़ी वह कुछ भी निश्चय न कर सकी; अतः वह मौन ही रह जाना अन्ध्रा समझने लगी ।

सम्राटदेव पुनः बोले—‘महाबलाधिकृत !’

‘आज्ञा सम्राटदेव !’—महाबलाधिकृत बोला ।

‘आप मेरे साथ तन्त्रशिला जानेके लिए दस सहस्र योद्धाओंको भेजनेका प्रबन्ध करें । आत्म-रक्षाके लिए यह आवश्यक समझता हूँ, पहले शान्ति और अहिंसात्मक ढंगसे विद्रोहका दमन किया जायगा,

किन्तु आवश्यकता पड़ने पर बलका भी प्रयोग हो सकता है ।' सम्राटने कहा ।

मस्तक नवाकर महाबलाधिकृतने कहा—'जो आज्ञा सम्राटदेव !'

सभाका कार्यक्रम समाप्त हुआ । तिष्यरक्षिताके साथ सम्राट शयन-प्रकोष्ठमें आए । युद्धमें प्राणोंका भय सोचकर तिष्यरक्षिता चिन्ताग्रस्त हो गई । उसकी मुखश्री म्लान देखकर सम्राट बोले—'प्रिये ! तुम चिन्तित क्यों दिखायी पड़ती हो ?'

'तक्षशिलामें हुए विद्रोहका दमन करने स्वयं सम्राटदेव जा रहे हैं, यह मुझे सहन नहीं है । युद्धकी आशंकासे मेरा कलेजा काँप उठता है ।'

'किन्तु प्रिये ! तक्षशिलामें परम्परासे फहराता हुआ मौर्यश्वज डगमगा रहा है । इसकी रक्षाके लिए, वहाँ मौर्यशक्तिमें जो शिथिलता आ गयी है, उसे दूर करनी ही है ।'

यह कार्य तो आप यहाँ रहकर भी कर सकते हैं, सम्राटदेव !'

'कैसे भद्रे !'

'किसी औरको भेजकर ।'

'तुम्हारा तात्पर्य ?'

'युवराज कुणालको । मैं समझती हूँ, बड़ी योग्यतासे वे कार्य पूर्णकर सकते हैं देव !'

'क्या युवराजके प्राण प्रिय नहीं हैं भद्रे ?'

'सो बात नहीं देव ! आप वृद्ध हो चले हैं और युवराजके पराक्रम-प्रदर्शनका यह समय है । आपको अब आराम करना चाहिए । आपने राज्यसीमाका जो विस्तार किया है, उसके संरक्षणका कार्य युवराज पर ही अवलंबित है, किसी और उद्देश्यसे मैंने सम्राटदेवके समक्ष निवेदन नहीं किया है ।' तिष्यरक्षिता बोली ।

राजमहिषी तिष्यरक्षिता चाहती थी, कि युद्धमें जहाँ प्राणोंका भय है, वहाँ अवश्य युवराजको भेज देना चाहिए । यदि युवराजके

प्राणोंका युद्धमें अन्त हो जाता है, तब मौर्यसाम्राज्यका उत्तराधिकारी होनेका उसके गर्भसे उत्पन्न सन्तानको ही अवसर प्राप्त होगा और सबसे बड़ी बात है कि युवराजको दूर भेजकर वह अपने षड्यन्त्रमें सफल भी हो सकती है । निकटमें रहकर उसका षड्यन्त्र कभी सफल नहीं हो सकता ।

सम्राटदेव मौन हो गए । तिष्यरक्षिताने सोचा—‘मेरी बातोंका सम्राटदेव पर प्रभाव पड़ा है, वे सोचने लगे हैं ।’ अवसर पाकर उसने सम्राटके प्रति अपने हृदयमें अधिक प्रेम दिखानेका प्रयत्न किया । वह बोली—‘देव ! मुझे आपका वियोग असह्य है ! इसे न भूल जायेंगे ।’

‘नहीं, भद्रे ! यह जानता हूँ मैं । तुम्हारे हृदयमें मेरे प्रति ममता यदि न रही होती, तो तुम मेरे लिए इतना महान् त्याग करती ही क्यों ?’

‘यही तो । मैं अवश्य समझती हूँ कि सम्राटदेवकी सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि हमारे हृदयमें उमड़ती हुई प्रेमधाराको अवश्य पहचानती है और श्रीसम्राटदेव इसका मूल्य भी समझते हैं ।’

‘क्यों नहीं आयें ! तुमने मेरे जीवनकी उदासीनता दूर की है, तुम विशाल हृदय हो । तुम्हारे बिना मेरा नीरस जीवन कठोरतामें परिवर्तित हो जाता और शायद मैं कितनी ही नुष्टियोंका पात्र हो जाता ।’

‘इतना अधिक महत्व इस दासीको न दें देव !’ कहकर मुस्कुरा पड़ी तिष्यरक्षिता ।

उसे हृदयसे लगाकर सम्राट बोले—‘प्रिये ! मैं तुम्हें दुःखी नहीं देख सकता ।’

‘तच्छिला जानेके लिए श्रीसम्राटदेवने क्या निश्चय किया ?’

‘मेरा वही निश्चय है भद्रे ; जो तुम्हारी आज्ञा होगी ।’

‘मैं तो यही चाहती हूँ कि श्रीसम्राटदेव युवराजको पराक्रम-प्रदर्शनका अवसर प्रदान करें । इसमें साम्राज्य और स्वयं युवराजकी भी भलाई है । “तुम्हारा कथन ठीक है प्रिये ! अभी युवराजको बुलवाता हूँ ।’

सम्राटने परिचारिकाको युवराजके बुलानेकी आज्ञा प्रदान की । थोड़ी

ही देरमें युवराज आकर उपस्थित हुए। उन्होंने सम्राट और साम्राज्ञीका चरण स्पर्श किया। सम्राट बोले—‘युवराज !’

‘आज्ञा पितान्नी ?’ मस्तक नवाकर कुणाल बोले।

तुम्हें इसलिए बुलाया है कि कुछ कारणोंसे मेरा तक्षशिला जाना संभव नहीं है, अतः कल प्रातःकाल वहाँ जानेकी तुम्हीं तैयारी कर लो। तुम्हें वहाँका प्रजापति बनाकर भेजा जा रहा है। विद्रोहका दमनकर वहाँका उचित रीतिसे तुम शासन करो और जब तक दूसरी राजाज्ञा तुम्हें न प्राप्त हो, तब तक तुम वहाँका शासन-प्रबन्ध करो।’

‘जो आज्ञा देव !’ बड़े विनीत स्वरमें और बड़ी प्रसन्न मुद्रामें युवराज बोले।’

‘सोचता हूँ। तुम्हारे वहाँ जानेसे तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी; क्योंकि यह तुम्हारी अवस्था पराक्रम-प्रदर्शनकी है।’

‘जो आज्ञा पितान्नी !’

‘राजाश्रीको यह अवसर जल्दो नहीं प्राप्त होते। यद्यपि हमारे साम्राज्यमें युद्धको महत्त्व न देकर अहिंसाको ही प्रधानता दी गयी है, किन्तु सम्पूर्ण प्राणियों के हितमें तत्पर बौद्ध-धर्मकी अवहेलना करनेवाले आततायियोंको नियन्त्रणमें करना भी राज्यका महत्वपूर्ण कार्य है।’

‘जो आज्ञा पितान्नी !’

‘अब तुम जा सकते हो प्रियवर ! तैयारी करो।’

सम्राट तथा साम्राज्ञीके चरणोंका स्पर्शकर युवराज प्रकोष्ठके बाहर हो गए।



दूसरे दिन प्रातःकाल युवराज कुणाल कुमार सम्प्रति एवं युवराज्ञी कांचनमालाको साथ लेकर तक्षशिलाकी ओर रथ पर चढ़कर चले; उनके

पीछे दश हजार योद्धा युद्धकी कामनासे चले जा रहे थे । वहाँ पहुँचने पर राज-कर्मचारियोंने उनका भव्य स्वागत किया । सम्राटका आज्ञापत्र पाकर तत्क्षिलाधीशने युवराजको राज्यप्रासादमें ठहराया । वे तत्क्षिलाके प्रजापति बनाकर भेजे गए हैं; यह समाचार सारे नगरमें फैल गया । वहाँके बड़े बड़े नागरिक एवं राजकर्मचारी युवराजसे मिलने आये ।

वहाँ पहुँचकर युवराजने दूसरे दिन राजकर्मचारियों एवं श्रेष्ठ नागरिकोंकी एक विचार-विमर्शके लिए गोष्ठी बुलाई, उसमें विद्रोहके प्रशमनके लिए वार्ता हुई । युवराजने पूछा — ‘यह गोपक चन्द्रभाल कौन हैं !’

तत्क्षिलाधीश बोला—‘यह अपनी नीतिपरायणता एवं वीरतामें विख्यात बड़ा ही लोक-प्रिय व्यक्ति है । यही विद्रोहियोंका नेतृत्वकर रहा है, युवराजदेव !’

‘विद्रोहके उठ खड़े होनेका प्रमुख कारण क्या है ?’

‘शासनसत्ताकी शिथिलता ही इसका कारण हो सकता है, युवराजदेव ! मेरा तो यही अनुमान है ।’

‘किन्तु मेरे अनुमानसे राजकर्मचारियोंके असहनीय व्यवहारसे प्रजा व्यथित होकर असंतुष्ट हो गयी और उसने विद्रोह कर दिया है । राजकर्मचारियोंके व्यवहारमें कटुता-जब पैदा हो जाती है, तब वह बहुत बड़ी अव्यवस्थाको जन्म देती है, जब तक शासकवर्ग प्रजाके साथ प्रेमपूर्णा व्यवहार नहीं करता, तब तक वह सफल नहीं हो सकता !’ युवराज कहते हुए कुछ गम्भीर हो गए ।

तत्क्षिलाधीश युवराजदेवकी बातोंसे निम्प्रभ हो गया । थोड़ी देरमें उसने प्रतिवाद किया । वह बोला—‘प्रजाका भी अपराध हो सकता है, युवराजदेव !’

‘हो सकता है; किन्तु सामूहिक रूपसे यदि प्रजामण्डलसे अपराध होता है, तो वह निश्चय ही राजकर्मचारियोंका दोष माना जाना चाहिए । युवराज बोले ।

तक्षशिलाधीशकी आकृति म्लान पड़ गयी । वह मौन हो गया । युवराज पुनः बोले—‘कुछ राजकर्मचारियोंका दोष, कुछ प्रजाका; दोनों मिलकर भयंकर रूप धारण कर लेते हैं; किन्तु इसका उत्तरदायित्व राजभक्त कर्मचारियों पर अधिक है और प्रजा पर कम ।’

‘राजभक्त कर्मचारियोंका युवराजदेव अपमान कर रहे हैं ।’ कहते हुए तक्षशिलाधीशकी ध्वनि कुछ अव्यवस्थित हो गयी ।

‘राजकर्मचारियोंके अनुचित व्यवहारसे यह विद्रोह खड़ा हुआ है । मैं प्रजामें घूम-घूमकर इसकी जाँच करूँगा ।’ युवराजने कहा ।

‘जब आपको राजकर्मचारियों पर विश्वास नहीं है; तब मैं क्या कह सकता हूँ, श्रीयुवराजदेव !’

‘आप क्या कहेंगे । राजकर्मचारी प्रशंसाके योग्य नहीं हैं; नहीं तो प्रजामंडलमें असंतोषकी लहर न दौड़ती और विद्रोह न उठ खड़ा होता ।’ युवराज कुछ तीव्र स्वरमें बोले ।

अपमानित होकर तक्षशिलाधीश उद्विग्न हो उठा ।

युवराजने कहा—‘अच्छा; आप जाइए, मैं इसका पता लगाऊँगा ।’

क्रोधकी लहर हृदयमें दबाकर तक्षशिलाधीश प्रकोष्ठके बाहर चला गया । गोष्ठीका कार्यक्रम समाप्त हुआ । लोग यथास्थान चले गए ।

कुछ देर तक युवराज मौन होकर स्थिति पर विचार करते रहे । उन्होंने सोचा—‘बिना किसी विशेष कारणके प्रजा अपने प्राण हथेली पर रखकर मारने-मरनेको प्रस्तुत नहीं होती ।’

थोड़ी देरमें उन्होंने कहा—‘प्रिये !’

‘आज्ञा देव !’

‘आज मैं साधारण वेशभूषामें विद्रोहके कारणोंका पता लगाने रात्रिमें भ्रमण करूँगा । तुम सभप्रतिके साथ पार्श्वके कक्षमें शयन करना ।’

‘किन्तु देव ! नगरकी स्थिति भयानक होती जा रही है; अतः इस

दशामें आपका बाहर रात्रिमें भ्रमण करना अनुचित प्रतीत होरहा है ।’

‘प्रजामंडलसे बिना सम्पर्क स्थापित किए न तो उनके दुःख-सुखका पता लग सकता है और न तो उनकी क्रान्ति-भावना हां जानी जा सकती है । यह सोच-विचार कर ही मैं छद्मवेशमें जाना चाहता हूँ प्रिये !’

‘आपका कथन ठीक है देव ! किन्तु मैं विद्रोहकी बात सुनकर इस तरह आपको अकेले जानेमें काँप जाती हूँ ।’

‘भयभीत होनेकी कोई बात नहीं प्रिये ! बुराहयोंके भयसे दरवाजा बन्द कर लेने पर सत्य भी बाहर रह जाता है । कार्य करनेकी कुशलता मनुष्यके उत्थान-पतनका कारण होती है । सावधान रहनेवाला व्यक्ति और अवसरका विचार करके कार्यमें लगनेवाला मनुष्य प्रायः निष्फल नहीं होता प्रिये !’

‘मेरे भी कथनका यही तात्पर्य था देव ! कि आप या तो अकेले न जाइए और यदि जाइए ही तो हर हालतमें सावधान रहिए ।’

‘हाँ प्रिये ! यह सावधानीका ही कार्य है ।’

आधी रात बीत गयी । युवराज कुणाल कंधे पर कर्मुक, कटि-प्रदेशमें एक अच्छी तलवार धारणकर एक ग्रामीण व्यक्तिकी वेशभूषामें साधारण वस्त्र पहनकर और आकृतिका अधिकांश साफेके लोरेसे ढँककर जानेके लिए तैयार होगए । राज्यप्रासादके बाहरी द्वार पर उनका विश्वस्त अनुचर एक उत्तम घोड़ा तैयार कर प्रतीक्षा कर रहा था । युवराज घोड़े पर सवार होगए । एक बार उन्होंने घोड़ेसे उस राज-भवनको परिक्रमा की । उन्हें कुछ व्यक्तियोंकी फुमफुसाहट उस समय सुनायो पड़ा । वे स्थिर होकर ध्यानसे सुनने लगे । राज्यप्रासादकी प्राचारमें ज्योंही उन्होंने दृष्टि फेंकी, त्योंही उन्हें चकित रह जाना पड़ा । उन्होंने सैकड़ों आदमियोंको नंगी कृपाण धारण किए, युद्धकी कामनामें प्रवृत्त देखा । युवराज और भी सतर्क होगए । उन व्यक्तियोंमें आपसमें कुछ वार्ता हो रही थी, उधर ही कान देकर वे सुनने लगे—‘मैं इस स्थानसे रस्सीके सहारे युव-

राजके प्रकोष्ठ तक पहुँच सकता हूँ, आप लोग वहाँ खड़े रहकर सावधान रहें, क्षणमात्रमें इस कृपाण द्वारा युवराजको समाप्तकर मैं आऊँगा। तब मेरा नाम गोपचन्द्रभाल सार्थक होगा।’

दूसरा व्यक्ति बोला—‘किन्तु हम तो यही समझे हैं कि यह कार्य बड़ा दुष्कर है। यदि युवराज जागते होंगे, तो तुम उन्हें नहीं हरा सकते।’

‘किन्तु उनकी सेनाके साथ युद्ध करनेसे भी हम नहीं जीत सकते। हाँ, यह जो सोच रहा हूँ, सरल प्रतीत हो रहा है। यदि युवराज जागते होंगे तो सावधानीसे प्रतीक्षा करूँगा।’

‘विशेष परिस्थितिमें संकट उपस्थित होने पर आपको सूचना दी जायगी और यदि ऊपर आपको प्राण-संकट उपस्थित हो, तो लोग सहायताके लिए तुरन्त तत्पर हो जायँगे। आप रस्सीके द्वारा संकेत करना न भूलें।’

गोपक चन्द्रभाल रस्सीके सहारे ऊपर जाने लगा।

एक वृद्धकी आड़में खड़े होकर युवराज एकाग्र मनसे यह सब देखते-सुनते रहे। उनमें प्राणके भूखे विद्रोही किस प्रकार अपने कार्यमें रत हैं, उनसे छिपा न रहा। वे खड़े-खड़े वहींसे अपने और कांचनके प्रकोष्ठको देखते रहे। गोपक चन्द्रभालको ऊपर जाते देखकर युवराजने अपने कामुकपर बाण चढ़ा लिया और सोचा—यदि मेरे प्रकोष्ठसे चन्द्रभाल कांचनके प्रकोष्ठमें प्रविष्ट हुआ तो उसके ऊपर वार करते ही, उसे मैं तत्काल धराशायी कर दूँगा। मौन होकर एकाग्र चित्तसे युवराज उसकी ओर देखते रहे।

उधर युवराजके प्रकोष्ठका निरीक्षणकर गोपक चन्द्रभाल कांचनमालाके प्रकोष्ठद्वार पर आ खड़ा हुआ। युवराजको उसके हाथकी नग्न तलवार दिखायी पड़ा। युवराजने घनुषकी प्रत्यंचा श्रवण पर्यन्त खींचकर तीर छोड़ना ही चाहा, किन्तु उस समय गोपककी कांचकमालाके प्रकोष्ठका द्वार न खोलते देख, कपाटके छिद्रोंसे ही भाँककर रस्सीके सहारे उतरते देख,

उन्होंने बाण न छोड़ा। गोपकके नीचे उतरते-उतरते बहुत बड़ा कोलाहल प्रारम्भ होगया। विद्रोहियोंकी कार्यवाहीका पता पाकर राज्यसैनिकोंने उनपर आक्रमण कर दिया। युद्ध प्रारम्भ होगया। कितने ही विद्रोही मार डाले गए, कितने ही घायल हो गए। रस्सीके सहारे उतरते हुए गोपकने देखा; उरने एक हाथमें अपना कृपाण सँभाला और दूसरे हाथसे रस्सीके सहारे वह नीचे कूद पड़ा। गोपकको नीचे आया देख विद्रोहियोंका साहस दूना हो गया, वे वीरताके साथ लड़ने लगे। घमासान युद्ध हुआ; किन्तु अल्पसंख्यक विद्रोही बड़ी बुरी तरह पराजित हुए। अपने साथियोंकी पराजय देख गोपक चन्द्रभाल भी भाग खड़ा हुआ। राज्यसैनिकोंने उसका पीछा किया। अपने ऊपर प्राण-संकट देखकर गोपकचन्द्रभाल लौट पड़ा और उसने राज्यसैनिकोंका बड़ी वीरतासे मुकाबला किया। सैनिकोंने उसे चारों ओरसे घेर लिया और उसे काफी घायल कर दिया। युवराज उसकी वीरता और राज्यसैनिकोंका युद्ध देखते रहे। जब उन्होंने देखा कि गोपकचन्द्रभालका प्राण संकटमें पड़ गया है तब उसकी सहायतामें वे स्वयं तरपर होगए। उसके निकट पहुँचकर युवराजने कहा—“श्रीमान् आप आहत हो गए हैं, अब इस समय आपको अपना प्राण अवश्य बचाना चाहिए। आइए हमारे साथ घोड़ेपर चढ़कर भाग चलिए।”

युवराजकी कोमल वाणीने गोपकचन्द्रभाल पर अपना बड़ा प्रभाव दिग्गया। अबसर पाकर युवराज उसे साथ लेकर घोड़ेपर बैठ गए और बातकी-बातमें वे सैनिकोंकी आँखसे ओझल हो गए। नगरके बाहर जाकर चन्द्रभालने मार्ग बताया और युवराजने उसे उसके धर पहुँचाया।

गोपक चन्द्रभालके शरीर पर कुछ घाव होगए थे, जिससे वह कुछ शिथिल होगया था। युवराज उसके घावों पर मरहम पट्टी करने लगे।

युवराजकी सहानुभूति देखकर चन्द्रभाल बड़ा ही कृतज्ञ हुआ और बड़ी विनम्र वाणीमें बोला—“श्रीमन्त आपने आज मेरे प्राणोंकी रक्षाकी है !”

‘हाँ भद्र ! आज आपके प्राण संकटमें पड़ गए थे ।’

‘जिस प्रकार हमारे अन्य साथी आज युद्धमें मारे गए, यदि आप तुरन्त आकर मेरी सहायता न करते, तो निश्चय ही हमें भी उसी प्रकार प्राण गँवाने पड़ते । आज ही आपको मैंने देखा है, भद्र पुरुष ! आप कौन हैं ? अपना परिचय तो दें !’ गोपक चन्द्रभालने कोमल बाखीमें कहा ।

‘श्रीमान् आपकी ही भाँति मैं भी राजकर्मचारियोंसे असंतुष्ट स्वतन्त्रताका प्रेमी एक साधारण नागरिक हूँ ।’ युवराज बोले ।

‘आपका नाम क्या है भद्र ?’

‘मुझे ‘भानुगुप्त’ नामसे लोग पुकारते हैं, श्रीमान् !’

‘भानुगुप्त ?’

‘जी हाँ ।’

‘यह नाम तो मेरे लिए नया प्रतीत होता है भद्र !’

‘हाँ श्रीमान् ! आपका त्याग सुनकर आपके प्रति हमारे हृदयमें बड़ी श्रद्धा पैदा होगयी है और मैं भी अपना प्राण हथेली पर लेकर आपके कार्यमें सहयोग देना चाहता हूँ ।’ युवराजने कहा ।

‘ठीक है, भद्र पुरुष ! स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके लिए आपकी ही भाँति निर्भीकता, प्राणोत्सर्ग और वीरताकी आवश्यकता है ।’—गोपक बोला ।

‘साम्राज्यवादकी जड़ नष्ट करके सुख शान्ति स्थापित करना ही हमारा लक्ष्य है, गोपक महोदय ! परतन्त्रतासे मनुष्यकी आध्यात्मिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति रुक जाती है ।’ युवराज बोले ।

‘धन्य हो भद्रपुरुष ! धन्य हो । आपका सहयोग पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होरही है ।’ गोपक बोला ।

‘इतना महत्त्व बढ़ाकर मुझे लज्जित न करें भद्र !’ युवराजने कहा ।

‘नहीं भाई ! आपने मेरा प्राण बचाया है । आप जैसे ही लोगोंसे मैत्री सुलभदायी होती है ।’

‘नहीं भाई गोपक ! आप महान् हैं, आप उदार हैं; क्यों न ऐसा सोचें !’

गोपक चन्द्रभाल युवराज पर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने तत्काल घोषणा की—‘आप मेरे अभिन्न मित्र हैं ।’

‘मुझे भी आपके मैत्री-सम्बन्धसे हर्ष हो रहा है। अच्छा, यदि आज्ञा दें तो मैं कल पुनः आऊँगा। इस समय घर जा रहा हूँ, घरके लोग प्रतीक्षा करते होंगे। आपको कोई विशेष पीड़ा तो नहीं है ?’

नहीं मित्र भानुगुप्त ! कोई ऐसी पीड़ा नहीं है, जिससे घबराहट पैदा हो। तुम जा सकते हो। हाँ कल अवश्य आ जाना; क्योंकि एक विराट सभाकी आयोजना होगी। कल सभी विद्रोही हमारे यहाँ एकत्र होंगे।’

गोपक चन्द्रभालसे विदा लेकर युवराज बाहर आकर राजभवनकी ओर चल पड़े।



युवराजके चले जानेके थोड़ीही देर पश्चात् घमासान युद्धका संवाद पाकर कांचन दुःखी हो गई। वह सोचने लगी—आखिर उसने उन्हें जाने ही क्यों दिया ? भयानक युद्धमें सावधानी नहीं काम दे सकती ? यदि युद्धकी तैयारी कर युवराज सेनाके साथ गए होते तो इतनी चिन्ता-की बात न होती। युद्धकी विकरालताका ध्यान आते ही उसने कल्पना की—युवराजदेव शत्रुओंसे घिर गये हैं, उनकी सहायता करनेवाला इस समय कोई नहीं है ! उनके हथियार शत्रुओंके अधीन हो गए होंगे अथवा शत्रुओंने मार डाला होगा। निश्चय ही वे छिप न सके होंगे, उनके व्यक्तिस्वको शत्रुओंने पहचान लिया होगा। निरस्त्र होकर उन्हीं

प्राणोंकी रक्षा कैसेकी होगी ? युवराजके जीवित न रहने पर अपनी हो जाने वाली दुर्दशाकी कल्पनाकर कांचनका हृदय काँप गया। माता राजमहिषी तिष्यरक्षिताके व्यवहारकी कटुता और अपने भावी जीवनके संकटग्रस्त दिनोंकी यादकर वह व्याकुल हो गयी। क्या किया जाय ? कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कांचनको।

क्षण-क्षण बीत रहे थे। कांचनमालाको नींद न आ रही थी। धीरे-धीरे वह बेचैन होती जा रही थी। कभी वह शिथिल होकर शय्या पर निष्प्राण शरीरकी भाँति निश्चेष्ट हो पड़ी रहती; कभी वह पल्लंग पर उठकर बैठ जाती और कभी इस करवटसे उस करवट बदल-बदलकर व्याकुलताकी प्रतीति करती। कभी वह सोचती युवराजका कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, वे आते ही होंगे ? पल्लंगसे उतरकर प्रकोष्ठमें टहलते हुए द्वार पर उसकी दृष्टि जा पड़ी। अब आते होंगे, निश्चय हो उनके लौट आनेका समय हो गया है। वे इसी क्षण अब आना ही चाहते हैं, इसी प्रकार सोचते हुए कुछ समय बीत गया, किन्तु युवराज न लौटे। सोचा कांचनमालाने—निश्चय ही उनके प्राणों पर संकट उपस्थित हो गया है, नहीं तो अब तक वे लौट आये होते।

कांचनमाला दुःखी थी, परेशान थी। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। सारी रात्रि बीत गई; युवराजकी प्रतीक्षामें वह थक गयी। थोड़ी देरमें घोड़ेकी टाप सुनाई पड़ी। उसे विश्वास हुआ—यह युवराजका ही घोड़ा है। वह दृष्टि स्थिरकर द्वारकी ओर देखने लगी।

घोड़े पर आ रहे युवराज ही थे। युवराजको आते देख उसका चित्त शान्त हुआ। परिचारकने घोड़ा थाम लिया। युवराज राज्यप्रासादमें प्रविष्ट हुए। कांचन द्वार पर आ खड़ी हुई।

‘आइए युवराजदेव ! आपने तो मुझे विकल कर डाला था। जितना कोई स्त्री जीवनभर पतिके वियोगमें यातना सहन कर सकती है उतना आपने मुझे एक ही रात्रिमें सहनेके लिये वाध्य कर दिया।’ कांचन-

मालाने मुस्कुराकर कहा ।’

‘वियोग इसे न कहो प्रिये ! इसे आशंका कहो ।’

‘कुछ भी कहिए, युवराजदेव ! किन्तु यह तो मुझे असह्य है । अब इस संक्रातिकालमें आप कदापि न रात्रिमें भ्रमणके लिए जायें; जाना भी नहीं चाहिए, देव ! कांचनमालाने बड़ी चिन्मग्नतासे कहा ।

‘किन्तु भद्रे ! तुमने यह मुझसे न पूछा कि रात्रिमें इस मार-काटके बीच मैंने क्या किया ?’ युवराज बोले ।

‘आपने कुछ भी किया हो, किन्तु अब भविष्यमें इस प्रकार आप रात्रिमें नगर-भ्रमणका आयोजन न बनावें देव !’

‘प्रिये ! जितना तुम भयभीत हो गयी हो, वह तुम्हारी मर्यादाके विरुद्ध है । भयभी कोई बात मुझे नहीं जान पड़ती । आधा कार्य मैंने समाप्त कर लिया है । रात्रिमें कोई भी संकट मेरे ऊपर नहीं उपस्थित हुआ; बल्कि इन विपरीत परिस्थितिका मैंने बड़ा लाभ उठाया है ।’

‘क्या लाभ हुआ आपको ?’

‘अभी सुनकर तुम्हारा हृदय हर्षसे भर जायगा ।’

‘सुनूँ तो देव ! कौन-सा ऐसा शुभ-समाचार है । मुझे सचमुच बड़ी प्रसन्नता अभीसे हो रही है । मैं बड़ी उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रही हूँ ।’

‘मैंने विद्रोहियोंके नेता गोपक चन्द्रभालसे मैत्री-सम्बन्ध कर लिया है । अब उससे बड़ी आत्मीयता हो गयी है, शुचिस्मिते ! है न आश्चर्यमें डालनेवाली बात ?’

‘यह कैसे संभव हो सका देव !’

‘यह फिर कभी—बताऊँगा प्रिये ! आज तुम इतना ही समझ लो कि विद्रोहियोंके नेता गोपक चन्द्रभालसे हमारी गाढ़ी मैत्री स्थापित हो गयी !’

कांचनने आश्चर्य व्यक्त किया ।

‘किन्तु प्रिये ! तुम्हें इस प्रकार अधीर नहीं होता चाहिए था । राजा-

श्रीका युद्ध प्रमुख कार्य है ।' कहा युवराजने ।

'ठीक है देव ! किन्तु आप युद्धके लिए सेना साथ लेकर नहीं गए थे । इसीलिए मेरा धैर्य छूट गया था । मेरी गति तो आप ही तक है; भला तब क्यों न मुझे इस प्रकार मोह उत्पन्न हो !'

'इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरे हृदयमें भी आकर्षण उत्पन्न होता है प्रिये !' कहते हुए मुस्कुराकर युवराजने कांचनमालाको भुजाओंमें कसकर हृदयसे लगा लिया ।

कांचन लजाकर मुस्कुरा पड़ी । उसकी दृष्टि नीचेकी ओर झुक गयी । दूसरे दिन प्रान्तके अनेक सहस्र विद्रोहियोंका गोपक चन्द्रभालके यहाँ आगमन हुआ । सब लोग यथास्थान विराजमान हुए । विद्रोहियोंका नेता गोपकचन्द्रभालका आसन सबसे ऊँचा था । युवराज कुणाल भी ग्रामीण वेशमें वहाँ पहुँचे ।

सभाकी कार्यवाही प्रारम्भ हुई । गोपकचन्द्रभाल भाषण करनेके लिए खड़ा हुआ । समग्र सभामें नीरवता छा गयी ।

विद्रोहियोंका अधिनायक गोपकचन्द्रभाल बोला—'स्वतन्त्रताकी उमंगमें उमड़े हुए वीरो ! तुम्हारे पराक्रमसे मौर्य-साम्राज्यकी नींव हिल उठी है । विद्रोह दमनके लिए सम्राट अशोकवर्द्धनको विशेष व्यवस्थाकर युवराज कुणालको ही भेजना पड़ा है । राज्य-कर्मचारियोंका अन्याय, दुर्व्यवहार सहनकी सीमाके बाहर हो गए । आवश्यकता पड़नेपर जब कभी कोई तक्षशिलाधीशसे या किसी अन्य राज्य-कर्मचारियोंसे मिलने जाता था, तब वह मूर्ख किसीसे नहीं मिलता था । पहले प्रतीक्षामें दो-तीन घंटे बैठकर फिर कहला देता था कि आज नहीं मिल सकते । सारी प्रजा दुर्विनीत तक्षशिलाधीश एवं राज्यकर्मचारियोंके दुराचारसे असन्तुष्ट होकर विद्रोही बनी है । राज्य-कर्मचारियोंके व्यवहारसे सन्तप्त प्रजामण्डलमें जो असन्तोषकी भावना उत्पन्न हो गयी है, वह सब निश्चय ही साम्राज्यके लिए घातक

है। यदि आप सब धैर्यपूर्वक विद्रोहको चलाते रहे, तो निश्चय ही सफलता हमारे साथ है।'

भाषण मौन होकर भानुगुप्तके ग्रामीण वेशमें युवराज सुनते रहे। उनकी आकृति कुछ गंभीर होती गयी। तक्षशिलाधीशके अन्यायके संबंधमें गोपकचन्द्रभालके वक्तव्यका उनपर बड़ा प्रभाव पड़ा।

गोपकचन्द्रभाल पुनः बोला—एक दो बारकी बात होती तो हम सहन भी करते, किन्तु लगातार हमारे ऊपर अन्यायपर अन्याय होता चला आ रहा है। जब किसी भी दशामें हमने सुधारका लक्ष्य नहीं देखा, तब विवश होकर हम अपनी स्वतन्त्रताके लिए तत्पर हुए हैं। हमारे पास यथेष्ट प्रमाण हैं। हमें किस प्रकार निर्दयतापूर्वक पीस रहे हैं राजकर्मचारी, इसकी कोई खोज-खबर लेनेवाला ही नहीं। युवराज कुणाल आए भी तो वे भी हमारा दमन करनेके लिए एक बड़ी सेना साथ लाए हैं। हम किसके यहाँ अपनी फरियाद करें? हमारा कौन सुनेगा?'

सभाके सभी उपस्थित सज्जन मौन होकर गोपककी बातें सुन रहे थे।

गोपक पुनः कहने लगा—'निश्चय ही जब तक हम स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त कर लेते तब तक लड़ेंगे। प्रत्येक दशामें हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कल रात्रिमें युवराजकी हस्यामें हमें सफलता नहीं प्राप्त हुई; बल्कि कितने ही हमारे साथी प्राणोंसे हाथ धो बैठे। इसका कारण था—एक ही कार्यके लिए सैकड़ों आदमियोंका वहाँ जाना। भीड़ देखकर राज्य-कर्मचारी सतर्क हो गए और हम असफल ही नहीं, यदि मेरे मित्र ये, भानुगुप्त उस समय न पहुँचे होते तो मेरा भी प्राण न बच पाता।'

सब लोग युवराजकी ओर देखने लगे। सारी सभा भानुगुप्तकी जय बोलने लगी। चन्द्रभाल फिर बोला—'आज हम चुनकर एक ही आदमी युवराजकी हस्याके लिए भेजना चाहते हैं।

फितने ही आदमी उठकर खड़े हो गए। 'युवराजकी हस्या करनेके लिए हम तत्पर हैं।' कहते हुए।

गोपक चन्द्रभाल बोला—‘युवराजकी हत्या करनेमें वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो राज-भवनसे पूर्ण परिचित हो; वीर हो और निर्भय हो।’ सभा मौन हो गयी।

गोपक चन्द्रभाल बोला—‘है कोई व्यक्ति?’

सभा मौन थी। जब कोई न बोला, तब सबके समक्ष युवराज उठ खड़े हुए। वे बोले—‘मैं अवश्य यह कार्य कर सकता हूँ, गोपक चन्द्रभाल महोदय!’

सबकी दृष्टि युवराजकी ओर केन्द्रित होगयी।

गोपक चन्द्रभालकी दृष्टि युवराजकी हीरक मुद्रिका पर जा पड़ी, जिसे भूलकर युवराज पहने चले आए थे। वह चकित रह गया। एक ग्रामीणके पास अमूल्य राजकीय मुद्रिका देखकर।

सारी सभा ‘भानुगुप्तकी जय’से निनादित हो उठी।

युवराज बोले—‘विद्रोहियोंके अधिनायक गोपक चन्द्रभाल एवं उपस्थित बन्धुओं! प्रजामंडलपर साम्राज्यशाही द्वारा हुए अन्यायका प्रतिशोध मैं अवश्य करना चाहता हूँ। मैं तत्तशिलाघोश एवं राजकर्मचारियोंका अन्याय समाप्त करके ही दम लूँगा। आप सबके सम्मुख प्रया करता हूँ।’

‘धन्य हो भाई भानुगुप्त! धन्य हो!’ सारी सभा पुकार उठी।

युवराज पुनः बोले—‘मैं युवराजकी हत्या करूँगा। मैं ही युवराजकी हत्या करूँगा और आप सबके समक्ष।’

युवराजके हाथमें कृपाण आगई। उन्होंने कहा—‘आप सब मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। मैं इसी स्थान पर युवराजकी हत्याकर आप सबका उद्देग दूर कर दूँगा।’

‘हम लोग आपके इस चमत्कारपूर्ण कार्यकी उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहे हैं; मित्र भानुगुप्त।’ सभाने कहते हुए हर्ष प्रकट किया।

युवराज सारी सभाके समक्ष गोपक चन्द्रभालके पार्श्वमें खड़े होगए।

उन्होंने कृपाणका आघात अपने वक्षःस्थल पर करना चाहा; किन्तु ऊपरसे ही गोपक चन्द्रभालने उनका हाथ पकड़ लिया ।

चन्द्रभालको कुछ आश्चर्य हुआ और उसने युवराजसे पूछा—‘भाई भानुगुप्त ! मुझे बड़ा कौतूहल है, तुम यह क्या कर रहे हो ? तुम छद्मवेशधारी युवराज ही तो नहीं हो ? मैं तुम्हारा रहस्य जानना चाहता हूँ ।’ चन्द्रभालने युवराजके उन्नत ललाट और विशाल नेत्रोंकी ओर निहारा ।

युवराज मौन थे ।

चन्द्रभाल पुनः बोला—‘भद्र ! आपने हमें चकित कर दिया है । अतः शीघ्र हम आपका परिचय जानना चाहते हैं ।’

‘मेरा परिचय ? मेरा परिचय यदि आप जाननेके इच्छुक हैं तो सुनिश्चय निवेदन करता हूँ—मुझे आप प्रजामंडलका तुच्छ सेवक समझें, अपना सहयोगी समझें ।’ युवराजने विनम्र होकर कहा ।

‘यह तो हमने पहलेसे ही जान रखा है भद्र ! इसके आगे जाननेकी उरकंठा है ।’

‘इसके पश्चात् मुझे युवराज कुणालके नामसे लोग पुकारते हैं और सम्राट देवने आपके तक्षशिला नगरका प्रजापति बनाकर मुझे भेजा है ।’

‘युवराज ! कुणाल ! प्रजापति !’ कहकर गोपक चन्द्रभालने महान् आश्चर्य व्यक्त किया ।

सारी सभा चकित हो गयी । कुल्लने सभामें युवराजको अकेले पाकर आक्रमण करना चाहा और कुल्लने प्रभावित होकर उन्हें रोका । चन्द्रभाल स्तंभित हो गया । वह मौन होकर युवराजकी ओर देखने लगा ।

‘भद्र गोपक चन्द्रभाल ! हाथ छोड़ दो, मुझे कृपाण वापस कर दो । मेरी हत्यासे यदि प्रजामण्डलका कष्ट दूर हो सकता है, तो मैं अवश्य उसका संकट दूर कर सकता हूँ । प्राणोंकी वाजी भी लगाकर ।’

‘आपका त्याग महान् है युवराजदेव ! आप महान् हैं । प्रजाका कष्ट

निश्चय ही आपके जीवित रहने पर ही दूर हो सकता है। हम लोगोंका आपकी हत्याका वचन वापस हो। हमारी भ्रान्त धारणाओंका सुधार होगया। युवराजदेवके समक्ष हम प्रजागण मस्तक नवाकर क्षमा माँगते हैं।' चन्द्रभाल बोला।

'युवराजदेवकी जय ! युवराजदेवकी जय !! सभ चिल्ला पड़ी। युवराजदेवके चरणोंमें चन्द्रभाल गिर पड़ा।' 'मुझे क्षमा प्रदान करें देव !' कहते हुए चन्द्रभालने महान् लज्जाका अनुभव किया।

चन्द्रभालको हृदयसे लगाकर युवराज बोले—'नहीं गोपक चन्द्रभाल ! आप लज्जा या संकोचका अनुभव न करें। राजकर्मचारियोंकी अव्यवस्था और लापरवाहीने आपको असंतुष्ट कर दिया। अतः शासनका दोष दूर कर देनेका प्रयत्न करूँगा। इसमें आप प्रजामण्डलका दोष हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है; अतः क्षमाका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे कर्मचारियों द्वारा प्रजामण्डलने जो कष्ट भेला है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।' कहते हुए युवराजने सभाके समक्ष मस्तक झुका दिया।

सारी सभाने युवराजका जय घोष किया।

युवराज पुनः कहने लगे—'प्रिय बन्धुओं ! श्रीसम्राटदेवने मुझे आपके नगरका प्रजापति बनाकर भेजा है। मैं अवश्य शासनकी बुराइयोंको दूर करनेका प्रयत्न करूँगा और अपराधी राजकर्मचारियोंको समुचित दण्ड दूँगा। आप अपना चित्त शान्त कर विद्रोह समाप्त करें। धैर्य रखें; हमारे ऊपर विश्वास करें। थोड़ा अवसर चाहता हूँ। आशा है, आप सब लोग मेरी प्रार्थनाकी उपेक्षा न करेंगे।' युवराज बड़े विनम्र थे।

सभामें नीरवता थी। कुछ लोग चकित थे, कुछ लोग आपसमें बातें कर रहे थे—'देखो तो युवराज कितने न्याय प्रिय हैं ! कितने महान् हैं। इनका प्रजा प्रेम तो बड़ा ही आकर्षक एवं अभिनन्दनीय है। धन्य हैं युवराजदेव !'

सभाको मौन करते हुए युवराज बोले—‘उपस्थित जनसमुदाय तथा गोपक चन्द्रभाल ?’

‘आज्ञा युवराजदेव !’ सबके सब युवराजदेवकी श्रोर शब्दालु-विनत होकर कहने और देखने लगे ।

‘कल एक बड़ो पौर-सभाका आयोजन किया जा रहा है, आप सब उपस्थित होकर जो कुछ राज्य-कर्मचारियोंके प्रति निवेदन करना चाहते हों, उनके विरुद्ध जो भी प्रमाण आप सबके पास हों, प्रस्तुत करें । उसका न्याय होगा ।’

सारी सभा युवराजदेवकी जयजयकारसे ध्वनित हो उठी ।

सभाका कार्यक्रम समाप्त हुआ । सभी अपने-अपने मनमें अपार हर्ष लिए हुए; युवराजकी प्रशंसा आपसमें करते घर लौटे ।

दूसरे दिन प्रातः काल युवराजने तक्षशिलाधीशको बुलाया । उसने आकर युवराजको अभिवादन किया ।

‘आज पौर-सभाका आयोजन किया गया है; आप शीघ्र प्रबन्ध करें ।’ कहा युवराजने ।

‘जो आज्ञा देव !’ तक्षशिलाधीश बोला ।

‘विद्रोहरत नागरिक तो पौर-सभामें संभव है, न उपस्थित हों युवराजदेव !’

‘आप इसकी चिन्ता न करें । पौर सभामें वे अवश्य ही उपस्थित होंगे । उन्हें राज्य-कर्मचारियोंके विरुद्ध प्रमाण उपस्थित करने हैं ।’

काँप गया तक्षशिलाधीश । वह मनमें युवराजके प्रति असंतुष्ट हो गया ।

पौर-सभाका आयोजन हुआ । यथास्थान राज्य-कर्मचारी, तक्षशिलाधीश, गोपक चन्द्रभाल आदि और विद्रोही नागरिक उपस्थित होकर बैठ गए । युवराज और कांचनमाला भी यथा समय सभामें आ पहुँचे ।

सारी सभा युवराज और युवराज्ञीके स्वागतार्थ उठ खड़ी हुई और

जय-घोष करने लगी। तत्क्षशिलाधीशने उन्हें मस्तक नवाकर सम्मान प्रदर्शित किया और सबसे ऊँचे आसनो पर उन्हें ला बैठाया। सभाका कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ।

‘गोपक चन्द्रभाल !’ कहा युवराजने।

गोपक चन्द्रभाल उठ खड़ा हुआ और युवराजको अभिवादन कर बोला—

‘आज्ञा युवराज देव !’

आप राज्य-कर्मचारियोंके प्रति जो कुछ कहना चाहते हों कहें।’

‘श्रीमान् युवराजदेव ! युवराज्ञी और उपस्थित सभी सज्जनों ! आप सबके समक्ष श्रीयुवराजदेवकी आज्ञासे मैं सभी उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिनसे प्रस्त होकर स्वाभिमानी नागरिकोंने विद्रोह प्रारम्भ कर दिया। विद्रोह क्यों हुआ ? इसका उत्तरदायित्व किस पर है ! प्रथम हम इसी पर विचार कर लेना आवश्यक समझते हैं। विद्रोहका सारा उत्तरदायित्व तत्क्षशिलाधीश महोदय एवं अन्य राज्य-कर्मचारियों पर है। ये राज्य-कर्मचारी जब कि सारी प्रजाके सुख-शान्ति और स्तरोन्नयनके लिए नियुक्त हैं और सच्चे हृदयसे प्रजासंभलकी सेवा इन्हें करनी चाहिए; कोई ध्यान नहीं देते। ये अपने ही स्वार्थमें लगे हैं प्रजाको इनके आचरणसे कितनी पीड़ा हो रही है। प्रजा चिल्ला-चिल्लाकर इनसे उत्पन्न अराजकताके संबन्धमें निवेदन करना चाहती है, इनका ध्यान अपने कष्टोंकी ओर आकृष्ट करना चाहती है; किन्तु इन्हें अवकाश नहीं; इन्हें सहानुभूति नहीं। ये रातदिन चिन्तित है, अपने स्वार्थकी सिद्धिमें, अपनी भलाईमें। प्रजा ऊँचे अधिकारियोंसे छोटे अधिकारियोंके सम्बन्धमें मिलना चाहती है, बड़े अधिकारियोंके पास समय नहीं है, अवकाश नहीं है। सबसे मिलने पर उनका अपमान है, वे अदर्शनीय होकर ही सेवक नहीं, स्वामी बनकर रहना चाहते हैं। मेरी समझसे मान-अपमानका प्रश्न भी एक बड़ी समस्या है छोटे आदमियों-

को मान जितनी मार्मिक पीड़ा शीघ्रतासे पहुँचाकर सताता है, उच्च स्तरके व्यक्ति उतनी शीघ्रतासे मान अपमानसे प्रभावित नहीं होते। और कर्तव्यन्युत् होकर मनुष्य उचित अनुचित सब कुछ करने पर तत्पर हो जाता है।' गोपक चन्द्रभाल बोला।

सारी सभा मौन हो सुन रही थी।

गोपक चन्द्रभाल पुनः कहने लगा—'युद्धकी कामना मानवके हृदयमें जन्म पाती रहती है, राज्य-कर्मचारियोंके असहनीय व्यवहार और आन्तरण-का योग पाकर वह विद्रोहका रूप धारण करती है और राजकर्मचारी विद्रोहियोंका दमन करना चाहते हैं—सेनाके बल पर, अपने आन्तरणका सुधार कर नहीं।'।'

तक्षशिलाधीशने इसका प्रतिवाद किया। गोपक चन्द्रभाल मौन हो गया।

युवराज बोले—'विद्रोहियोंके अधिनायक गोपक चन्द्रभाल महोदय! क्या आपके पास आपके वक्तव्यका प्रमाण है?'

'अवश्य युवराजदेव! लीजिए हमारे पास ये सब लिखित प्रमाण मौजूद हैं। श्रीमान्जी इसका न्याय करें।' कहकर गोपक चन्द्रभालने सारे प्रमाण उपस्थित किए।

तक्षशिलाधीशने सभी प्रमाणोंको मिथ्या प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया; किन्तु निष्पक्ष जाँचमें उसकी सब बातें असत्य प्रमाणित हुईं। युवराज कुशालने राज्य-कर्मचारियों एवं तक्षशिलाधीशको अपराधी घोषित किया।

युवराज उठ खड़े हुए और बोले—'उपस्थित नागरिकों! मैंने आप लोगोंके विद्रोहके कारणका पता लगाया। राज्य-कर्मचारियोंके अपराध पर विचार किया और मेरी दृष्टिमें वे अपराधी प्रमाणित हुए। इन कर्मचारियोंकी नियुक्ति श्रीसम्राटदेवके द्वारा हुई है, अतः दण्ड इन्हें वे ही दे सकते हैं। मैं पूरे विवरणके साथ इनका अपराध श्रीसम्राटदेवके समक्ष निवेदन करनेके लिए आज ही दूत भेजता हूँ। जब तक वहाँसे

कोई राजाज्ञा नहीं आ जाती; तब तक राज्य-कार्य पूर्ववत् चलता रहेगा । आशा है, आप लोग धैर्यपूर्वक राजाज्ञाकी प्रतीक्षा करेंगे । प्रजाजनोके कष्टका हम ध्यान रखेंगे । आप सबके संकट दूर हो जायेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है । सभाकी कार्यवाही समाप्तकी जाती है, आप सबको यहाँ उपस्थित करके मैंने सत्यताकी जिस कसौटी पर राज्य-कर्मचारियोंका अपराध पाया है, वह निष्पत्त है । इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना नहीं है ।'

प्रजा संतुष्ट हुई और कार्यवाही समाप्त होनेपर वह अपने-अपने स्थान लौट गयी । इधर दूत द्वारा राजनगर पाटलिपुत्रमें युवराज कुणालने विद्रोह-आदिके सम्बन्धमें पूर्ण विवरण लिखकर भेज दिया ।

तत्क्षशिलाधीशसे युवराज बोले—'मैं मानता हूँ, जितनी प्रतिभा आपमें है, यदि सच्चे हृदयसे उसका उपयोग किया जाता और वह प्रतिभा गन्दी भावनाओंकी प्रेरणासे क्लुषित न होती तो आपकी और प्रजाकी निश्चय ही भलाई होती ।'

तत्क्षशिलाधीश प्रजामण्डलके समक्ष अपमनित था, लज्जित था और युवराजदेवसे असंतुष्ट था, उसका हृदय क्रोधसे पूर्ण था । वह मौन था । थोड़ी देरमें वह वहाँसे चला गया ।

राज्य-कर्मचारियों एवं तत्क्षशिलाधीशकी गंदी भावना युवराजके हितके लिये उग्रतर होने लगी । युवराजके लिए प्रजाके हृदयमें जितना प्रेम था, राज्य-कर्मचारियोंके हृदयमें उससे अधिक घृणा थी ।



युवराज कुणाल, युवराज्ञी तथा युवराज कुमार सम्प्रतिको अभी एक सप्ताह ही हुआ पाटलिपुत्रसे तत्क्षशिला आए । यहाँ पहुँचकर युवराजने

बड़ी कुशलतासे विद्रोह शान्त कर दिया। उधर सम्राट अशोकवर्द्धन अत्यधिक अस्वस्थ हो गए। सम्राटके अचानक अत्यधिक बीमार हो जानेके कारण पाटलिपुत्रमें बड़ी उदासीनता छा गयी। आमात्यश्रेष्ठ, महाबलाधिकृत; प्रमुख राज्य-कर्मचारी, बड़े-बड़े नागरिक और राज्यवैद्य त्र्यम्बक गुप्त आदि घबराकर तक्षशिलासे पुनः युवराजको बुलाना चाहते थे; किन्तु साम्राज्ञी तिष्यरक्षिताकी अनुमति न मिली।

सम्राटको दिन-प्रतिदिन अस्वस्थ होते देख राजाज्ञा प्रसारित करने का सम्पूर्ण अधिकार तिष्यरक्षिताको ही सौंपा गया। नित नूतन राजाज्ञासे प्रजामण्डलमें संकट छाने लगा। प्रजाके सुख-दुःखका ध्यान परिचारिका श्रेष्ठीसे अचानक साम्राज्ञी हो जानेवाली तिष्यरक्षिताको कहाँ था।

सम्राट अशोकवर्द्धनके प्रकोष्ठमें भीड़ लगी थी; कुछ लोग प्रविष्ट हो रहे थे, कुछ लोग प्रकोष्ठके बाहर जा रहे थे। राजभवनमें चिन्ता व्याप्त हो गयी थी। राज्यवैद्य त्र्यम्बक गुप्तको चिकित्सा चल रही थी। राजमहिषी तिष्यरक्षिताने उनसे पूछा—सम्राटदेवकी अब क्या दशा है भिषग् शिरोमणि ?

‘संसारमें कोई ऐसा रोग नहीं राजमहिषी ! जिसकी औषधि न हो। औषधियाँ आपना चमत्कार अवश्य दिखाएँगी। रोग पर नियंत्रण हो रहा है। घबरानेकी बात तो नहीं है।’ त्र्यम्बक गुप्तने विनीत स्वरमें कहा।

राजमहिषीको संतोष हुआ। वह अपने प्रकोष्ठमें लौट आईं। थोड़ी देरमें प्रतिहारिणी प्रकोष्ठमें प्रविष्ट हुई, उसने साम्राज्ञीको अभिवादन किया।

तिष्यरक्षिताने पूछा—‘कहो क्या संदेश लाई हो ?’

‘तक्षशिलानगरसे युवराजदेवने दूत भेजा है। वह कोई आवश्यक पत्र साथ लेकर द्वार पर आपसे मिलनेकी प्रतीक्षा कर रहा है।’

‘आने दो उसे।’

कक्षमें प्रविष्ट होकर राजमहिषीकी जय बोलते हुए, उसने अभिवादन

किया और युवराजका पत्र तिष्यरक्षिताके समक्ष उपस्थित कर दिया ।

हाथमें पत्र लेकर राजमहिषीने पूछा—‘युवराज और युवराज्ञी तथा सम्प्रति कुशलपूर्वक तो हैं ?’

‘हाँ राजमाता !’

‘तक्षशिलामें जो विद्रोह चल रहा था, उस सम्बन्धमें क्या समाचार लाए हो तुम ?’

‘विद्रोह तो अपनी अद्भुत् नीतिसे शान्त कर दिया युवराजने, साम्राज्ञी ! युद्धकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी वहाँ ।’

आश्चर्य व्यक्त करते हुए साम्राज्ञी बोली—‘बिना युद्धके विद्रोह शान्त हो गया ?’

‘हाँ साम्राज्ञी ! युद्धकी आवश्यकता नहीं पड़ी । युवराजको बड़ी सफलता मिली । विद्रोहियोंके हृदय पर विजय प्राप्तकी युवराजदेवने । प्रजामण्डलके हृदयमें युवराजदेवके प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गयी है । कर्मचारीगण ही विद्रोहमें अपराधी ठहराए गए हैं । इस सम्बन्धमें ही युवराजदेवने यह पत्र भेजा है ।’

दूत मौन होगया । तिष्यरक्षिता पत्र पढ़ने लगी । वह पत्र द्वारा तक्षशिलाकी परिस्थितिसे अवगत हो गयी । तिष्यरक्षिता चकित रह गयी । उसे यह विश्वास न था कि वहाँका विद्रोह इतनी सरलतासे दब जायगा । विद्रोहियोंका अधिनायक गोपक चन्द्रभाल युवराजका मित्र बन जायगा । वहाँ शान्ति स्थापित हो जायगी और नागरिकोंमें युवराजके प्रति हिंसाके स्थान पर श्रद्धाकी भावना पैदा हो जायगी । उसने तो सोचा था कि—विद्रोहकी भयंकर आँचमें युवराज भस्म हो जायेंगे । युद्धकी विकरालता कितनी भयंकर होती है, इसकी कल्पना कर उसने निश्चय कर लिया था कि तक्षशिलासे युवराज पुनः जीवित न लौटेंगे मौन हो, दृष्टि नीचे किए तिष्यरक्षिता सोचती रही ।

दूतने मस्तक नवाकर पूछा—‘मेरे लिए क्या आज्ञा हो रही है साम्राज्ञी ?’

‘तुम ? राजनगर पाटलिपुत्रमें ही एक महीने विश्राम करोगे । पत्रका उत्तर और गजाज्ञा दूंगरे दूत द्वारा भेज दी जायगी ।’

विनम्र होकर दूत बोला—‘जो आज्ञा साम्राज्ञी !

दूत बाहर चला गया । तिष्यरक्षिता युवराजके विनाशकी दूसरी योजना तैयार करना चाहती थी । वह सोच-विचार करने लगी । उसी समय तक्षशिलाधीशका संदेशपायक भी द्वार पर आ उपस्थित हुआ । उसके द्वार पर आनेकी सूचना प्रतिहारिणीने राजमहिषीको दी ।

तिष्यरक्षिता बोली—‘उसे उपस्थित करो ।’

प्रतिहारिणीको आदेश देकर राजमहिषी सोचने लगी -- ‘दूसरे दूतके इतने शीघ्र पुनः तक्षशिलासे आनेका कारण क्या हो सकता है ? कहीं फिर तो नहीं विद्रोह उठ खड़ा हुआ ? राजमहिषी यह सब सोच रही थी; तभी दूतने कक्षमें प्रविष्ट होते ही विनम्रतासे उसे सम्मान प्रदर्शित करते हुए अभिवादन किया ।

तिष्यरक्षिता बोली—‘आओ दूत ! क्या समाचार लाए ?’ दूतने निवेदन किया—‘तक्षशिलाधीशने राजमहिषीकी सेवामें यह संदेश भेजा है कि युवराजदेवने स्वामिभक्त राज्य-कर्मचारियों एवं तक्षशिलाधीशका बहुत बड़ा अपमान किया है और विद्रोहियोंसे मिलकर हम सबको दण्ड दिलानेके हेतु सम्राटदेवकी सेवामें अपराधी प्रमाणितकर पत्र भेजा है । यह पत्र आपसे मिलकर एकान्तमें देनेके लिए तक्षशिलाधीश महोदयने मुझसे कहा था ।’ संदेशवाहकने राजमहिषीके समक्ष पत्र उपस्थित कर दिया ।

तिष्यरक्षिताने पत्र पढ़ा । वह मौन होकर सोचने लगी ।

दूत बोला—‘राजमहिषी ! अपने प्राण बचानेके लिए तक्षशिलाधीशने आपसे करबद्ध प्रार्थनाकी है । उनका विश्वास है कि श्रीसम्राटदेवसे आपही उन्हें क्षमा प्रदान करा सकती हैं ।’

‘ऐसा विश्वास तक्षशिलाधीशको कैसे होगया संदेशवाहक ?’ तिष्य-
रक्षिता बोली ।

‘इसमें आश्चर्य न करें साम्राज्ञी ! आपकी सेवामें कुछ निवेदन करना
चाहता हूँ, यदि अभयदान दें तो ।’ दूत कर-बद्ध बोला ।

‘निर्भय होकर कहो; जो कहना चाहते हो दूत !’

‘युवराजदेव और आपके मध्य जो विषमता पैदा हो गयी है, आपके
हृदयमें प्रतिशोधकी जो भावना गुप्तरीतिसे चल रही है, जो-जो घटनाएँ
आप और युवराजदेवके मध्य घटित हैं, उन सभी घटनाओंसे तक्षशिला-
धीश अवगत हैं ।’

राजमहिषी चकित हो गयी । तक्षशिला जैसे दूरस्थ प्रान्त तक उसकी
गोपनीय बातें पहुँच चुकी हैं ? उसके आश्चर्यकी सीमा न रही । राजमहिषी-
ने सोचा—‘तक्षशिलाधीशके गुप्तचर बड़े निपुण हैं ।’

‘युवराज कुणाल और तक्षशिलाधीशके बीच मनोमालिन्य पैदा
हो गया है ?’

‘हाँ राजमहिषी ! तक्षशिलाधीशके हृदयमें युवराजदेवके प्रति अद्वाके
स्थान पर घृणा है । यदि आप युवराजदेवके विरुद्ध तक्षशिलाधीशसे
सहायता लेना चाहें, तो वे अवश्य इस कार्यमें तत्पर हो जायेंगे ।’

‘ठीक है । अच्छा तुम जाकर विश्राम करो दूत ! द्वार पर प्रतिहा-
रिणीके उपस्थित होनेकी आज्ञा सुनाओ ।’ राजमहिषीने कहा ।

परिचारिका उपस्थित हुई, उसने अभिवादन किया साम्राज्ञीको ।
‘आज्ञा राजमहिषी !’ पूछा उसने ।

‘रुद्रसेनको तुरन्त उपस्थित करो प्रतिहारिणी ।’

‘जो आज्ञा साम्राज्ञी !’ मस्तक नवाकर वह बोली ।

प्रतिहारिणी बाहर चली गयी । थोड़ी देरमें साम्राज्ञीका प्रमुख सहायक
वीर सैनिक रुद्रसेन उपस्थित हुआ । साम्राज्ञीको उसने अभिवादन किया ।

‘आओ रुद्रसेन ! तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ ?’

‘मैं साम्राज्यकी सेनामें उपस्थित हूँ, आज्ञा करें राजमहिषी ! सम्मान प्रदर्शित कर बोला रुद्रसेन ।’

‘श्रीसम्राटदेवकी अस्वस्थताका पता तो उम्हें होगा ही ?’

‘और यह भी कि राज्याज्ञा प्रसारित करनेका अधिकार राजमहिषीको ही इस समय है ।’ रुद्रसेन बोला ।

‘तुम्हारे कथनका तात्पर्य ?’

‘यही कि इस समय राज्याज्ञा हस्तांतरित हो जानेसे प्रतिशोधके लिए उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है राजमहिषीको ।’

‘इसीलिए तुम्हें विचार-विमर्शके लिए बुलाया गया है ।’

‘आज्ञा दें राजमहिषी ! मैं तत्पर हूँ ।’

‘तक्षशिलाका विद्रोह दमन करनेके लिए युवराजको भेजा गया था, जिसमें आशाकी गयी थी कि युवराज वहाँके भयानक विद्रोहमें अवश्य ही प्राण त्याग करेंगे, वहाँ पहुँचकर उन्होंने बिना युद्धके ही विद्रोहियोंको शान्त कर दिया । उनके इस कार्यमें राज्य-कर्मचारी तथा तक्षशिलाधीश अपमानित हो गए हैं । जिस कारण असंतुष्ट होकर वहाँके अधिकारी युवराजके विरुद्ध हो उठे हैं । तक्षशिलाधीश हम लोगोंकी सहायताके लिए तत्पर है । उसका पत्र आज ही आया है । शासन प्रबन्धका सारा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है और सारी राज्याज्ञा मेरे द्वारा प्रसारित हो रही है ।’

रुद्रसेन बोला—‘हाँ राजमहिषी ! यह सब सत्य है ।’

‘यह देखो तक्षशिलाधीशका पत्र है और यह युवराज कुशालका ।’

रुद्रसेनने दोनों पत्र देखा और कहा—‘साम्राज्यकी कथन सत्य है । अब जो करना है; उसकी आज्ञा प्रदान करें ।’

‘सोचती हूँ; युवराज पर राजद्रोहका अपराध लगानेका अच्छा अवसर आ गया है । इस अपराधमें कठोर राजदण्डकी आज्ञा तक्षशिला भेज दी जायगी और निर्विघ्न यह षडयन्त्र सफल हो जायगा ।’

‘इसमें मुझे क्या करना होगा राजमहिषी !’

‘तुम्हें ही आज्ञा-पत्र लेकर तक्षशिला जाना होगा । तुम विश्वसनीय आदमी हो । यदि किसी अन्य व्यक्तिके द्वारा यह राजाज्ञा भेजी गयी तो संभव है, वह जाकर युवराजसे मिल जाय और सारा षड्यन्त्र विफल हो जाय ।’

‘प्रस्तुत हूँ राजमहिषी ! आपकी आज्ञानुसार कार्य करनेके लिए ।’

‘तुम तक्षशिलाधीशको पत्र दोगे और कहोगे—इस आज्ञापत्रके अनुसार युवराजके दरगुहकी व्यवस्था कीजिए । सम्राटदेवने स्वयं यह राजाज्ञा भेजी है ।’

‘किन्तु सोचता हूँ; साम्राज्ञी ! जब विद्रोहियोंको युवराजने अपने पक्षमें कर लिया है और जो सैनिक वहाँ भेजे गए हैं, वे भी युवराजके पक्षमें हैं; अतः स्वयं वीर और अजेय तो युवराज हैं ही, दूसरे इस शक्तिको पाकर वे और भी दुर्विजय हो जायेंगे और यदि वे इस आज्ञापत्रके अनुसार राजदरगुह भोगनेके लिए त्तरपर न हुए तो तक्षशिलाधीश कर ही क्या सकता है ?’

‘मैं जानती हूँ रुद्रसेन ! पत्रमें सम्राटदेवकी मुद्रा अंकित रहेगी, अतः महान् पितृभक्त युवराज स्वतः राजदरगुह भोगनेके लिए प्रस्तुत हो जायेंगे । पिताकी आज्ञाका वे उल्लंघन नहीं करते । यह सर्वविदित बात है ।’

‘और यदि ऐसा न हो साम्राज्ञी ! कहीं युवराजने अस्वीकार कर दिया तो ? क्योंकि यह तो उनकी इच्छा पर ही निर्भर है ।’

‘तो किसी अन्य उपायको काममें लाया जायगा । इस समय तो तुम्हें इसी राजाज्ञासे परीक्षा करनी है ।’

‘जो आज्ञा साम्राज्ञी !’ रुद्रसेन बोला ।

साम्राज्ञी तिष्यरक्षिताने तत्काल तक्षशिलाधीशके नाम पत्र लिखा और उसपर सम्राटकी मुद्रा अंकित कर दी । राजमहिषीने रुद्रसेनको पत्र देते हुए कहा—‘लो; इसी समय तीव्रगामी रथ पर तक्षशिला प्रस्थान करो ।’

पत्र लेकर रुद्रसेनने राजमहिषीके समक्ष मस्तक नवा प्रकोष्ठके बाहर प्रस्थान किया ।

राजमहिषीने राज्यप्रासादमें जहाँ सम्राटदेव अस्वस्थ पड़े थे; प्रवेश किया । वहाँ आमात्यश्रेष्ठ और त्रयम्बक गुप्त जो राजपरिवारका सर्वश्रेष्ठ वैद्य था, उपस्थित थे, राजमहिषीके प्रविष्ट होनेपर ये लोग उठ खड़े हुए और उन्हें सम्मान प्रदर्शितकर यथास्थान बैठ गए । राजमहिषीने पूछा—
'सम्राटदेवकी कैसी दशा है, भिषग्शिरोमणि ?'

'अभी रोग कम तो नहीं हुआ है साम्राज्ञी ! किन्तु वृद्धि पर नहीं है ।'

'तब क्या होगा ?' चिन्ता व्यक्त करते हुए राजमहिषी बोली ।

चिन्ताकी कोई बात नहीं । दवाका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, निश्चय ही लाभ होगा । अवस्था शोचनीय होते हुए भी भयदायक नहीं है; साम्राज्ञी !'

तिष्यरक्षिता नीचे इष्टिकर सोचने लगी ।



१६

तक्षशिलामें युवराज कुणालसे गोपक चन्द्रभाल राजभवनमें मिलने आया । प्रतिहारीने युवराजसे निवेदन किया—'श्रीयुवराजदेव ! द्वार पर गोपक चन्द्रभाल महीदय मिलनेके लिए उपस्थित हैं ।'

'आने दो ।'

'जो आज्ञा ।' कहते हुए मस्तक नवाकर प्रतिहारी बाहर चला गया और उसने गोपक चन्द्रभालको भेजा ।

'आओ मित्र गोपक चन्द्रभाल !' कहते हुए मुस्करा पड़े युवराज ! काँचनके साथ उन्होंने हर्ष व्यक्त किया । गोपक चन्द्रभालने दोनोंको अभि-

वादन किया। युवराज और युवराज्ञीके सम्मुख वह बैठ गया। युवराजने पूछा—‘आज कैसे आगमन हुआ मित्र ?’

‘युवराज और युवराज्ञीके दर्शनार्थ चला आया हूँ और अपने यहाँ आमन्त्रितकर साथ लिवा चलूँगा। हमारे परिवारके लोग युवराजदेवके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं।’ गोपक चन्द्रभाल बोला।

‘मैं तो तुम्हारे यहाँ अनेक बार जा चुका हूँ मित्र !’ युवराजने कहा।

‘किन्तु अभी युवराज्ञी और युवराजकुमार सम्प्रतिका पदार्पण नहीं हुआ है देव ! सभी लोग इनके भी दर्शनकी अभिलाषा रखते हैं।’

‘क्यों सम्प्रति ! चलोगे तुम भी हमलोगोंके साथ ?’

‘माताजी भी चलेंगे न पिताजी ? मैं तो उनके साथ चलूँगा।’

‘तुम बताओ कांचन ?’

सब लोग कांचनमालाकी ओर देखने लगे। कांचनमालाने कहा—‘गोपकचन्द्रभालका आमन्त्रण भला क्यों न स्वीकार किया जायगा ? युवराजदेवकी इनसे आत्मीयता जो ठहरी।’

‘ठीक है।’ युवराजने कहा।

सबको साथ लेकर गोपकचन्द्रभाल अपने भवनकी ओर चला। मार्गमें उसने युवराजसे पूछा—‘श्रीयुवराजदेव ! अपराधियोंके संबंधमें जो पत्र पाटलिपुत्र श्रीसम्राटदेवकी सेवामें भेजा गया था; अभी तक उसका उत्तर नहीं आया ?’

‘नहीं मित्र ! अभी तक सम्राटदेवकी कोई आज्ञा उस संबंधमें नहीं आई।’

‘बहुत दिन लग गए देव ! अब तक तो उसका उत्तर अवश्य आ जाना चाहिए था।’

‘हाँ, आना तो चाहिए था; किन्तु राज-काज है, सम्राटदेवको उसपर विचार करनेका अवसर संभव है अभी तक न प्राप्त हो सका हो। उत्तर आवेगा, अवश्य आवेगा; इसमें सन्देह नहीं मित्र !’

गोपक चन्द्रभाल बड़ा प्रतापी आदमी था; तक्षशिलाके नागरिकोंमें उसका सबसे बड़ा सम्मान था। नगरके बाहर उसकी विशाल अट्टालिका थी। उसका भवन वेशकीमती साजसजासे भव्य था। युवराजका रथ उसके भवन पर जा खड़ा हुआ। सब लोगोंने युवराज, युवराज्ञीका बड़ा स्वागत किया। उसके परिवारमें युवराज्ञी, सम्प्रति समेत युवराजके आगमनसे हर्ष छा गया। युवराज एक बहुत ही सुन्दर कन्नमें टिकाए गए।

युवराजसे मिलनेके लिए कितने ही लोग गोपक चन्द्रभालके यहाँ आ पहुँचे। युवराजको उन लोगोंने अभिवादन किया और युवराजने उन सबोंका सम्मान किया।

कुछ नागरिकोंने कहा—‘सम्राटदेव न्यायप्रिय हैं। राज्यमें प्रजाके सुख-दुःखका स्वयं वे ध्यान रखते हैं।’ कुछ नागरिकोंने कहा—‘युवराज-देव भी तो प्रजाकी पीड़ाका अनुभव किया करते हैं। राज्य-कर्मचारियोंका ही अपराध, प्रजामण्डलके समस्त स्वीकारकर युवराजदेवने अपनी न्याय-प्रियताका प्रमाण दिया है।’

आपसमें इस प्रकार गोपक चन्द्रभालके यहाँ वार्ता चल रही थी; उसी समय राजभवनका एक परिचारक उपस्थित हुआ, जिसकी घबराहटका आभास उसकी भावभंगिमासे प्रकट हो रहा था, उसने युवराजको अभिवादन किया। युवराजने प्रश्नसूचक दृष्टिसे उसकी ओर निहारा।

तक्षशिलाधीशने सेनाकी एक टुकड़ी लेकर युवराजदेवके ऊपर आक्रमण करनेके लिए राजभवन घेर लिया और जब उन्हें पता चला कि श्रीयुवराजदेव गोपकचन्द्रभालके यहाँ गए हैं, तब तद्घर ही आक्रमणके उद्देश्यसे वे सैन्य चले आ रहे हैं।

युवराजको सम्राट अशोकके अत्यधिक बीमार हो जानेका पता न था और न तो यही पता था कि इस समय राजाशा साम्राज्ञी तिष्यरक्षिता द्वारा प्रसारित हो रही है।

प्रतिहारोकी बातें युवराज एवं चन्द्रभालकी समझमें अचानक न आ-

सकीं । युवराज गम्भीर होगए ' उन्होंने पूछा—'इस प्रकार तक्षशिला-
धीशके अचानक आक्रमणका कारण ? हमारे ऊपर उसके आक्रमणका
यह साहस ?'

मौन था परिचारक । युवराज उठ खड़े हुए, हाथमें कृपाण लेकर ।
वे बाहर आना चाहते थे । गोपक चन्द्रभालने उन्हें रोका और कहा—
'इस प्रकार युवराजदेवका अकेले बाहर जाना ठीक नहीं ।'

'यह तुम्हारे आत्मबलकी निर्बलता है चन्द्रभाल ! जाने दो मुझे ।'
'युवराजदेवकी वीरता विख्यात् है, किन्तु अचानक किसी कार्यमें प्रवृत्त
हो जाना यह सेवक ठीक नहीं समझता देव ? आप रुकें मैं अभी बाहर
जाकर पता लगाता हूँ ।'

गोपक चन्द्रभालको बाहर आतेही द्वार पर तक्षशिलाधीश दिखायी
पड़ा; उसके साथ सहस्रों सैनिक सशस्त्र खड़े थे । द्वार पर गोपक चन्द्र-
भालको आतेही तक्षशिलाधीश बोला—'गोपक चन्द्रभाल महोदय !
आपके यहाँ युवराजदेव हैं ?'

'आपके इस व्यवहारका कारण श्रीमान् ?' चन्द्रभाल बोला ।

'पहले उत्तर दीजिए—युवराजदेव कहाँ हैं ?'

'युवराजदेव इस समय आराम कर रहे हैं ।'

'उनसे निवेदन कीजिए; उनके संबंधमें श्रीसम्राटदेवका आज्ञा-पत्र
राजनगर पाटलिपुत्रसे आया है ।'

'किन्तु युवराजदेव इस समय आराम कर रहे हैं ।'

'उनसे बोलिए मैं इसी समय उनसे मिलना चाहूँगा ।'

आपके कथनमें युवराजदेवके अपमानका आभास है महोदय ! यह
न भूलिए कि आप किसका अपमान कर रहे हैं ।'

'और आप भी भूल कर रहे हैं महाशय ! आप राजाज्ञाका उल्लंघन
करते जा रहे हैं ।'

राजाज्ञाका उल्लंघन मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे कथनमें युवराजदेवके

सम्मानका ध्यान रखा गया है। क्या युवराजदेवके व्यक्तित्वमें राज्याज्ञा नहीं संयुक्त है ?

‘इतना समय मेरे पास नहीं है कि आपकी हर बातोंका उत्तर मैं दूँ। मुझे आप और युवराजकी आज्ञा नहीं माननी है।’

गोपक चन्द्रभाल बड़ा दुःखी हुआ। ‘आपकी उदरदता असहनीय है महोदय ! किसके समक्ष और किसके संबंधमें आपकी बातें हो रहीं हैं ? इसका आपको कुछ भी ध्यान नहीं है। विवशा होकर मैं ध्यान दिलानेके लिए वाध्य हो जाऊँगा।’ क्रोधित स्वरमें बोला चन्द्रभाल।

‘मैं आपकी ह्छ्छा न होने पर भी भीतर प्रवेश करूँगा।’

‘ऐसा असंभव है। हाँ, यदि सम्राटदेवका आज्ञा-पत्र आप लाए हैं, तो उसे मैं स्वयं युवराजदेवके समक्ष उपस्थित करूँगा।’

‘यही सही। लीजिए यह पत्र।’ पत्र देते हुए कहा तक्षशिलाधीशने पत्र लेकर चन्द्रभाल युवराजकी सेवामें पहुँचा। हाथ आगे बढ़ाकर उसने उन्हें सम्राटदेवका पत्र दे दिया। युवराजने पत्र पढ़ा। सहसा वे उदास हो गए। उनका कंठ सूख गया। मुखमंडल पीला हो गया। हाथसे पत्र स्वतः गिर पड़ा। क्षणमात्रमेंही युवराजकी थोड़ी देरके लिए जैसे चेतना लुप्त हो गयी। वे मौन होकर पलंगपर लेट गए।

गोपक चन्द्रभाल भी युवराजकी दशा देखकर घबरा गया। उसने पत्र उठा लिया, उसे पढ़ा। थर-थर उसका गात काँपने लगा। युवराजके समक्ष उपस्थित अन्य लोगोंने पत्रमें लिखे गए आदेशकी भयंकरताका अनुमान किया; किन्तु किसी मुख्य बात की जानकारी उन्हें न हुई। उनकी उत्कण्ठा प्रबल होने लगी। सबकी जिज्ञासा शान्त करनेके लिए गोपक-चन्द्रभाल पत्र पढ़ने लगा।

‘देवानांप्रिय धर्मरक्षक मगधाधिपति पियदर्शी सम्राट अशोकवर्द्धन-द्वारा पेषित आदेश-पत्र।’

उपस्थित नागरिकोंने अपना ध्यान उस ओर आकृष्ट किया। गोपक-

चन्द्रभाल पुनः पत्र पढ़ने लगा ।

‘तक्षशिलामें युवराज कुणालको विद्रोह शान्त करनेके लिए भेजा गया; किन्तु वे अपने कर्तव्यसे विचलित हो विद्रोहियोंसे जा मिले, अपने व्यवहारसे वे राजभक्त कर्मचारियोंको असन्तुष्टकर बहुत बड़ा अपराधकर बैठे । विद्रोहियोंके साथ मिलकर युवराज स्वयं एक विद्रोही प्रमाणित हो गए । न्यायकी दृष्टिसे राज्य-कर्मचारियोंका अपमान करनेसे युवराजको दण्ड दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है; किन्तु यह सब दण्ड देनेका अधिकार तक्षशिलाधीशको दिया जाता है तथा आज्ञाकी जाती है कि वे अपराधी युवराज कुणालके दोनों नेत्र तप्तलोह शलाका द्वारा फोड़ दें ।’

उपस्थित लोग हाहाकार कर उठे । सबकी आकृति म्लान पड़ गई ।

चन्द्रभाल पुनः पत्र आगे पढ़ने लगा—‘यह दण्ड पा जानेके पश्चात् युवराज कुणालको पुनः आज्ञा दी जाती है कि वे मौर्य-साम्राज्यको सीमासे बाहर जाकर भिक्षु-वेशमें भिक्षाटन करें ।’

—मौर्य सम्राट अशोकवर्द्धन ।

एक नागरिक बोला—‘क्या यह सम्राटदेवका पत्र हो सकता है ? मुझे विश्वास नहीं होता कि यह आज्ञा-पत्र सम्राटदेवका है ।’

‘इसमें नहीं सन्देह करना है; श्रीसम्राटदेवकी पत्रके ऊपर मुद्रा अंकित है; अतः यह निश्चय ही श्रीसम्राटदेव द्वारा ही प्रेषित आज्ञा-पत्र है ।’ बोला चन्द्रभाल ।

‘मृत्यु तुल्य कष्ट, एक पिता अपने पुत्रको नहीं दे सकता । यह क्या किया सम्राटने ?’ एक नागरिक बोला ।

‘यह अन्याय है, सहनकी सीमाके पार है ।’ गोपक चन्द्रभाल बोला । ‘पिताकी आत्मा पुत्रके लिये इतना कठोर हो सकती है ! यह आज्ञा-पत्र इसे प्रमाणित कर रहा है ।’ एक नागरिक बोला ।

‘युवराजके कार्यका यही पुरस्कार है ।’ गोपक चन्द्रभाल बोल उठा ।

युवराज मौन थे, विस्मित थे, लज्जित थे, चिन्तित थे, विचित्र थीं

उस समय उनकी अवस्था ।

‘सम्राटदेवकी आज्ञासे मैं चकित हूँ, प्रिय चन्द्रभाल ! मुझे विश्वास था राज्य-कर्मचारियोंके अपराधका उन्हें अवश्य दण्ड मिलेगा.....। ग्लानि है मुझे ।’ युवराज बोले ।

युवराजको अत्यन्त लुभित देख अन्य नागरिकोंके साथ गोपक चन्द्रभाल बड़ा दुःखी हुआ । उसने कहा—‘यह ठीक नहीं हो सकता युवराज-देव ! इसे हम कदापि नहीं सहन कर सकते । हम विद्रोह करेंगे मौर्य-साम्राज्यको उलट देंगे । आपके साथ घोर अन्याय हुआ है देव !’

‘मुझे ग्लानि इस बातकी ही है कि प्रजामण्डलके साथ अधिकारियोंका जो अपराध है, उसका उन्हें अवश्य दण्ड मिलना चाहिये था । उस पर ध्यान न दिया जाना सम्राटदेव द्वारा, मेरी ग्लानिका कारण है । यों तो पिताजी द्वारा दी गई आज्ञाका पालन मैं अवश्य करना चाहूँगा । मुझे जो दण्ड दिया गया है, वह सहर्ष मुझे मान्य है; उसके लिए न मुझे दुःख है न चिन्ता ही ।’

‘नहीं युवराजदेव ! हम अपने साथियोंके साथ सम्राटके साथ विद्रोह करनेके लिए तत्पर हैं ।’

‘सम्राटदेव मेरे जो पिता हैं मित्र ! उनकी आज्ञा पालन मेरा परम कर्तव्य है ।’

किन्तु मेरी आँखें हाथमें कृपाण लिए रहने पर आपको दण्ड भोगते नहीं देख सकती ।’

‘नहीं प्रियवर ! तुलाश्रो तक्षशिलाधीशको ।’

‘ऐसा नहीं हो सकता युवराजदेव ! शक्ति रहते हुए मेरे समक्ष ऐसा कदापि नहीं होगा ।’

युवराज स्वयं उठे और बाहर चले गए; उन्होने कहा—‘तक्षशिलाधीश महोदय ! आज्ञासे राजाज्ञाका पालन करनेमें मैं तत्पर हूँ ।’

बड़ी गर्विली दृष्टिसे तक्षशिलाधीशने अपने अपमानका बदला

चुकानेकी सफलता और अपनी विजयका अनुभव कर युवराजकी ओर देखा । चन्द्रभालसे यह सहन न हुआ । उसके अन्तःकरणमें यह दृश्य अंकित हो गया ।

युवराजदेव गम्भीर मुद्रामें थे । वे राजदण्ड भोगनेमें उल्लसित थे । वे सोच रहे थे; मेरे जीवित रहनेकी सम्राटदेवको आवश्यकता नहीं है । मैं उनकी आकांक्षाके विरुद्ध जीकर क्या करूँगा । मुझे धिक्कार है । प्राण देकर पिताजीको अवश्य मैं संतुष्ट कर दूँगा । निश्चय ही राजदण्ड भोगनेके लिए मैं तत्पर हूँ । युवराजकी सारी ब्यथा; सारी चिन्ता और समस्त परेशानियाँ क्षणमात्रमें दूर हो गयीं । पता नहीं; कहाँसे उन्हें सहर्ष राजदण्ड भोगनेके लिए आत्मबल हो गया । उनकी गम्भीर आंकृति अरुण वर्ण हो गयी । वे बोले—‘तक्षशिलाधीश ! मुझे राजाज्ञा सर्वथा मान्य है; मैं दण्ड भोगनेके लिए तैयार हो गया हूँ । आप शीघ्रता करें ।’

तक्षशिलाधीश अनेक सैनिकोंके साथ दो चाण्डालोंको लेकर युवराजकी ओर बढ़ा ।

उपस्थित जन-समुदायमें हाहाकार मच गया । ‘पिता नहीं शत्रु हैं सम्राटदेव ! हम सब नागरिक विद्रोह चाहते हैं । ऐसा कदापि नहीं होगा । युद्धमें हम सब प्राण हथेली पर लेकर तत्पर हैं । भाग जाओ तक्षशिलाधीश ! नहीं तो अभी-अभी क्षणमात्रमें हम तुम्हें निष्प्राण कर देंगे । बदतमीज कहेंकि । दूर हट जा सामनेसे ! हम सब नागरिक तुम्हें देखना नहीं चाहते । दुष्ट ! पापात्मा । सम्राटके राजदण्डसे भले तू छूट गया; किन्तु हम लोग तुम्हें दंड देंगे । चाहे जहाँ चला जा; किन्तु तू बच नहीं सकता ।’ नागरिकोंके साथ सैनिकोंने भी घोषणा की—‘हम युवराजदेवके साथ हैं । सम्राटदेवकी आज्ञा नहीं मान सकते !’

काँप गया तक्षशिलाधीश । भयभीत हो गए उसके साथके सैनिक और घबरा गए दोनों चांडाल ।

किसी प्रकार तक्षशिलाधीश साहस बटोरकर बोला—‘श्रीमान् राज-
दंड भोगनेके लिए तत्पर हो जाइए ।’

‘चन्द्रभाल तक्षशिलाधीशके समक्ष उपस्थित हो गया । नागरिकों,
सैनिकोंका बल पाकर, उनका रुख देखकर बलवान् गोपक चन्द्रभालकी
आत्माने महान् शक्तिका अनुभव किया । उसका आवेग प्रखर हो गया ।
गले पर हाथ लगाकर चन्द्रभालने एक भारी भूटकेसे उसे पीछे धकेल
दिया; वह निस्तेज होकर गिरते-गिरते बचा । उसे चन्द्रभाल मारनाही
चाहता था कि युवराजने उसका हाथ पकड़ लिया ।

‘शान्त हो जाओ ! मित्र चन्द्रभाल ! शान्त हो जाओ ।’

‘नहीं युवराजदेव ! यह कदापि नहीं होगा ।’

‘नहीं प्रियवर ! यदि मेरे प्रति तुम्हारी गाढ़ी प्रीति है तो तुम्हें मेरी
वात माननी होगी । राज्याज्ञा पालन स्वयं मैं करूँगा और आशा है
मेरी आज्ञा तुम्हें भी मान्य होगी ।’

युवराजने सबको शान्त कर दिया ।

चाण्डालोंसे युवराज बोले—‘आओ भद्र ! मैं तैयार हूँ । लौहश्ला-
काओंसे मेरी आँखें फोड़ दो ।’

‘नहीं युवराजदेव ! यह कार्य हमलोग कदापि नहीं कर सकते । हमें
ज्ञात नहीं था कि युवराजदेवकी आँखें फोड़नेके लिए हमें यहाँ लाया
गया है ।

‘राज्याज्ञा का तुम उल्लंघन कर रहो हो भद्र !’

‘इस अपराधका दण्ड हम भोग लेंगे युवराजदेव ! किन्तु हम यह
काम कभी न करेंगे । आप हमें प्राणसे भी अधिक प्रिय हैं ।’ चाण्डालोंने
कहा बड़े विनीत स्वरमें ।

सैनिकोंने अपना-अपना हथियार तक्षशिलाधीशके समक्ष फेंक दिया-
और चाण्डालोंने लौह श्लाकाएँ । सब मौन हो गए; मस्तक सबका
नीचेकी ओर झुक गया ।

तक्षशिलाधीश लज्जित हुआ; भयभीत हुआ और कर्त्तव्यविमूढ़ हो गया। उसे कुछ भी सुझायी न पड़ा।

सैनिकों और नागरिकोंने चांडालोंके साथ कहा—‘राज्याज्ञा उल्लंघनके अपराधका दण्ड हम भोगनेके लिए तत्पर हैं; किन्तु हम कोई आचरण ऐसा नहीं देख सकते और न कर सकते हैं, जिसे हमारे प्राणोंसे भी प्रिय युवराजदेवकी हानि होगी।’

गम्भीर वाणीमें बोले युवराजदेव—‘आप चिन्ता न करें तक्षशिलाधीश महाशय ! हम स्वतः राज्याज्ञाका पालन कर लेंगे। पिताकी आज्ञाका पालन अपना सबसे बड़ा कर्त्तव्य समझता हूँ, आवश्यक मैं उनकी आज्ञा पूरी करूँगा।’

उपस्थित जन-समुदाय मौन था। युवराज पुनः बोलने लगे—‘तत-शलाकाएँ कहाँ हैं। समय नष्ट नहीं करना है, बात-चीतका प्रसंग चलाकर।’

युवराज आगे बढ़े। भूमि पर फेंकी गयी शलाकाओंके समीप जा पहुँचे। उन्हें अग्निमें डाल दिया स्वयं अपने हाथोंसे। शलाकाएँ गर्म हो गयीं। सबको देखते-देखते उन्हें उठाकर युवराजने अपने नेत्रोंके समीप कर दिया। एक बार उन्होंने चारों ओर देखा और फिर उन्हें आँखों पर फेर दिया। आँखें जल गयीं; घाव होगए।

युवराजका यह कृत्य असहनीय था; उनके मित्र तो दुःखी थे ही, विरुद्ध तक्षशिलाधीशकी भी आत्मा काँप गयी। वह दृश्य बड़ा ही हृदय-विदारक था। सभी सैनिक और उपस्थित जन-समुदाय बौखला उठा, सब चिल्ला उठे—‘हम क्रान्ति चाहते हैं; मौ साम्राज्यको उलट देना चाहते हैं। तक्षशिलाधीशकी हत्या चाहते हैं।’

सबको शान्त करते हुए असहनीय पीड़ाको दबाकर युवराज बोले—‘प्रिय भाइयो ! यदि आप सब हमारे ऊपर प्रेम रखते हैं, तो हमारी बातोंकी उपेक्षा न करें; आप सब शान्त हो जायँ। मेरे न्यायप्रिय पिता-

जीने मुझमें अपराध देखा और न्यायपूर्वक दण्ड दिया। मेरे समान कितने ही अपराधियोंको प्रतिदिन दण्ड दिया जाता है। अतः आप सब लोगोंको न तो क्रान्ति करना है और न तो मुझे कुछ उत्तर देना है। मेरी प्रार्थना ठुकराकर यदि आप सब लोगोंने मेरी इच्छाके विरुद्ध आचरण किया तो मुझे असहनीय पीड़ा होगी। मुझे सब लोग हर्षपूर्वक विदा दें।' कहते हुए हाथ जोड़कर युवराजने मस्तक नवा दिया। सब दुःखी थे, मौन थे, सबके मस्तक झुके हुए थे।

यही दृश्य देखनेके लिए हमें उस दिन मृत्यु-मुखसे उबारा था आपने युवराजदेव ! हाय ! मैं आपकी कुछ भी भलाई न कर सका। धिक्कार है मुझे।' पश्चात्ताप करते हुए गोपक चन्द्रभाल बोला।

'मेरे भाग्यको आपलोग नहीं बदल सकते चन्द्रभाल ! यही भाग्यमें था। अब आपलोग शान्तिपूर्वक लौट जाइए। जाओ कतव्यपरायण सैनिको ! जाओ; तक्षशिलापीशकी आज्ञाका पालन करो। तुम लोगोंसे यही विनय है।' युवराज बोले।

सबके नेत्र आँसुओंसे पूर्ण हो गए। सबका गला भर आया। किसीकी वाणी प्रस्फुटित न हुई। युवराजने पूछा—'प्रिय चन्द्रभाल ! यहाँसे सब चले गए ?'

चन्द्रभाल अत्यन्त दुःखी था, मौन था, नेत्रोंसे जलकी धारा प्रवाहित होती रही।

युवराज पुनः चन्द्रभालको टटोलते हुए बोले—'बोलो भाई; बोलते क्यों नहीं। सब चले गए ?' असह्य वेदना दबाकर पूछा युवराजने।

सारी जनता चली गयी थी, दो चार व्यक्ति वहाँ खड़े रह गए थे। चन्द्रभाल कुछ न बोला, उसके पार्श्वमें खड़ा एक व्यक्ति सिसकियाँ लेते हुए बोला—'हाँ युवराजदेव !'

युवराजदेव पुनः बोले—'चन्द्रभाल ! सम्प्रति और कांचनको यह सब घटना न ज्ञात होगी। वे सब तुम्हारी पत्नीके साथ कहाँ घूमने चले

गए ? पता लगाओ। मेरी आकांक्षा है—‘मौर्यसाम्राज्यके परिस्थागके प्रथम उनसे एक बार मिल लूँ।’ कहते हुए उनसे न रहा गया, गला भर गया।

गोपक चन्द्रभाल और उसके पार्श्वमें त्वड़े अन्य लोग ज़ोरसे रो पड़े। वहाँ करुणाका दृश्य उपस्थित हो गया। मौर्यसाम्राज्यकी सीमासे बाहर जानेकी बात सुनकर चन्द्रभाल व्याकुल हो गया। वे सब उसके साथी आर्त्तनाद कर उठे। किसीको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। हाथ मलते सब खड़े रहे।

‘चन्द्रभाल ! मेरे लिए शीघ्रही काषाय वस्त्र और कमण्डलकी व्यवस्था कर दो, नाईं बुलाओ; लम्बे-लम्बे बालोंको मुड़ाकर मैं भिक्षु-वेष धारण करना चाहता हूँ।’ युवराज बड़ी स्निग्ध वाणीमें बोले।

‘यह सब आप नहीं कर सकते युवराजदेव !’

‘बन्धु चन्द्रभाल ! युवराजदेव न कहो; अबसे भिक्षु कुणाल कहाँ करो। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरी आज्ञाका पालन करो। मैं किसी भी दशामें राजाज्ञाके विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता; अतः प्रत्येक अवस्थामें तुम्हें राजाज्ञाका पालन करनाही होगा।’ वाणीमें दृढ़ता थी, गम्भीरता थी युवराज कुणाल को।

नेत्रोंमें असह्य पीड़ा थी। थोड़ीदेरमें सारा समाचार पाकर सम्प्रतिके साथ आ पहुँची कांचनमाला। वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ी और कुछ देर के पश्चात् जब उसकी चेतना लौटी तब वह नहीं सभझ पा रही थी कि यह सब घटना कैसे घट गयी। एक पिता पुत्रके लिए इतने बड़े कठोर दरडकी आज्ञा दे सकता है, इसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ भी हो, युवराजदेवने स्वयं अपनेही हाथोंसे आँखें फोड़ लीं, सैनिक, जनता और चाण्डाल सबके सब तो युवराजके साथ थे, तक्षशिलाधीशके सामने सैनिकोंने हथियार फेंक दिया, चाण्डालोंने लौह शलाकाएँ फेंकदीं, सारी जनताने विरोध किया, किन्तु पितृ-भक्त युवराजने किसीकी एक न मानी,

स्वयं अपनेही हाथों आखें फोड़ लीं । यदि मैं रही होती तो निश्चयही वे आँखें न फोड़ पाते । मेरा स्वर्गस्व नष्ट हो गया, कैसे धैर्य धारण करूँ । कलिंग युद्धके पश्चात् सम्राटदेवके हृदयमें करुणाकी धारा प्रवाहित हुई, अहिंसाका व्यापक प्रभाव साम्राज्य भरमें फैलाया गया, किन्तु सब आडम्बर मात्र था । जो पिता पितृ-भक्त पुत्रके लिए करुण नहीं हो सकता, पुत्रके लिए अहिंसात्मक वृत्ति को नहीं ग्रहण कर सकता, वह प्रजाके लिए कैसे उदार हो सकता है ? समझमें नहीं आ रहा है । मानती हूँ, यदि संसारमें न्यायका ही महत्व दिखाना था सम्राटको तो न्याय करते ! युवराजदेवने अकर्मण्य कर्मचारियों की भर्त्सनाकी थी, उन्हें दरुद दिलानेके लिए निवेदन किया था, साम्राज्यको बिनाही हानि पहुँचाए उन्होंने भयंकर विद्रोहको दबाया था; प्रजामंडल जिसके लिए प्राण देनेके लिए तत्पर हो, उस न्याय-प्रिय पितृ-भक्त पुत्रको कौन ऐसा पिता होगा, जो हानि पहुँचाएगा ? निश्चयही दुष्प्रकृति तिष्यरक्षिताके प्रेममें मग्न हो सम्राटको इस प्रकार चेतना-शून्य होकर बिना समझे-बूझे इतना कठोर दण्ड नहीं देना चाहिए । पाषाण-हृदया, कुलटा साम्राज्ञी तिष्यरक्षिताके प्रभावने सम्राटको जड़ बना डाला है, उनकी सूक्ष्म निरीक्षणा महती प्रतिभा लुप्त हो गई; शोक है ! धिक्कार है !!' सोचते हुए कांचनमालाका क्षात्र-तेज जागृत होगया, मुखाकृति अरुणवर्ण हो गई । जान पड़ा, इसी जोशमें वह प्रलय दृश्य उत्पन्नकर मौर्यसाम्राज्यको उलट देगी । नष्ट कर देगी ।

दूसरे क्षण युवराजको सदैवके लिए अंधा हो जानेका ध्यान हुआ काञ्चनमालाको । अब उनकी आँख सर्वदाके लिए नष्ट हो गयी; सोचकर वह व्याकुल हो गयी । उस समय उसे न धैर्य रह गया और न लज्जाही । वह विलाप करने लगी और मूर्च्छित हो गयी ।

युवराज उसे शान्त करने लगे; आँखोंकी पीड़ा अत्यन्त धैर्यसे दबाते हुए कोमल वाणीसे बोले—'भद्रे ! इस प्रकार दुःखी होनेसे क्या लाभ ? धीर पुरुषही शान्त चित्तसे हर्ष-शोकका आवेग-उद्वेग सहन करते हैं ।

जिस कर्त्तव्यका पालन मैंने जीवनकी बाजी लगाकर किया है। इस भ्रूँति व्यग्र होकर उसका महत्व कम न करो। भाग्यमें जो बदा था, वह हुआ, उसके लिए तड़प-तड़प कर विलाप करनेसे कोई लाभ नहीं। समयके दौरके साथ अपना आगोका कर्त्तव्य सँभालो।'

'प्राणनाथ ! भौर्यसाम्राज्यकी सीमाके बाहर आपके चले जाने पर हमारा यहाँ कौन रह जाता है; जिसकी छाँह ग्रहण कर हम और सम्प्रति जीवन बिताएँगे ?' कहा कांचनमालाने।

'भद्रे ! तुम्हारे लिए किसी प्रकारकी राजाज्ञा नहीं हुई है, अतः पिताजी तुम्हारी रक्षा करेंगे और सम्प्रतिकी भी।'

'मैं उस पिता पर विरवास नहीं करती हूँ, जिसने अपनी उदारता ऐसा गहिँत कार्यकर दिखादी। मेरी दुनियाँ उजाड़ देनेमें जिसे कुछ भी संकोच, कुछ भी दया और कुछ भी लोक-लजा नहीं आयी, उस निष्ठुर पाषाण-हृदय पिताका अब भी अवलम्ब ग्रहण कराते हैं स्वामी ! अब आपको आशा है, वह हमारी भलाई कर सकता है ?'

'भाई; चन्द्रमाल ! इस समय देवी कांचनमालाका चित्त स्थिर नहीं है। मैं इसे और सम्प्रतिको तुम्हारे पास छोड़ जाता हूँ। इन्हें शांत्वना देकर शान्त करना। मैं सर्वप्रथम भिक्षु होकर तुमसे यही भिक्षा चाहता हूँ।'

वहाँ बड़ा ही करुण दृश्य छा गया। कांचन उस समय मूर्च्छित हो, वहीं गिर पड़ी। उधर युवराजने सिरके बाल कटा हाथमें कमण्डल ले, पैरोंमें चरगा पादुका पहिन और सारे शरीरको काषाय वस्त्रसे सुशोभित-कर पूर्ण भिक्षु-वेशमें चल पड़े। चलते समय उन्होंने अपनेको बड़ा संयत रखा। माया-ममताका कुछ भी प्रभाव उनपर न दिखायी पड़ा। उनका हृदय बड़ा ही निष्ठुर होगया था।



राज्य-चिकित्सक सुप्रसिद्ध औषधिवेत्ता भिषग्शिरोमणि त्र्यम्बक गुप्त-की चमत्कारिक औषधियोंके सेवनसे सम्राट अशोकवर्द्धन स्वस्थ होने लगे । उधर सम्राटकी अस्वस्थताके दौरानमें राजमहिषी राज्य-संचालनके कार्योंमें अधिक व्यस्त रहने लगी और सम्राटदेवकी सेवामें समय न दे सकी । तिष्यरक्षिताके इस दुर्घटव्यवहारसे सम्राटदेव बहुत असंतुष्ट हो गए और उसके व्यवहारमें बड़ी कटुताका अनुभव करने लगे । उन्हें विश्वास हो गया—‘निश्चय ही तिष्यरक्षिताको मेरे वैभव पर प्रेम है और मुझसे वह प्रेम नहीं करती । बैर और प्रेम छिपानेसे नहीं छिप सकता ।’ दृष्टि स्थिरकर सोचते रहे सम्राटदेव । उसी समय आम्रात्यश्रेष्ठ वहाँ आ उपस्थित हुए, उन्होंने सम्मान प्रदर्शित करते हुए, सम्राटदेवको अभिवादन किया ।

‘अब देवका स्वास्थ्य कैसा है ?’ बड़ी विनम्रतासे आम्रात्यश्रेष्ठ बोले ।

‘अब तो ठीक हूँ, आम्रात्यश्रेष्ठ ! भयका अब कोई कारण नहीं ।’

‘सम्राटदेवकी इस वारकी अस्वस्थताने हम लोगोंको चिन्तामें डाल दिया था । सभी घबरा गए थे ।’ कहा आम्रात्यश्रेष्ठने ।

‘इधर साम्राज्यका संचालन कैसे हो रहा है, आम्रात्यश्रेष्ठ ? युवराज कुणालका कोई समाचार नहीं मिला ? मुझे तो आश्चर्य इस बातका है कि मेरी इतनी बड़ी बीमारीका समाचार पाकर भी कुणाल नहीं आया ?’

‘उन्हें इसकी सूचना दी गयी थी सम्राटदेव ?’

मस्तक पर आँखें चढ़ा सम्राटने पूछा—‘क्या मेरे अस्वस्थ होनेका समाचार वहाँ नहीं भेजा गया ? मैंने तो सोचा था अवश्य ही आपने उसके पास सूचना भेज दी होगी ।’

‘मैं तक्षशिला सम्राटदेवकी अस्वस्थताका समाचार श्रीयुवराजदेवकी

सेवामें भेज रहा था, किन्तु साम्राज्ञीने मुझे अनुमति नहीं दी। क्षमा करें देव ?'

‘साम्राज्ञीने मनाकर दिया ?’

‘हाँ देव !’

‘क्यों ?’

‘इसका उत्तर राजमहिषी ही दे सकती हैं देव !’

‘बुलाइए उन्हें ।’

‘जो आज्ञा देव !’

‘आमात्यश्रेष्ठने प्रतिहारिणोको बुलाकर आदेश दिया—‘राजमहिषी-को श्रीसम्राटदेव स्मरण कर रहे हैं, जाकर सूचित करो ।’

सूचना पाकर तिष्यरक्षिता उपस्थित हुई। उसने कहा—‘आज्ञा सम्राटदेव !’

‘तुमने मेरी अस्वस्थताका समाचार युवराजके पास तक्षशिला भेजा था ?’ पूछा सम्राटने ।

‘नहीं देव !’ कहकर घबरा उठी तिष्यरक्षिता ।

‘क्यों ?’ पूछा सम्राटने ।

तिष्यरक्षिताकी टाँछ नीचेकी ओर हो गयी । उसकी वाणी प्रस्फुटित न हुई ।

‘बोलो राजमहिषी !’ स्वरमें कुछ तीव्रता थी सम्राटदेवके ।

हृदयकी अस्थिरता छिपाते हुए तिष्यरक्षिता बोली—‘देव ! मुझे क्षमा प्रदान करें, मैंने सोचा था—सम्राटदेव अच्छे हो रहे हैं; वैद्यजीने मुझे आश्वसन दिया था और उधर युवराज विद्रोहियोंके दमनमें व्यस्त थे; ऐसा अवस्थामें उनका ध्यान बँटाना मैंने ठीक नहीं समझा ।’

‘तुमने महामास्यसे परामर्श किया था ? उनसे परामर्शके लिए आवश्यक न था ?’

मौन थी तिष्यरक्षिता ।

सम्राटके नेत्र लाल हो उठे और रोवपूर्ण आवेगमें उन्होंने कहा—
'जाओ !'

तिष्यरक्षिता अपने प्रकोष्ठमें लौट आई । उसका चित्त बड़ा आन्दोलित हो उठा । अन्तमें उसे भय उत्पन्न हो गया; उसने सोचा—'सारे षडयंत्रका पता यदि सम्राटदेवकी समझमें आ गया तो अनर्थ हो जायगा । उसने तुरन्त एक दूत बुलवाया और एक पत्र तक्षशिलाधीशकी लिख भेजा; जिसमें लिखा था—'हमें पूर्णविश्वास है कि युवराज कुणाल अग्घे कर दिए गए होंगे और भिक्षु होकर साम्राज्यकी सीमाके बाहर चले गए होंगे, अतः सारे षडयंत्रको गुप्त रखनेके लिए आवश्यक है कि तुरन्त संदेश-पायक द्वारा सम्राटदेवकी सेवामें सूचना भेज दो कि युवराज कुणाल स्वेच्छामें भिक्षु-वेषमें राज्यका परित्याग कर देशाटनके लिए चले गए । उनके इस प्रकार अकस्मात् चले जानेसे हम सब दुःखी हैं ।'

संदेश पाते ही तक्षशिलाधीशने दूत द्वारा सम्राटदेवकी सेवामें तत्काल सूचना भेजी, जिसमें लिखा था—'महामहिम प्रियदर्शी सम्राट अशोकवर्द्धनके चरणोंमें तक्षशिलाधीशका कोटिशः प्रणाम ! श्रीसम्राटदेवकी सेवामें यह सूचना देते हुए हमें महान् दुःख हो रहा है कि विद्रोहियोंको दबाकर युवराजदेवके हृदयमें न जाने कैसी भावना पैदा हुई, जो उन्होंने मेरे समझाने पर भी न मानकर राज्यका परित्यागकर बौद्ध-धर्ममें दीक्षा ले, देश-भ्रमणके लिए अज्ञात दिशामें चले गए । युवराजकुमार सम्प्रति और युवराज्ञी उनके वियोगमें दुःखी होकर न जाने कहाँ चले गए । इस प्रकार इन सब लोगोंके चले जाने पर विद्रोही पुनः उभर गए हैं और मेरा अनुमान है बिना आपके आगमनके विद्रोह नहीं शान्त हो सकता । विद्रोह-दमन हमारी शक्तिके बाहर है ।'

आपका सेवक—

तक्षशिलाधीश ।

स्वस्थ हो जाने पर प्रियदर्शी सम्राट अशोकवर्द्धनने साम्राज्यकी पुनः

बागडोर अपने हाथमें ले ली ।

दोपहरका समय था, साम्राज्य विषयक कितनी ही बातों पर राज-सभामें सम्राटदेवके समक्ष विचार-विमर्श हो रहा था । उसी समय पति-हारीने आकर सम्राटदेवकी अभिवादन किया ।

सम्राट बोले—‘क्या चाहते हो ? निवेदन करो ।’

सारी सभाका ध्यान प्रतिहारीके ऊपर केन्द्रित हो गया । प्रतिहारी बड़ी विनम्र वाणीमें बोला—‘श्रीसम्राटदेवसे मिलने तक्षशिलावीश द्वारा प्रेषित सैनिक रुद्रसेन आये हैं और द्वार पर आज्ञाकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।’

‘उसे उपस्थित करो ।’ सम्राट बोले ।

रुद्रसेनको साथ लेकर सम्राटदेवकी सेवामें प्रतिहारी उपस्थित हुआ । भूमिमें गिरकर उसने सम्राटका अभिवादन किया और तक्षशिलावीशका पत्र हाथों पर रख दिया ।

पत्र आमात्यश्रेष्ठसे सम्राटने पढ़वाया । समाचार जानकर वे बड़े दुःखी हुए । उन्हें जैसे साँप सूँघ गया हो ।

‘कारण क्या हो सकता है आमात्यश्रेष्ठ ! कुणालके इस प्रकार चले जानेका ?’ यवराहटके साथ पूछा सम्राटने ।

आमात्यश्रेष्ठ चिन्ताग्रस्त हो गए । सोचने लगे—‘ऐसी कौनसी बात आगई अथवा ऐसी क्या ग्लानि उत्पन्न हो गयी, जिसे युवराजदेव न सहन कर सके और अचानक वे भिन्न हो गए ? मेरी समझमें यह बात नहीं आ रही है सम्राटदेव ! किन्तु यह सब कार्य अकारण नहीं हो सकता ।’ बार-बार उनके मनमें तिष्यरक्षिताके षडयंत्रोंका स्मरण होने लगा । थोड़ी देर मौन होकर पुनः आमात्यश्रेष्ठ बोले—‘सम्राटदेव ! अवश्य ही इसका पता लगाना होगा ।’

‘कुछ समझमें नहीं आता आमात्यश्रेष्ठ !’

‘श्रीसम्राटदेवको वहाँ जाना तो अवश्य ही होगा । बिना वहाँ गए न तो विद्रोहियोंको दबारा जा सकता है और न तो युवराजके अकस्मात्

चिरक होकर चले जानेके कारणका पता ही चल सकता है ।’

‘ठीक कहते हैं आप आमात्यश्रेष्ठ ! सोचा रहा हूँ गुप्त रीतिसे तक्षशिला जाऊँ । आप चुने हुए सैनिकोंको गुप्त रीतिसे तक्षशिला भेजें ।’

‘जो आज्ञा देव !’

उधर युवराजदेव कांचनमालाको शान्तकर देशाटनके लिए चल पड़े । उनकी आँखोंके घाव देखकर कांचनने चन्द्रभालसे कहा—‘युवराज-देवकी आँखें खराब तो हो ही गई हैं; किन्तु उसमें जो अशुभ पीड़ा हो रही है, उसका उपचार तो हो जाना ही चाहिए । आँखोंके घाव तो ठीक हो जायँगे ।’

‘हाँ युवराज्ञी ! आपने ठीक सोचा है कौन जाने अच्छे चिकित्सकसे भेंट हो जाने पर आँखें भी ठीक होजायँ ।’

‘मुझे शरण हो आया है, गोपक चन्द्रभाल ! एक बार मैं युवराज-देवके साथ उज्जैनमें चिकित्सा-भवन देखने गयी थी; वहाँ अच्छी चिकित्सा होती है । संभव हो नहीं पूर्ण विश्वास है; वहाँके कुशल चिकित्सक युवराजकी आँखें अवश्य ठीक कर देंगे । आप एक रथकी व्यवस्था करदें; जो उज्जैन प्रान्तमें राजकीय चिकित्सा-भवन है, वहाँ युवराजदेवको पहुँचा दे ।’

‘जो आज्ञा युवराज्ञी !’ चन्द्रभाल हर्षसे बोल उठा । उसे भी आशा हो गई—‘युवराज अच्छे हो जायँगे ।’

तुरन्त उसने रथ तैयार कराया । युवराज टटोल-टटोलकर पग रख रहे थे । रथके साथ चन्द्रभाल युवराजके समीप पहुँचा और उनके चरण स्पर्शकर बोला—‘देव ! युवराज्ञीने आपकी सेवामें यह रथ भेजा है; आप इसपर सवार होलें और उज्जैनके चिकित्सा-भवनमें आँखोंकी चिकित्साके लिए चले चलें ।’

‘आँखोंको ठीक कराकर क्या करूँगा भाई; संसारमें कितने ही लोग बिना आँखके हैं । बड़े उदासीन भावसे युवराजने कहा ।

‘नहीं देव ! आँखोंकी पीड़ा आपको असह्य होती होगी । आँखें मूँदकर गोपक चन्द्रभालने अन्धोंके कष्टका अनुभव किया और पुनः कहा—‘जो लोग जन्मके ही अन्धे हों उनके और जो लोग बादमें आँख-हीन हो जाते हैं, उनके कष्टमें अन्तर होता है युवराजदेव !’

‘युवराज नहीं चन्द्रभाल ! कुणाल कहो; भिन्नु कुणाल !’

‘अच्छा देव ! यदि आपकी दृष्टि न नष्ट हुई होगी, तो चिकित्सा करनेसे वह ठीक हो जायगी और नहीं तो आँखोंके घाव तो ठीक ही हो जायँगे । दूसरी बात यह भी तो है देव ! बौद्ध-धर्मके अन्तर्गत साधकोंको, शारीरिक पीड़ा सहन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । साधनाके अन्तर्गत शारीरिक पीड़ाका कोई महत्व नहीं है । अतः यदि आपकी आँखोंके घाव ठीक हो जायँ तो धार्मिक दृष्टिकोणसे भी कोई हानि नहीं । सबसे महत्वकी बात तो यह है कि यदि आप कुछ भी मेरे ऊपर प्रेम करते हो, तो निश्चय ही हमारी हतनी प्रार्थना स्वीकार करें । मैं आपको वहाँ पहुँचाकर चला आऊँगा । आज्ञा प्रदान करें देव !’

‘युवराज गम्भीर हो गए । मौन हो गए ।

रथ पर युवराजका हाथ थाम कर चन्द्रभालने बैठायी और स्वयं रथ पर जा चढ़ा । रथ उज्जैनकी ओर चल पड़ा ।

उस समय उज्जैन के प्रजापति थे कुमार दशरथ । उनकी स्मृति हो आई युवराजको । युवराज एक बार उनसे मिलनेकी बातें सोचने लगे, किन्तु यह सोचकर कि कहीं दशरथने मुझे रोक लिया तो निश्चय ही मुझे इस कार्यमें बड़ी कठिनाईका सामना करना होगा । अतः गुप्त रीतिसे मुझे उज्जैनसे दूर राजकीय चिकित्सालयमें ही चलना चाहिए ।

युवराजकी इच्छानुसार चन्द्रभालने उन्हें चिकित्सा-भवनमें पहुँचाया । उन्हें देखकर प्रमुख चिकित्सककी महान् कष्ट हुआ । उसके आश्चर्यकी सीमा न रही । वह युवराजदेवकी स्वयं चिकित्सा और सेवाके लिए तत्पर हो गया ।

उस स्थान पर पहुँचकर युवराजदेवने चन्द्रभालको वापस भेज दिया। चलते समय चन्द्रभालने चिकित्सकसे पूछा—‘महोदय ! क्या युवराजदेव की आँखें ठीक हो सकती हैं ?’

‘अभी आधिकारिक ढंगसे नहीं कुछ कहा जा सकता। उत्तमसे उत्तम औषधिका प्रयोग किया जायगा, दस दिनोंमें पता चल जायगा।’

युवराजके चरणोंको स्पर्शकर चन्द्रभाल रथ लेकर वापस लौट आया। कांचनमाला उसकी बड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। वह युवराजदेवका समाचार जाननेके लिए बड़ी उत्कण्ठित थी। चन्द्रभालके वहाँ पहुँचनेपर पूछा युवराजने—‘कहो चन्द्रभाल ! तुम युवराजको पहुँचा आए ?’

‘हाँ युवराज्ञी ! चिकित्सक उन्हें पहचानता था। उनकी दशा देखकर वह बड़ा दुःखी हुआ।’

‘उसने आँखें ठीक होनेके सम्बन्धमें क्या कहा।’

‘यही कि अभी तक तो कोई बात आधिकारिक ढंगसे नहीं कही जा सकती; किन्तु आशा पायी जाती है कि संभवतः आँखें ठीक हो जायँगी।’
उससे लेकर युवराज्ञी मौन हो गयी।



१८

युवराजको उज्जैनके सुप्रसिद्ध चिकित्सालयमें पहुँचाकर गोपक चन्द्रभाल जब तक्षशिला लौटा, तब उसने युवराज्ञी कांचनमालाके नेतृत्वमें शासन-सत्ताके विरुद्ध विद्रोहियोंका संगठन प्रारम्भ कर दिया। युवराज्ञी कांचनमालाने प्राणपणसे—अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे प्रजामण्डलमें विद्रोहकी भावना जागृत कर दी। विद्रोहियोंमें युवराज कुशालके परमभक्त सैनिक भी आकर सम्मिलित होने लगे। मौर्य-साम्राज्यकी जड़ उखाड़ फेंकनेके लिए गोपक चन्द्रभाल दृढ़-संकल्प था। उससे मित्रताकर लेनेके

कारण ही युवराजको राजदण्ड भोगना पड़ा था । उसके हृदयमें युवराज-के प्रति अगाध अद्धा उत्पन्न हो गई थी । वह उनके लिए मारण-मरणके लिए तत्पर हो गया था । इसीलिए धीरे-धीरे वह साम्राज्यके विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन छेड़ना चाहता था । यत्र-तत्र विश्वसनीय व्यक्तियों-को भेज-भेजकर वह विद्रोहकी शक्ति बढ़ा रहा था । युवराजका प्रसंग चला-चलाकर चन्द्रभालके गुप्तचर प्रजामण्डलमें उत्तेजना पैदा कर रहे थे । मौर्य-साम्राज्यके प्रति जनतामें अब घृणा होती जा रही थी ।

कांचनमाला रातों-दिन इसी चिन्तामें पड़ी थी कि वह कब युवराज-के प्रति न्याय करनेवालीका अवसर पायेगी । उसके हृदयमें भयङ्कर प्रतिशोधकी भावना प्रबल होती जा रही थी । समय निश्चित कर दिया गया; सारी तैयारी आक्रमणकी हो चुकी थी । इस सम्बन्धमें युवराजकी तथा कांचनमालासे वार्त्ता हो रही थी । चन्द्रभाल कह रहा था—‘युवराजकी के साथ एक लाखसे अधिक सैनिक वीर तैयार हो चुके हैं ।’

‘और अभी कितने और तैयार हो सकते हैं ?’

युवराजकी करुण-कथा सुनते ही अधिक संख्यामें जनसमुदाय विद्रोह-की भावनामें उमड़ पड़ता है । मेरा अनुमान है, राजनगर पाटलिपुत्रतक पहुँचे-पहुँचते सारी प्रजा हमारे साथ हो जायगी ।’

उसी समय एक गुप्तचरने आकर निवेदन किया—‘युवराज ! पाटलिपुत्रसे गुप्तरीति द्वारा सम्राटदेव तद्दशिला पधारे हैं ।’

‘उनके आनेका कारण क्या हो सकता है ?’—कहा कांचनमालाने । ‘अवश्यही किसी विशेष कारणसे सम्राटदेव पधारे हैं । उनके आगमनका कारण क्या है ? इस सम्बन्धमें गुप्तचर भेजकर पता लगाया जायगा युवराज !’

युवराजकी काञ्चनमाला बोली—‘कुछ भी हो, किसी भी उद्देश्यसे सम्राटदेवका आगमन हुआ हो, हमें इसकी चिन्ता कदापि नहीं है । हमें तो अपनेही कर्त्तव्य पर ध्यान देना है ।’

‘ठीक है; विद्रोही जनता आपका दर्शन करना चाहती है और एक गुप्त सभाका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्रोहका संचालन करने-वाले प्रमुख व्यक्ति उपस्थित होंगे और उनके लिए कार्य-क्रम निश्चित किया जायगा।’

‘सभा किस स्थान पर बुलायी गयी है?’ युवराज्ञीने पूछा।

‘यहीं हमारे स्थान परही देवि!’

‘ठीक है।’ संतोष व्यक्त करते हुए युवराज्ञीने कहा।

दूसरे दिन गोपक चन्द्रभालके भवनके भीतरी उद्यानमें सभाका आयोजन हुआ। सभी विद्रोही प्रमुख व्यक्ति हजारोंकी संख्यामें युवराज्ञी कांचनमालाके दर्शनाभिलाषी उपस्थित हो गए। सारा उद्यान भर गया। सभाकी कार्यवाही प्रारम्भ हुई। यथास्थान गोपक चन्द्रभाल और युवराज्ञी कांचनमालाने सभामें आसन ग्रहण किया। पूरे जन समुदायमें ‘युवराज्ञीकी जय’ ‘युवराजदेवकी जय’ ‘विद्रोहियोंके अधिनायक गोपक चन्द्रभालकी जय’ के नारे लगने लगे। सबको शान्त करता हुआ गोपक चन्द्रभाल उठ खड़ा हुआ, सभामें नीरवता छा गयी। सबकी दृष्टि चन्द्रभाल और युवराज्ञीके मुखपर केन्द्रित हो गयी।

गोपक चन्द्रभाल बोला—‘स्वतंत्रताके प्रेमी! अन्यायके विरुद्ध दृढ़ संकल्प उपस्थित विद्रोही बन्धुओ! राज्य-कर्मचारियों द्वारा प्रजामंडल पर जो अन्याय होता रहा, उससे आप सब अवगत हैं। उस वार जब विद्रोह करनेके लिए आप सब तैयार हुए, तब राजनगरसे आकर युवराज कुणालने जनताका साथ दिया और अत्याचारी राज्य-कर्मचारियोंको दण्ड दिलानेके लिए पूरा विवरण उन्होंने सम्राटदेवकी सेवामें भेजा। युवराजकी इस सहानुभूतिसे जनताका विद्रोह शान्त हो गया। हम लोग राजाज्ञाकी प्रतीक्षा करते रहे कि अन्यायी राज्य-कर्मचारियोंको सम्राटदेवने कौनसी दण्ड-व्यवस्था करते हैं! किन्तु प्रजाके हितैषी पितृ-भक्त युवराजकी बातों पर ध्यान न देकर सम्राटदेवने उल्टे युवराजकोही अन्धे बनाकर देश-निका-

लाकी राजाज्ञा भेजकर राज्य-कर्मचारियोंकेही साथ सहानुभूति दिखाकर जो निन्दनीय कार्य किया है, वह असह्य है । प्रजाके साथ जो अन्याय था, वह थाही; किन्तु निरपराधी युवराजदेवके साथ जो अन्याय हुआ है, उसने हमें पागल बना डाला है । उस अत्याचारी सम्राटसे क्या आशाकी जा सकती है, जिसने योग्य अपने प्राणोंसे भी प्रिय पुत्र पर आश्चर्यजनक अपमान और अन्याय किया है, भला वह प्रजाकी क्या भलाई कर सकता है ?'

स्तब्ध होकर भाषण सुनती रही सारी विद्रोहियोंकी सभा । एक व्यक्तिके हृदयमें कंपन पैदा हो गया, आश्चर्य-चकित हो रहा वह व्यक्ति । वह सोचने लगा—'युवराजको अन्धा बनाकर देश-निकाला ! राजाज्ञा ! सम्राटदेवकी !' यह सब स्वप्नकी-सी बातें क्या सुन रहा हूँ ?' कभी-कभी उसकी मुखाकृति भ्रान्त पड़ जाती थी और वह अस्थिर हो उठता था । वह बोलना चाहता था; किन्तु पता नहीं क्यों मौन था वह ।

कांचनमाला उठ खड़ी हुई भाषण देनेके लिए । एक बार मंचसे उसने चारों ओर दृष्टि सभा पर फेंकी । भाषण प्रारंभ करनेके पूर्व ही उस चबराए हुए व्यक्ति पर उसकी दृष्टि जाकर रुक गयी ।

उसने कहा—'प्रिय गोपक चन्द्रभाल !'

'हाँ देवि; युवराज्ञी !'

'सभामें उपस्थित जन-समुदायमें जितने व्यक्ति उपस्थित हुए हैं, क्या इनकी जाँच कर ली गयी है ? इसमें शत्रुके गुप्तचर तो नहीं आ गए हैं ?'

'यह कार्य तो पहले ही समाप्त कर लिया गया था देवि !'

'किन्तु मुझे एक व्यक्ति पर सन्देह उत्पन्न हो गया है ।'

प्रवरा गया चन्द्रभाल; वह उठ खड़ा हुआ और बोला—'किस पर सन्देह है युवराज्ञीको ?'

युवराज्ञीने संकेत किया एक प्रौढ़ व्यक्ति पर, जो बड़ा ही तेजस्वी पुरुष था, जिसके वस्त्र बड़े साधारण थे । आकृति पर संयमके साथही साथ

कुछ घबराहटका भी आभास मिल रहा था। जिसकी चौड़ी छाती, उन्नत ललाट और विशाल आँखें उसके महनीय व्यक्तित्वको विकसित कर रही थीं। वह अत्यन्त साधारण वेशमें भी महान् व्यक्ति प्रतीत हो रहा था।

युवराज्ञीके संकेत करने पर गोपक चन्द्रभाल उस व्यक्तिके समीप पहुँचा उस व्यक्तिके अपनेको संयत कर लिया था और गम्भीरमुद्रामें वह स्थित हो गया था। सारी सभाने उस ओर दृष्टिपात किया। सभामें नीरवता व्याप्त हो गई।

‘भद्रे ! आपके पास सभाका गुप्त-चिह्न है ?’

दिखाते हुए उस व्यक्तिके कहा—‘अवश्य महाशय !’

‘आपका परिचय !’ चन्द्रभालने पूछा।

‘मैं देवगुप्त पंचनद प्रान्तसे आया हूँ। अन्यायी मौर्यसाम्राज्यसे मैं भी असन्तुष्ट हूँ और स्वतन्त्रता चाहता हूँ। आपके त्याग और उच्च विचारोंसे प्रभावित स्वतन्त्रताकी बलि वेदी पर अपना शीश चढ़ानेको उद्यत हूँ। मेरा परिचय समझता हूँ यही पर्याप्त है।’ बोला वह व्यक्ति।

‘युवराज्ञीको आप पर सन्देह है भद्रे ! कृपया हमारे साथ चलें।’

गोपक चन्द्रभालके साथ वह व्यक्ति चला आया। ‘आप शत्रुके गुप्त-चर हैं भद्रे ! आप निश्चय ही अपनेको बन्दी समझें।’

युवराज्ञीने अपने समीप बुलाकर चन्द्रभालसे पुनः कहा—‘भद्रे गोपक चन्द्रभाल ! आप इन्हें बन्दी बनालें।’

‘जो आज्ञा युवराज्ञी !’

उस व्यक्तिके सभाका गुप्त चिह्न चन्द्रभालको दिखाया और कहा—
‘महाशय ! आप मेरी सेवाका अनादर कर रहे हैं।’

उस व्यक्तिकी भलीभाँति मुलाक़त देखकर, कुछ रोष व्यक्त करते हुए—
‘मेरे पास समय नहीं है और न मैं इस पर अधिक बोलना ही चाहता हूँ भद्रे पुरुष ! आप बन्दी हैं।’ दृढ़तासे चन्द्रभालने कहा।

‘गोपक चन्द्रभाल ! इन्हें बन्दी बनाइए। मेरी आँखें मुझे बोला

नहीं दे सकती। इस सम्बन्धमें और नहीं कुछ कहना है।' युवराज्ञीने कहा।

चन्दभालने उस व्यक्तिको बन्दी बना लिया और एक सुरक्षित स्थान पर रखा।

युवराज्ञी कांचनमालाने अपना भाषण-प्रारम्भ किया—'उपस्थित बन्धुओं! आपकी न्याय-प्रियता, स्वातन्त्र्य-प्रेम और युवराजदेवके प्रति अगाध श्रद्धा और उनके प्रति किए गए समूहदेवके असहनीय व्यवहारके प्रति श्रुणा देखकर मेरे हृदयमें आप सबके लिए अपार सम्मान पैदा हो गया है।' सबकी ओरसे हर्ष ध्वनि निकल पड़ी।

युवराज्ञीने मस्तक नवाकर पुनः कहना प्रारम्भ किया—'एक समय था, जब आप सब प्रजामंडलके मध्य बौद्ध-धर्मका प्रचार करते-करते हम सब लोग अहिंसाको महत्व देते थे और कहते थे कि युद्ध बुरा होता है, जीत हो जाने पर भी उसके परिणाम बुरे होते हैं, किन्तु उस सिद्धान्तसे हमारा कितना भला हुआ ? यह आप सबको विदित है। कर्णुणाकी घारा हृदयमें प्रवाहित करने पर भी युवराजदेवको अन्धा बना राज्यकी सीमासे बाहर निर्दयतापूर्वक निकाला गया। बौद्ध-धर्म और कर्णुणासे युवराज न अपनी भलाई कर सके और न प्रजामंडलकी ही। शांति, न्याय और प्रजामंडलकी भलाई चाहनेवाले युवराजदेव यदि क्रान्तिका आश्रय ग्रहण करते तो निश्चय ही उनकी आँखें न खराब होतीं और सारे सैनिक, प्रजामंडलके साथ उनकी सहायता कर साम्राज्यशाहीके अनैतिक व्यवहारका अन्तकर देते। युवराज पितृभक्त हैं, उदार हैं, भावावेशमें आकर वे असफल हो गए। न तो उनके इस कर्तव्यसे प्रजामंडलका कष्ट दूर हुआ और न अपराधी राज्य-कर्मचारियोंको दण्ड ही मिला; बल्कि राजकीय सहायता उन्होंने अपराधियोंके पक्षमें रही। यदि हम इन सभी बातों पर विचार करें, तो निश्चय ही हमें बाध्य होकर अपराधियोंके सुधारके लिए क्रान्तिका आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। यद्यपि आप सब महान् वीर हैं, स्वतन्त्रताकी महिमा

समझनेवाले हैं, इस संबंधमें आप सबसे कुछ नहीं कहना है; किन्तु प्रेरणा देना और दिलाना इस समय आवश्यक प्रतीत होता है। आपसमें विचार-विमर्श करके संगठित प्रयासों द्वारा हमें आगेका कार्यक्रम निश्चित करना है; जिससे न तो हमारी शक्तिका ह्रास हो और न हम विफल हों। आज रात्रिमें गुप्तरीतिसे अकस्मात् तन्त्रशिला पर हमारा इतना भयानक आक्रमण होना चाहिए कि शत्रु किसी भी दशामें उसे न सँभाल सकें, इस प्रकार यदि हम यहाँ अपना अधिकार जमा लेते हैं, तो निश्चय ही हमारी शक्ति बढ़ जाती है और आगे चलकर हम अपने उद्देश्यकी पूर्तिमें सफल हो सकते हैं। आप सब लोग यदि हमारी इस विचारधारासे सहमत हों, तो अपनी स्वीकृति प्रदान करें।' कहकर कांचनमाला मौन हो गई और सबकी ओर देखने लगी।

‘हम सब युवराज्ञीके आदेशका पालन करेंगे, विद्रोहियोंके अधिनायक गोपक चन्द्रभालके संकेतों पर चलेंगे। हम सब लोग तैयार हैं। युवराज्ञीकी जय ! गोपक चन्द्रभालकी जय ! युवराजकुमार सम्प्रतिकी जय !’ सारी सभा सिहनाद कर उठी।

युवराज्ञीने पुनः कहा—‘अधिक और कुछ कहकर हमें आप लोगोंका समय नष्ट नहीं करना है। अब आप सब शीघ्र यहाँसे चले जाइए और अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए तैयार होकर यहीं उपस्थित हो जाइए।’ मस्तक नवा दिया युवराज्ञीने।

सभा विसर्जित हुई। सेनानी सब चले गए।

कांचनमाला और गोपक चन्द्रभाल आपसमें वार्त्ता करने लगे।

कांचनमाला बोली—‘तन्त्रशिलाधीश पर प्रबल वेगसे अर्द्धरात्रिमें आक्रमण करना है। अभी तक विपक्षियोंको हमारे इस कार्यक्रमका पता न होगा।’

‘कहा नहीं जा सकता देवि ! गुप्तचर पता लगानेके लिए अवश्य प्रयत्नशील होंगे।’

‘किन्तु मुझे विश्वास है कि तक्षशिलाके राजसैनिक सबके सब हमारे पक्षमें हो जायेंगे ।’ कांचन बोली ।

‘स्वयं सम्राटदेवके आ जानेसे यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि सैनिक हमारे साथ हो ही जायेंगे युवराज्ञी !’

‘किन्तु उस दिन सैनिकोंने अपना-अपना अस्त्र तक्षशिलाधीशके सम्मुख फेंक दिया और सब युवराजदेवके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए बोल उठे थे कि हम राव्याज्ञाका उल्लंघन करते हैं और इस अपराधमें जो भी दण्ड भोगना होगा उसे सहन करनेके लिए तत्पर हैं ।’

‘हाँ युवराजदेवके समक्ष अवश्य कह दिया था सैनिकोंने; किन्तु वे हमारी ओरसे राजसत्ताके विरुद्ध युद्ध कर सकते हैं, यह कदापि न मान लेना चाहिए । सम्राटदेवके समक्ष सैनिकोंका साहस उनके विरुद्ध कैसे होगा, सहसा विश्वास नहीं हो रहा है युवराज्ञी !’

‘चन्द्रभाल ! क्या तुम यह जानते हो—तुमने किसे बन्दी बनाया है ?’

‘हाँ देवि ! शत्रुका गुप्तचर है वह ।’

‘नहीं; तब तुम्हें नहीं अवगत है ।’

चन्द्रभालको आश्चर्य हुआ । वह युवराज्ञीकी ओर जिज्ञासु-भावनासे देखने लगा ।

युवराज्ञी बोली—‘तुम्हें यह जानकर बड़ा कौतूहल होगा ।’

‘क्या ?’

‘यही कि वह कौन व्यक्ति है; जिसे बन्दी बनाया गया है ।’

‘वह कौन व्यक्ति है युवराज्ञी ? मेरी अवश्य उत्कंठा बढ़ती जा रही है । मैं अवश्य जान लेना चाहता हूँ ।’

‘कौतूहल शान्त करो चन्द्रभाल ! समय पर अवश्य जान लीगे कि वह कौन व्यक्ति है । अभी समय नहीं है । हाँ उस व्यक्तिको सावधानीसे बन्दीग्रहमें रखो और कड़ा पहरा रहना चाहिए, नहीं तो हमारा सारा प्रयत्न और संगठन व्यर्थ हो जायगा । उस व्यक्तिको बन्दीग्रहमें डाल

देनेसे सफलता अवश्य होनेकी प्रतीति हो रही है ।’

‘जो आज्ञा देवि !’

‘अच्छा इस समय जाओ भद्र ! थोड़ा आराम करलो और फिर युद्धकी तैयारी करो ।’

रात अँधेरी थी । सभामें उपस्थित जनसमुदाय प्राण हथेली पर ले-लेकर युद्धकी कामनासे प्रवृत्त हुआ गोपकचन्द्रभालके यहाँ एकत्र होने लगा । सभी सैनिक एकत्र हो गए । युद्धकी सम्पूर्ण तैयारी होने लगी और आक्रमण करनेकी आज्ञा पानेकी प्रतीक्षा होने लगी ।



१६

अर्द्धरात्रि थी, संसार घोर निद्रामें मग्न था । तक्षशिलामें राज्यप्रासादके विशाल द्वार पर केवल प्रतिहारियोंकी पक्चाप सुनार्ई पड़ती थी । सम्राट अशोकके आगमनसे तक्षशिलाधीशको बड़ा घैर्य हो गया था । उसे विद्रोहियोंके इस प्रबल आक्रमणका पता न था । राज्यप्रासादके विशाल द्वार पर विद्रोहियोंके आक्रमणके भयसे विशेष प्रबन्ध कर दिया गया था । यह सब होते हुए भी सम्राटदेवके गुप्त रीति द्वारा छद्मवेशमें रात्रि-भ्रमणके लिए चले जाने और लौटकर अभी तक न आनेसे उसे चिन्ता हो गयी थी । अपने प्रकोष्ठमें वह टहलते हुए विचार-मग्न था । सुनसान रात्रिमें घूमते हुए तक्षशिलाधीश प्रमुखद्वार पर आ पहुँचा । सशस्त्र संतरी पहरा दे रहे थे । अपने समक्ष तक्षशिलाधीशको उपस्थित देख, संतरियोंने अभिवादन किया और सतर्क होकर एक ओर खड़े हो, उसे सम्मान प्रदर्शित किया ।

‘देखो बड़ी सावधानीसे पहरा तुम लोगोंको देना चाहिए । गुप्तचरोसे

जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं, उससे पता चला रहा है—विद्रोही बड़े प्रबल वेगसे आक्रमण करना चाहते हैं। बिना भली भाँति पहचान किए किसीको भीतर प्रविष्ट न होने देना।—तक्षशिलाघोश बोला।

‘जो आज्ञा श्रीमान् ! हम सब बहुत सतर्क हैं।’

‘ठीक है।’ कहते हुए तक्षशिलाघोश वापस लौट आया, अपने प्रकोष्ठमें पूर्ववत् घूमने लगा।

राज्यप्रासादके प्रमुख द्वार पर बाहरसे एक आदमी आता दिखाई पड़ा। प्रहरी सतर्क हो गए।

‘कोन है ?’ डाटकर एक संतरीने पूछा।

आगन्तुक मौन था।

सभी प्रहरी सतर्क होगए। एकने पुनः पूछा—‘बोलो ! कौन हो तुम ?’

अन्य सभी प्रहरी उस मनुष्यकी और निहारने लगे। उसे पहचानने का प्रयत्न होने लगा। उसकी बाणसीसे, वेशभूषासे और चलनेकी गतिसे वे सब उसे पहचाननेके लिए प्रयत्न करने लगे।

आगन्तुक आगे बढ़ रहा था। संतरी बोला—‘रुको वहीं और अपना परिचय दो !’

वह आदमी आगे बढ़ रहा था और मौन था। थोड़ी देरमें वह उन प्रहरियोंके निकट आ पहुँचा।

उसकी भ्रष्टता प्रतिहारी और सहन न कर सका, घनुषपर बाण चढ़ा बोला—‘बस, रुक जाओ ! अन्तिम आदेश है ! यदि रुके नहीं और बोले नहीं, तो धराशायी कर दूँगा। बस; एक क्षण और प्रतीक्षा करूँगा बोलो ?’

संतरीने घनुषकी प्रत्येका कान तक खींची, ज्योंही वह बाण छोड़ना चाहता था, त्योंही गम्भीर स्वरमें आदेश हुआ—‘लक्ष्य भंग करो’।

संतरीने बाण उतार लिया। उसके समीप उसे पहचाननेके लिए

कुछ सन्तरी आ गए । आगन्तुक व्यक्तिने अपने शरीरको एक मूल्यवान् वस्त्रसे ढक रखा था । संतरी उसे पहचाननेमें असफल रहे । बड़ी विनम्रतासे एक सन्तरीने पूछा—‘श्रीमान्का राजचिह्न ?’

आगन्तुकने दाहिना हाथ बाहर निकाला, जिसकी अनामिका अंगुलीमें हीरक मुद्रिका सुशोभित थी । ध्यानसे हल्के प्रकाशमें सन्तरीने हीरक-मुद्रिकाका राजचिह्न देखा और अभिवादनकर सम्मान प्रदर्शित करते हुए वह कुछ पीछे हट गया । दूसरे सन्तरीने प्रवेशद्वार खोल दिया । आगन्तुक भीतर प्रविष्ट होते हुए बोला—‘राजनगर पाटलिपुत्रसे एक विशाल सेना आ रही है, उसे प्रविष्ट होने दो । द्वार खुला रखो ।’

‘जो आज्ञा श्रीमान् !’

आगन्तुक भीतर चला गया । सन्तरी सेना आनेकी प्रतीक्षामें द्वार खोलकर उसके दोनों ओर खड़े हो गए ।

‘कौन था भाई; यह व्यक्ति !’ एक सन्तरीने पूछा ।

‘तुम समझे नहीं ? हो मूर्खही । अरे भाई ! तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि स्वयं सम्राटदेव थे ।’ दूसरेने कहा ।

‘अच्छा !’ मस्तक पर आँखें चढ़ाकर कहते हुए संतरीने आश्चर्य व्यक्त किया ।

‘तक्षशिलाधीशसे जाकर निवेदन करो ।’ एक प्रहरी बोला ।

‘क्या ?’ दूसरा बोला ।

‘यही कि श्रीसम्राटदेव भ्रमणकर लौट आए ।’

‘जाता हूँ !’ कहकर वह तक्षशिलाधीशके प्रकोष्ठमें चला गया ।

सम्राटके लौट आनेकी सूचना देते हुए, सन्तरीने तक्षशिलाधीशको सम्मान प्रदर्शित किया । तक्षशिलाधीशने अपने कक्षसे बाहर आ मस्तक नवा कर कहा—‘पधारें श्री सम्राटदेव !’

तक्षशिलाधीश उस ब्यक्तिके साथ-साथ राज्यभवनमें प्रविष्ट हुआ ।

‘आपको लौटनेमें बड़ा विलम्ब हुआ देव !’

‘सावधान हो जाओ तक्षशिलाधीश !’ कहते हुए हाथमें कृपाण धारण किए तक्षशिलाधीशने अपने समक्ष गोपक चन्द्रभालको वीरवेशमें देखा । गोपक चन्द्रभालने जिस ऊपरी वस्त्रको धारणकर अपना सारा शरीर ढँक रखा था, उतार फेंका ।

तक्षशिलाधीश निष्प्रभ हो गया; किन्तु अपना आन्तरिक भय छिपाते हुए उसने तोंव स्वरमें कहा—‘विद्रोही गोपक चन्द्रभाल ! कालकी प्रेरणासे तुम यहाँ चले आए । ठीक है । अभी-अभी मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ ।’ कहते हुए वह हाथमें मुगरा लेकर घण्टेकी ओर मुड़ा । गोपक चन्द्रभालने उसके गलेमें हाथ डालकर एक ऐसा झटका दिया कि वह फर्श पर गिर पड़ा । तक्षशिलाधीश काँपने लगा । चन्द्रभाल बोला—‘दिखा अपनी शक्ति मूर्ख !’

राज्यप्रासादके विशाल द्वार पर विद्रोहियोंकी एक बहुत बड़ी सेना जो समुद्रकी भाँति उमड़ती चली आ रही थी, आ पहुँची । भीतर पहुँचकर उसने सिंहनाद किया । सेनाके आगे-आगे युवराज्ञी काँचनमाला आ रही थी । उन्होंने कुछ सैनिकोंके साथ तक्षशिलाधीशके प्रकोष्ठमें प्रवेश किया । इस प्रकार सैनिकोंका प्रबल वेगसे आगमन सुनकर तक्षशिलाधीश अत्यन्त भयभीत हो गया ।

‘गोपक चन्द्रभाल !’

‘हाँ युवराज्ञी !’

‘तक्षशिलाधीशको बन्दी बनाओ । अभी उसे किसी प्रकारका दण्ड न दिया जायगा ।’

‘जो आज्ञा देवि !’

‘और इसके साथ और जो भी राजभक्त कर्मचारी हैं, उन्हें भी बन्दी-रुहमें भेजो ।’ व्यंगमें काँचनने कहा ।

‘जो आज्ञा देवि !’ चन्द्रभाल बोला ।

‘कल प्रातःकाल सबके सामने प्रजामंडलके समक्ष इन सभी बंदियोंके

अपराधपर विचार किया जायगा ।' कांचनने कहा ।

‘ठीक है ।’ चन्द्रभाल बोला ।

दूसरे दिन तत्तशिलापर विद्रोहियोंने अपना झंडा फहराया । यह प्रान्त मौर्य साम्राज्यसे स्वतन्त्र घोषित किया गया । एक वृहद् सभाका आयोजन हुआ, जिसमें अपार जन-समूह एकत्र हुआ । सभाकी कार्यवाही प्रारम्भकी गयी । सारी सभामें नीरवता छा गयी । गोपक चन्द्रभाल उठ खड़ा हुआ; उसने एक छोटे भाषणसे सबका ध्यान आकृष्ट किया । उसके ओजस्वी भाषणसे जनतामें हर्ष छा गया । उसके पश्चात् कांचनमाला उठ खड़ी हुई और बोली—‘उपस्थित सज्जनों ! आज आप सबके परिश्रम और सहयोगसे यह नगर स्वतन्त्र हुआ है । अब स्वेच्छापूर्वक हम प्रजातंत्र-राज्यकी स्थापनाकर एक श्रेष्ठ प्रतिनिधिका चुनाव कर शासन-प्रबन्ध स्वयं हाथमें ले जनताका कष्ट दूर करें । कुछ साधारण प्रतिनिधियोंका भी चुनाव हो जाना चाहिए, जिससे जनताके कष्टका और उसके हिताहितका ध्यान समय-समय पर अधिकारीवर्ग रखा करें । प्रजाप्रण्डल जब किसी प्रतिनिधि अथवा कर्मचारीसे असन्तुष्ट हो, तो उसके अपराधों पर पूर्ण विचारकर न्यायपूर्वक उसे पदच्युत कर दिया जाय । जनता अपने कष्ट और उत्पीड़नके सम्बन्धमें सब समय सब अधिकारियोंसे मिल सकेगी, इसका ध्यान रखा जायगा ।’

सभाने हर्षसे करतलध्वनि किया ।

कांचनने पुनः कहा—‘प्रतिनिधियोंका चुनाव पहले इसी समय हो जाना चाहिए । इसके पश्चात् जो इस समय राजवन्दी हैं, उन्हें सभामें उपस्थित किया जाय और उनके अपराधों पर विचार हो ।’

प्रजामण्डलकी ओरसे ध्वनि आयी—‘हम युवराज्ञी कांचनमालाको अपना प्रथम और श्रेष्ठ प्रतिनिधि चुनते हैं, अतः उनसे प्रार्थनाकी जाती है—वे सिंहासनारूढ़ हो, उसे सुशोभित करें ।’

सबने हर्ष व्यक्त किया । सबको मस्तक नवाकर कांचनमाला सिंहासन

पर विराजमान् हो गयीं । सभीने युवराज्ञीको सम्मानकर अभिवादन किया ।

इसके पश्चात् एक साधारण प्रतिनिधि-मण्डलका चुनाव हुआ, जिसका सर्वसम्मतिसे नायक गोपक चन्द्रभाल मनोनीत हुआ ।

‘सभी राजबन्दी उपस्थित किए जायें, गोपक चन्द्रभाल !’ कहा युवराज्ञाने ।

‘जो आज्ञा !’ कहकर गोपकने सम्मान प्रदर्शित किया ।

धीरे-धीरे सभी राजबन्दी वहाँ उपस्थित किए गए, जिन्हें सैनिकोंने घेर रखा था । तक्षशिलाधीश तथा अन्य राजबन्दीयोंने वहाँ पहुँचकर देखा कांचनमाला सिंहासन पर विराजमान् है ! सहसा वह बन्दी, जिसे कांचनने गोपक चन्द्रभालके यहाँ बन्दी बनाया था, सिंहासनकी ओर दृष्टि फेरते ही बोला—‘कांचन ! कांचन ! ... !’

बन्दीने अपना वाक्य पूरा भी न किया था, उसे टोका चन्द्रभालने—
‘बन्दी महोदय ! कृपया सम्यतापूर्वक जिह्वा खोलिए । पता नहीं है कि आप किसके समक्ष बोल रहे हैं ? और उससे कैसे बातें की जायें ?’

मौन हो गया वह राजबन्दी और गंभीर भी । उसे कुछ ग्लानि हो गयी; क्योंकि उसने अपने बहुत बड़े अपमानका अनुभव किया था ।

कांचनमाला गंभीर थी; किन्तु उसकी दृष्टि उस राजबन्दीकी ओर नहीं टिक सकी । उसने अपना मुँह दूसरी ओर फेर लिया ।

‘गोपक चन्द्रभाल !’ कहा कांचनमालाने ।

हाथ जोड़े हुए खड़ा होकर सम्मान प्रदर्शित करते हुए गोपक चन्द्रभाल बोला—‘आज्ञा प्रतिनिधिश्रेष्ठ !’

‘बन्दी तक्षशिलाधीशके अपराधोंका विवरण उपस्थित करो और उनका प्रमाण भी दो । है तुम्हारे पास अपराधोंकी तालिका ?’

तक्षशिलाधीशकी मुखाकृति ग्लानि पड़ गयी और वह भयसे काँप उठा । गोपक चन्द्रभाल उठा और उसने तक्षशिलाधीशके अपराधों पर प्रकाश डाला और गंभीरतापूर्वक उसे पुष्ट भी किया ।

दूसरा बन्दी ध्यानसे सुन रहा था। ज्यों-ज्यों तक्षशिलाधीशके अपराधोंका कथन सप्रमाण गोपक चन्द्रभाल कर रहा था, उस समय कांचनमालाके नेत्र अरुण होते जा रहे थे। कांचनमालाका व्यक्तिस्व सैनिक वेशमें गंभीर होता जा रहा था। उसकी मुखाकृति पर तेज देदीप्यमान् हो रहा था। सारी सभा कभी गोपक चन्द्रभालकी ओर, कभी तक्षशिलाधीशकी ओर और कभी युवराज्ञी कांचनमालाकी ओर निहार रही थी। गोपक चन्द्रभाल तक्षशिलाधीशके अपराधोंका सारा विवरण उपस्थितकर मौन हो गया।

‘इस सम्बन्धमें तुम्हें कुछ कहना है तक्षशिलाधीश ?’ मौन रहकर भी उसने अपराध स्वीकार किया और पश्चात्ताप करता रहा।

‘गोपक चन्द्रभाल ! अपराधोंका अपराध अत्यन्त महान् है; अतः आज्ञाकी जाती है—उसका एक हाथ और एक पैर काट लिया जाय।’ कहा कांचनमालाने।

‘मुझे क्षमा कर दे देवि !’ अत्यन्त दीन वाणीमें बोला तक्षशिलाधीश।

‘और तसलौह शलाकाओं द्वारा एक आँख भी फोड़ दी जाय।’

घबरा गया तक्षशिलाधीश। उसने बड़ीही विनम्र वाणीमें कहा—
‘शरणागत हूँ देवि ! क्षमा करो !’

‘तथा एक कानमें अपराधोंके; तस धातु डाल दी जाय।’ उत्तेजनमें आकर कांचनने कहा। उसकी आकृति रोषमें भयंकर होती जा रही थी और ज्यों-ज्यों तक्षशिलाधीश अपराधोंके लिए क्षमा चाहता था, त्यों-त्यों कांचनके रोषमें आवेग उठता जा रहा था।

तक्षशिलाधीश मूर्च्छित हो गिर पड़ा।

‘जो आज्ञा प्रतिनिधिश्रेष्ठ !’ बोला चन्द्रभाल।

दूसरे राजबन्दीकी ओर संकेत किया कांचनमालाने और कहा—इनके अपराधोंके ऊपर प्रकाश डालो चन्द्रभाल !’

‘जो आज्ञा’ कहकर चन्द्रभाल उठ खड़ा हुआ। उसकी ओर देखकर चन्द्रभाल बोला—‘इनका; इनका अपराध ? इनका अपराध तो यही है— ये गुप्तरूपसे हमारी गुप्तसभामें प्रविष्ट हो गए थे।’

कांचनने सुना, उसकी दृष्टि नीचे हो गयी थी। वह बोली—‘गोपक-चन्द्रभाल !’

‘आज्ञा देवि !’

‘इन बन्दी महोदयका अपराध नहीं कह पाओगे। जानते हो ये कौन हैं ?’

‘नहीं देवि ?’ हाँ, पहले तो इनका परिचय जानना ही आवश्यक है।

‘इन्हें मंच पर उपस्थित करो।’

सैनिकोंसे घिरा हुआ वह बन्दी मंच पर उपस्थित किया गया।

कांचनमालाने दृष्टि नीचे करके कहा—‘उपस्थित सज्जनो ! आपकी जिज्ञासा बढ़ती होगी—यह जाननेके लिए कि बन्दी वेशमें मंच पर उपस्थित ये सज्जन कौन हैं ? इन्हें न पहचाननेके कारण ही गोपक चन्द्रभाल इनके अपराधों पर प्रकाश नहीं डाल पा रहे हैं।’

सत्रकी दृष्टि उस बन्दीकी ओर जा पड़ी। कांचनमालाने बिना उसकी ओर दृष्टि फेरे ही कहा—‘ये हैं प्रियदर्शी श्रीसम्राटदेव।’

चन्द्रभाल काँप गया उसे लगा—जैसे आकाशसे नीचे गिर पड़ा हो।

‘बोलो चन्द्रभाल ! इनके अपराधों पर भी विचार करना है।’

सम्राटदेव गंभीर थे, मौन थे, अपमानित थे और उनकी दृष्टि नीचेकी ओर थी। वे अपने ऊपर लगाए गए अभियोगकी व्याख्या सुनना चाहते थे। सारी जनता चिह्ला पड़ी—‘इनका अपराध और भी गुप्ततर है।’

चन्द्रभाल बोला—‘युवराजदेवके समक्ष तक्षशिलापीशके अपराधका जो निर्याय किया गया और उसके अपराधोंके अनुसार युवराजदेवने सम्राटदेवसे उसे दण्ड देनेके लिए जो निवेदन किया था, उस पर सम्राटदेवने कोई विचार नहीं किया और महीनों तक कोई उत्तर भी नहीं दिया।’

सम्राटदेव सुन रहे थे, उन्होंने मनमें सोचा—‘कुणालका मुझे आज तक कोई पत्र नहीं मिला। यह कैसी बात है ?’

गोपक चन्द्रभाल आगे कहता गया—‘और सम्राटदेवने लोकप्रिय पितृभक्त प्रजावत्सल युवराजदेव कुणालको ही दण्ड देनेके लिए तक्षशिला-धीशके पास राजाज्ञा भेज दिया।’

‘कैसी राजाज्ञा ? कुणालको दंड देनेके लिए ? यह सब कैसी बातें हैं।’ सोचने लगे थे सम्राटदेव और रह-रहकर वे चर्कित भी होते जा रहे थे।

चन्द्रभालने पुनः कहा—सबसे बड़ी निर्दयताकी बात तो यह है कि सम्राटने न्यायप्रिय योग्य पुत्रको, जो सबको प्राणकी भाँति प्रिय होता है, वह दण्ड व्यवस्था करदी; जो कभी न तो सुनी गयी और न भविष्यमें ही सुने जानेकी सम्भावना है। जिस विद्रोहको सम्राट अपारगणशाहिनीकी बिना सहायता नहीं देवा सकते थे, उसे क्षणमात्रमें युवराजदेवने प्रजाके साथ अपनी आत्मीयता दिखाकर ही शान्त कर दिया, युवराजदेवके इस कार्यसे जनताके हृदयमें उनके प्रति बड़ी श्रद्धा हुई और साम्राज्यका भी बड़ा हित हुआ; किन्तु यह सब कुछ हो चुकनेके पश्चात् युवराजदेवको सम्राटने ‘राजभक्त कर्मचारियोंके उनके द्वारा अपमानका अपराध और विद्रोहियोंके साथ सहानुभूतिका अपराध घोषित कर उनके दोनों नेत्र लौहतप्त शलाकाओंसे फोड़कर राज्यसे निर्वासित कर भिक्षु हो जानेके लिए आदेश भेज दिया। हम प्रजाजन ऐसे सम्राटका ऐसे पिताका मुख नहीं देखना चाहते।’

‘यह क्या ?’ धवराहटके साथ बोल उठे सम्राटदेव।

‘युवराजदेवने आपकी आज्ञा पालनके लिए स्वयं ही अपनी दाँनों आँखें लौह तप्त शलाकाओंसे फोड़ डालीं और अन्धे होकर भिक्षु वेशमें वे पर्यटनके लिए चले गए। हम सब लोगोंने बड़ा ही यत्न किया, किन्तु पितृ-भक्त युवराजदेवने एक भी न सुना, वे आपकी ही आज्ञा पालनमें तत्पर रहे।’ कहा चन्द्रभालने।

‘यह कैसा आदेश ?’ कैसा अपराध ? हमें इस सम्बन्धमें कुछ भी जानकारी नहीं है, ठीक-ठीक कहो चन्द्रभाल ! सुनना चाहता हूँ यह सब । क्या कह रहे हो ?’

‘हाँ सम्राटदेव; यह जो कुछ भी कह रहा हूँ, इसे सत्य मानिए । मैंने स्वयं राजाज्ञा देखी थी, आपकी मुद्रिकाकी उस पर छाप अंकित थी ।’

यह सब सुनते ही मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर वहीं गिर पड़े सम्राटदेव । सब लोगोंने उन्हें गिरते हुए देखा । चन्द्रभाल उनके समीप पहुँचा उन्हें सँभालनेके लिए । सब लोग चकित थे ।

सम्राटदेवके घोर मानसिक आघातके प्रभावको सब लोग देख रहे थे । कुछ लोग सोच रहे थे—इसका क्या रहस्य है । समझमें नहीं आ रहा है ?’

चन्द्रभालकी बातें सत्य मानकर सम्राटदेवके हृदयमें वाष्पिका स्फुरण नहीं हुआ । शोकके प्रबल वेगने उनकी चेतना लुप्त कर दी । थोड़ी देरमें सम्राट एक बार चिल्ला पड़े—‘हाय ! यह सब क्या हुआ ? कैसे हुआ ? मैंने कोई आज्ञा नहीं भेजी, कुषालका कोई पत्र नहीं पाया था । मैं तो एक महीने पूर्व मृत्युशय्या पर पड़ा था । शासनका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व, राजाज्ञा सब कुछ तो तिष्यरक्षिता पर ही निर्भर था !’ कहते हुए सम्राटकी दशा पागलों जैसी हो गयी । मानसिक संतुलन खो बैठे सम्राट ।

सारी सभा मौन थी, चकित थी । स्तम्भित था चन्द्रभाल और दृष्टि नीचे कर विचारमग्न थी कांचनमाला ।

थोड़ी देरमें सभाकी सारी कार्यवाही समाप्त सी हो गयी । जनता अब भी वहाँ स्थित थी ।

‘चन्द्रभाल ?’ व्यथित होकर कहा सम्राटदेवने ।

‘आज्ञा सम्राटदेव !’ सम्राटदेवके निकट ही बैठे हुए बोला चन्द्रभाल ।

‘वह पत्र दिखाओ जिसमें वह राजाज्ञा भेजी गयी थी ।’

चन्द्रभालने सम्राटके समक्ष वह पत्र उपस्थित किया । काँपते हुए हाथोंसे

लिया उसे सम्राटने। उसे उन्होंने देखा और कहा यह तिष्यरक्षिताकी ही हस्तलिपि है। ओ दुष्ट हृदये ! तुमने यह राजाज्ञा प्रेषित करदी ? इसका परिणाम कुछ भी नहीं सोचा ? चन्द्रभाल मैं मैं अभी क्षमा चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दो। उतने समयके लिए जब तक मैं पाटलिपुत्र जाकर उस पापात्माको दंड न दे लूँ और जब तक फिर दण्ड भोगनेके लिए वापस गन आ जाऊँ। मैं अवश्य आऊँगा और दण्ड भोगनेके लिए तत्पर भी हूँ। मैं जीवित नहीं रहना चाहता और जीकर कलूँगा ही क्या ? किन्तु मुझे संतुष्ट हो लेने दो चन्द्रभाल ! आओ बेटी; कांचन आओ तुम्हारा सब कुछ लुट गया; क्या कलूँ कैसे तुम्हें शान्त्वना दूँ; समझमें नहीं आ रहा है, आओ !' सम्राट विलाप कर रहे थे, उनका कण्ठ शुष्क हो चला था। आँखोंमें आँसू न थे, जैसे वे काठमार गए हो।

कांचनके नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा प्रवाहित हो चली थी। वह सम्राटदेवके निकट आगयी थी और मौन थी। उसके सर पर हाथ फेरने लगे सम्राटदेव।

सम्राटदेव विलिप्तकी भाँति बोले—'बेटी ! अवश्य मैं दण्ड भोगना चाहता हूँ और इसीलिए जीवित रहना चाहता हूँ। स्वयं अपने ही हाथों कुणालने आँखें फोड़ लीं ? हाय ! कितनी असह्य वेदना हुई होगी उसे। फिर मूर्च्छित हो गए सम्राटदेव।

'चन्द्रभाल ! कांचन ! कुणाल कहाँ चला गया। बताओ मैं पहले वहीं चलना चाहता हूँ।' कहा सम्राटदेवने।

चन्द्रभाल बोला—श्रीसम्राटदेव जब युवराजने अपनी आँखें फोड़ लीं और विरक्त होकर दोनों हाथोंसे टटोलते-टटोलते वे चले तो ठोकर खाकर गिर पड़े। उनकी यह दशा किसीसे सही न गयी। वे पुनः उठ खड़े हुए और आगे बढ़े। उनकी अत्यन्त दुर्दशा देखकर मुझसे रहा न गया और मैं उन्हें रथ पर बैठाकर चिकित्साके लिए उज्जैन पहुँचा आया। संभवतः वे वहाँ होंगे।

‘चन्द्रभाल !’

‘आज्ञा देव !’

‘मैं इस प्रान्तका तुम्हें श्रेष्ठ प्रतिनिधि चुनता हूँ। कांचनमाला सम्प्रतिके सहित हमारे साथ पाटलिपुत्र जायगी। यहाँके शासनभारका उत्तरदायित्व तुम पर रहेगा।’

‘देव ! मैं पाटलिपुत्र तभी जा सकती हूँ; जब अपराधिनी तिष्यरक्षिताके अपराधका मुझे हा अधिकार हो न्याय करनेका। मेरे पतिदेवकी जो दशा हुई है, उसे मैंने स्वयं अपनी ही आँखोंसे देखा है, अतः जब तक मैं उसका बदला न चुका लूँगी, मुझे शान्ति नहीं मिल सकती।’ कांचन बोली।

‘इसे स्वीकार करता हूँ बेटी ! मैं स्वयं उसे दण्ड देना चाहता था किन्तु ठीक है तुम्हारे ही द्वारा उसका न्याय होगा।’

‘हाँ चन्द्रभाल !’

‘आज्ञादेव !’

‘तक्षशिलाधीशको जो दण्ड दिया गया है वह अभी पूर्ण नहीं है। अभी उसके कुछ अपराधों पर विचार नहीं हुआ है और अभी न जाने कितने अपराध उसके और प्रमाणित होंगे। उसने मुझे पत्र लिखा था— ‘युवराज स्वेच्छासे भिन्न होकर चले गए हैं !’

‘अवश्य साम्राज्ञी तिष्यरक्षिताके साथ मिलकर इसने कोई महान् षडयंत्र रचा होगा।’ चन्द्रभाल बोला।

‘मेरे यहाँसे प्रस्थान होनेका शीघ्र ही प्रबन्ध करो चन्द्रभाल !’

‘कब तक आसमूटदेव यहाँसे प्रस्थान करेंगे ?’

‘दूसरे दिन प्रातःकाल।’

‘ठीक है। प्रथम मैं युवराजदेवसे आपकी भेंट करा देना चाहता हूँ।’

‘ठीक है। जाओ शीघ्र प्रबन्ध करो।’

जनता घर लौट गयी।

उस दिन भावावेशमें युवराज कुणाल आकर तप्त लौहशलाकाओंसे अपनी आँखें फोड़कर असह्य वेदना चुपचाप सह रहे थे। उनकी महान् दुर्दशा देखकर चिकित्सक बड़ा दुःखी हुआ। वह कभी युवराजदेवके, सम्प्रति और कांचनमालाके साथ मिलनका स्मरण करता—जब श्रौषधालयके निरीक्षणके लिए वे वहाँ गए थे, कभी प्रियदर्शी सम्राट् शशोक-वर्द्धनके निष्ठुर हृदयके सम्बन्धमें—युवराजदेवके प्रति किए गए अत्यन्त कठोर राजाज्ञाके सम्बन्धमें विचार करता और दुःखी हो सोचता—भला सम्राटने इतना कठोर दण्ड अपने योग्य पुत्रको कैसे दे डाला ? ऐसा कौन-सा अपराध युवराजने किया था ? जिस कारण सम्राटके हृदयमें पुत्र-वत्सलता नाममात्रके लिए भी न उभर पायी ?

लोग दुःखी थे। युवराजको देखनेके लिए प्रतिदिन अधिकसे अधिक संख्यामें जनता आने लगी। सभी कुछ भी न कहकर पश्चात्ताप करते और अपनी सहानुभूति प्रकट कर लौट जाते। उनके द्वारा युवराजके सम्बन्धमें इस घटनाका समाचार पाकर अन्य लोग भी देखने आते और उन्हें देखकर दुःखी हो जाते।

युवराज गम्भीर थे। वे यही प्रयत्न करते कि मुझसे न तो कोई मिलने आवे और न तो मेरे सम्बन्धकी किसी घटनाका प्रचार ही हो। वे शान्ति चाहते थे, इसीलिए उन्हें एकान्तकी आवश्यकता थी। जनताके आगमनसे जो उन्हें देखने आती थी, कष्ट होता था, संकोच होता था। सबसे बड़े कष्टकी बात तो यह थी कि अत्यन्त सहानुभूति रखनेवाली जनता जो उन्हें देखने आती थी, उनसे युवराज कहनेके लिए कुछ सोच नहीं पाते थे; क्योंकि कुछ कहनेमें संकोच हो रहा था और कुछ भी न कहनेसे आगन्तुकोंको कैसे सन्तुष्ट किया जाता। विविध दशा थी युवराज-कुणालके हृदय की !

युवराजके हृदयमें वैराग्यकी लहरें तरंगित हो रही थीं; किन्तु जब उन्हें अपने पुत्र सम्प्रतिकी मुद्राका ध्यान आता—जब उनकी आँखोंने उसकी अत्यन्त भोली आकृतिको देखा था, जिसपर कुछ करुणाकी छाप अंकित थी—तब वे धैर्य छोड़ देते, विचलित हो जाते और हृदयमें ही रो पड़ते। उन्हें सम्प्रतिकी वही करुणापूर्ण आकृति बार-बार स्मरण होती, जिसे किसी भी दशा में वे न भूल पाते। और काँचनमाला ? उसकी भी याद उन्हें हो जाती थी। युवराजके सम्बन्धमें उस समय यह कहना कठिन होता था कि वे गम्भीर मुद्रामें थे, अथवा उनका मानसिक सन्तुलन खराब हो गया था।

यह सब कुछ होने पर भी युवराज अपनी न्यायपरायणतापर लज्जित थे, जिस कारण उनके पिताने, जो दूसरोंके लिए उदार थे, पशु-पक्षियोंसे भी सहानुभूति रखते थे और घोर अहिंसाके पुजारी थे, उन्हें अत्यन्त कठोर राज्याज्ञासे जीवन भरके लिए विपदमें डाल दिया था ! राजकीय चिकित्सालयसे वे शीघ्र हट जाना चाहते थे, जिससे उन्हें कोई भी परिचित व्यक्ति देख न सके। उन्हें अपने ऊपर ही ग्लानि थी और पिताकी आज्ञा उनकी दृष्टिमें निर्दोष थी। अतः अपराधी होकर वे किसीको मुँह दिखाना न चाहते थे। महान् भावुक थे युवराज कुणाल ! उनके हृदयमें भावुकताका प्रबल वेग था !

राज्यचिकित्सक बड़ी तत्परतासे चिकित्सा कर रहा था। पूर्ण सहानुभूति थी उसकी। युवराज उसके व्यवहार और आचरणसे आत्मीयताका अनुभव करने लगे थे।

एक दिन युवराजने पूछा—‘वैद्यप्रवर !’

‘आज्ञा युवराजदेव !’

‘युवराजदेव न कहें भद्र ! अब भिल्लु कुणाल कहें। अभी कितने दिनों तक मौर्यसाम्राज्यकी सीमामें मुझे रुकना होगा ?’ वाणीमें निर्वेद था त्याग और करुणाका भी प्रभाव था।

रो पड़ा मौन होकर ही राज्यचिकित्सक—युवराजकी दीनता पर।
असह्य-वेदना हुई उसे।

‘बोलो भद्र ! बोलते क्यों नहीं !’

राज्य चिकित्सककी हिचकियाँ बँध गयी थीं, जिससे उसकी मानसिक
दशाका पता युवराज पा गए थे। युवराज बोले—‘भद्र ! मैं यथाशीघ्र
मौर्यसाम्राज्यकी सीमा पार कर जाना चाहता हूँ। अतः अभी कब तक
मुझे यहाँ रोकोगे ?’

गला साफकर चिकित्सक बोला—‘देव ! जब तक आपकी आँखें
ठीक न हो जायँगी, मैं आपको कहीं जाने न दूँगा। हाँ, यदि आप चलना
ही चाहते हैं तो चल सकते हैं; किन्तु मैं आपके साथ रहूँगा। आपके
साथ रहकर मैं चिकित्सा करता रहूँगा—जब तक आप अच्छे न हो
जायँगे। मैं भी मौर्यसाम्राज्यसे घृणा करने लग गया हूँ देव ! मैं आपकी
शरण चाहता हूँ। मुझे राज्याश्रयकी आवश्यकता नहीं है। मुझसे आपका
कष्ट सहा नहीं जा रहा है; इस प्रकार मुझे साथ लेकर अब कभी भी आप
चलना चाहें, चल सकते हैं।’

‘भद्र ! जैसा आप कहते हैं, क्या आज ही चल सकता हूँ।’

‘हाँ, हाँ देव ! चल सकते हैं। औषधि आपकी आँखोंके लिए जो
यहाँ मिल रही है, वह अन्यत्र भी मिलेगी।’

किन्तु भद्र ! इस प्रकार राज्याश्रयका परित्याग कर देनेसे आपके परि-
वारका पोषण कैसे होगा ? अब मेरे पास भी तो कुछ नहीं है ?’

‘मेरा परिवार कहें, आत्मीय कहें, या जिसके प्रति ममता हो सकती
है, वह सब कुछ देव आप स्वयं ही हैं। मैं आपके साथ ही रहकर अपनेको
कृतकृत्य समझूँगा और मेरी सब कुछ अभिलाषा पूरी हो जायगी। यह
यदि आपको स्वीकार है, तब जब चाहें मौर्यसाम्राज्यकी सीमाका परित्याग
कर सकते हैं।’

‘भद्र ! सोच लो। भावावेशमें राज्याश्रय त्यागकर भविष्यमें दुःखी

न हो जायें; क्योंकि मेरे साथ रहनेसे आपका कोई लाभ नहीं है। रही त्यागकी बात; इसके लिए भी साधनाकी आवश्यकता है; सहसा त्याग हानिकारक होता है और हो भी नहीं सकता भद्र !'

'इसकी चिन्ता न करें देव ! केवल आज्ञा दें, मेरा इसीमें बड़ा लाभ है। आपके साथ रहकर सेवा करनेमें मुझे जो लाभ दिखाई पड़ रहा है; वह परम लाभ है।

'ठीक है; कल प्रातःकाल मैं चल्ऊँगा; तैयारी कर लें।'

चिकित्सालयका सारा भार दूसरे चिकित्सक पर छोड़कर युवराज कुणालके साथ दूसरे दिन प्रातःकाल वह वैद्य मौर्यसाम्राज्यकी सीमा पार करनेके उद्देश्यसे चल पड़ा। आगे-आगे वह युवराजदेवका हाथ थामकर चल रहा था, मौन होकर उसके पीछे-पीछे युवराज चले जा रहे थे।

वहाँसे चलकर वे दोनों व्यक्ति कुस्तान पहुँचे। कुस्तानमें बौद्ध-महासभाका आयोजन किया गया था; जिसमें दूर-दूरके बौद्ध विद्वान् एवं भिक्षुप्रवर पधारे थे। अपार जन-समूहमें बौद्ध विद्वानोंके भाषण हो रहे थे। जनता मंत्रमुग्ध होकर विद्वानोंके भाषण सुन रही थी। बौद्ध महा-सभाके आयोजनका पता पाकर वैद्यके साथ कुणाल भी जा पहुँचे।

एकके पश्चात् दूसरे विद्वान्को भाषण जनता सुनती रही, किन्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषण था—कुक्कुटाराम विहारके संघस्थविर महात्मा यशका। कुणालको महात्मा यशका भाषण जब सबसे अधिक प्रिय लगा, तब वैद्यजीसे उन्होंने उनके निकट चलनेका आग्रह किया। वैद्यजी बोले—'देव ! अभी सभाका कार्यक्रम चल रहा है, समाप्त हो जाने पर उनके पास पहुँचा दूँगा।'

सभाका कार्यक्रम समाप्त हो गया, वक्ता एवं श्रोता अपने-अपने स्थानको चले गए। इधर वैद्यजी कुणालको साथ लेकर महात्मा यशके निकट गए। महात्मा यशको इन लोगोंने साष्टांग प्रणाम किया और कुणालने पूछा—'क्या मुझे आप अपनी शरणमें स्थान देंगे महात्मन् ?

मैं आपकी विद्वता एवं व्यक्तित्वसे प्रभावित हूँ ।’

महात्मा यश कुण्डालको बार-बार निहार रहे थे; उन्होंने पूछा—
‘श्रीमान् क्या अपना परिचय दे सकते हैं ? मुझे आपकी आकृतिसे कुछ
भ्रम हो रहा है, मैंने कहीं आपको देखा है ! स्मरण नहीं हो रहा है, यों
तो आपकी आकृति युवराज कुण्डालकी मुखाकृतिसे बहुत मिलती-जुलती
है, किन्तु यदि अन्तर है तो यही कि उनके दोनों नेत्र हैं और आपके
दोनों नेत्र खराब हैं । सुनने में आया था कि युवराज कुण्डाल भित्तु होकर
पर्यटन करने चले गए हैं; किन्तु वे अन्धे नहीं थे । क्या मेरा भ्रम-निवारण
करनेकी कृपा करेंगे श्रीमान् !’

‘देव ! युवराज न कहें, भित्तु कहें । मैं वही कुण्डाल आपके समक्ष
उपस्थित हूँ, जिसके संबन्धमें आप बोल रहे हैं ।’

चकित थे, महात्मा यश । थोड़ी देरमें बोले—‘प्रियवर ! यह तुम्हारी
दशा कैसे हो गयी ? सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी वह कथा जिस कारण
तुम इस दशाको प्राप्त हो गए ।’ कहकर महात्मा यशने कुण्डालको हृदय-
से लगा लिया ।

‘इस संबन्धमें विचारकर कोई लाभ नहीं प्रतीत होता देव ! यों
तो आप मेरे गुरुजन हैं, आपसे मैं कोई भी बात छिपा नहीं सकता !’

‘ठीक है भद्र ! तुम्हारी इस दुर्दशासे मैं विचलित हो गया हूँ, अतः
इस सम्बन्धकी जिज्ञासा मेरे हृदयमें प्रबल होती जा रही है, इसे शान्त
करो प्रिय कुण्डाल !’ महात्मा यश बोले ।

‘जो आज्ञा देव !’ कहकर सारी कथा कुण्डालने महात्मा यशको
सुना दी ।

मौन होकर महात्मा यश सारी कथा सुनते रहे और अन्तमें बोले—
‘कुण्डाल ! तुमने अनर्थ कर दिया; हमें यह विश्वास नहीं हो रहा है ।
प्रियदर्शी सम्राटदेवने कदापि यह आज्ञापत्र नहीं भेजा होगा; अवश्य ही

यह आज्ञापत्र किसी षडयंत्रका प्रतीक है। तुम्हें अवश्य ही इसका पता लगा लेना था।’

‘इस पर विचार करना निरर्थक है देव !’ कुणाल बोले।

‘मेरी इच्छा है वरस ! सम्राटदेवके समक्ष इसकी जाँच होगी और न्याय भी करानेकी प्रेरणा दी जायगी।’ महात्मा यश बोले।

‘किन्तु देव ! मौर्यसाम्राज्यकी सीमाके अन्दर न रहनेका उस आज्ञापत्रमें आदेश है।’

‘वरस ! धर्माचार्य और भिक्षु सर्वत्र भ्रमण कर सकते हैं, न्यायाज्ञाके उल्लंघनका समर्थन धर्मप्रचारके लिए परिस्थिति विशेषमें सम्राटदेव करते आये हैं; यह नहीं भूलना है, अतः हम लोग पाटलिपुत्र शीघ्र चलेंगे।’ दृढ़तापूर्वक बोले महात्मा यश।

दूसरे दिन प्रातःकाल महात्मा यश कुणाल और वैद्यप्रवरको जो कुणालकी आँखोंके चिकित्सक थे, साथ लेकर कुस्तानसे कुक्कुटाराम विहारके लिए चल पड़े।

कुक्कुटाराम विहार पहुँचकर महात्मा यशने अपने एक शिष्यको आदेश दिया कि—‘पाटलिपुत्र जाकर श्रीसम्राटदेवसे अवकाश निकालकर आनेका निवेदन करो और कहो कि महात्मा यशने आपको याद किया है।’

‘किन्तु देव ! श्रीसम्राटदेव तो तक्षशिला पधारे हैं, शायद वहाँ इस बार बड़ा प्रबल विद्रोह उठ खड़ा हुआ है, इसीलिए श्रीसम्राटदेव किसी और को न भेजकर स्वयं चले गए हैं।’ शिष्यने सम्मान प्रदर्शित करते हुए महात्मा यशसे निवेदन किया।

युवराज कुणालका हृदय काँप गया—गोपक चन्द्रभाल और कांचनमालाका क्रान्तिकारी अभिप्राय समझकर। कुणालने सोचा—अवश्य ही ये लोग मौर्यसाम्राज्यकी शक्तिसे नष्ट हो जायेंगे।

‘अच्छा यदि सम्राटदेव नहीं हैं, तो आमार्यश्रेष्ठको ही बुला लाओ।’

कुछ सोचकर महात्मा यशने कहा ।

मस्तक नवाकर वह शिष्य बाहर चला गया ।

कुण्डाल बोले—‘किन्तु देव ! मुझे न्यायकी अब आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती है । मैं पुनः माया-ममताके आवर्त्तमें नहीं पड़ना चाहता ; अतः न्याय कराकर क्या करूँगा ?’

‘ठीक कहते हो प्रियवर ! किन्तु उस षडयंत्रका उद्घाटन न्यायकी दृष्टिसे आवश्यक है ।’ महात्मा यश बोले !

‘किन्तु देव न्याय और अन्यायके अन्तस्तलमें पैठकर विचार करना राजपुरुषोंका कार्य है, हम भिक्षुओंसे उसका क्या प्रयोजन !’

‘यह धर्मका भी विषय है भद्र ! अन्यायसे अधर्मका और न्यायसे धर्मका पोषण जो होता है । राजनीतिसे नहीं, किन्तु धर्मसे हम लोगोंको अवश्य ही न्यायका समर्थन करना चाहिए ।’

‘यदि आपकी प्रभावशाली वाणीका प्रभाव श्रीसम्राटदेव पर हुआ और वे मुझे अपने साथ लिवा जानेका प्रयत्न करने लगेंगे तो क्या होगा ?’

‘यदि तुम्हारे हृदयमें वैराग्यकी भावना प्रबल होगी, तो उनका प्रयत्न विफल हो जायगा वत्स !’



प्रियदर्शी सम्राट अशोकवर्द्धनके तक्षशिला चले जाने पर शासनकी बागडोर पुनः राजमहिषी तिष्यरक्षिताके ही हाथोंमें आ गई थी । यद्यपि वह नहीं चाहती थी कि सम्राटदेव तक्षशिला चले जायें; क्योंकि उसे भय था—कहीं उसके सभी षडयंत्रोंका पता उन्हें न चल जाय ।

महात्मा यशका संदेशपायक एक शीघ्रगामी रथ पर चढ़कर पाटलि-
पुत्र राज्यप्रासाद आ पहुँचा । उसने प्रतिहारीसे कहा—‘मैं आमात्यश्रेष्ठसे
मिलना चाहता हूँ ।’

‘आपका परिचय भद्र !’ प्रतिहारी बोला ।

‘मैं कुक्कुटाराम बिहारके संघस्थविर महात्मा यशका सन्देश लेकर
आया हूँ, जाकर निवेदन करो ।’

बुद्ध आमात्यश्रेष्ठ कार्यव्यस्त थे । प्रतिहारीने पहुँचर सम्मान प्रदर्शित
किया और निवेदन किया ‘आपसे मिलने महात्मा यशका सन्देशपायक
प्रमुख द्वार पर उपस्थित है श्रीमान् !’

‘उपस्थित करो ।’ आमात्यश्रेष्ठ बोले ।

प्रतिहारी भिन्नुकी साथ लेकर आमात्यश्रेष्ठके समक्ष पहुँचा । भिन्नुने
‘ओ नमो बुद्धाय’ कहकर अभिवादन किया आमात्यश्रेष्ठको ।

‘आपको महात्मा यशने भेजा है ?’ पूछा आमात्यश्रेष्ठने ।

‘जी हाँ श्रीमान् ! वे तत्काल आपका साक्षात्कार करनेके उद्देश्यसे
स्मरण किए हैं ।’

कुछ आश्चर्य व्यक्त करते हुए आमात्यश्रेष्ठने भिन्नुकी ओर दृष्टिपात
किया और थोड़ा रुककर बोले—‘धर्माचार्य महात्मा यश प्रसन्न तो हैं ?’

‘हाँ देव ! वे प्रसन्न हैं ।’

‘कोई विशेष बात तो नहीं है ? मुझे कैसे स्मरण किया है उन्होंने ?’

‘यह तो मुझे नहीं विदित है श्रीमान् !’

‘अच्छा ! परिचारक !’ पुकारा आमात्यश्रेष्ठने ।

‘आज्ञा देव !’ कहते हुए झुककर परिचारकने अभिवादन किया ।

‘मुझे कुक्कुटाराम बिहार जाना है, रथ शीघ्र तैयार करो ।’

मस्तक नवाकर सम्मान प्रदर्शित करते हुए परिचारक बोला—

‘जी आज्ञा श्रीमान् !’

आमात्यश्रेष्ठ एक तीव्रगामी रथपर आरूढ़ हुए और संघकी ओर

चल पड़े। उनके पीछे महात्मा यशके संदेशपायकका भी रथ चल पड़ा।

इधर युवराज कुशालके कुक्कुटाराम बिहारमें आ जानेका और उनके अन्धे हो जानेका सारे राजनगर पाटलिपुत्रमें समाचार फैल गया। अपने व्यक्तिगत गुप्तचरों द्वारा कुशालके आगमनका संवाद पाकर राजमहिषी तिष्यरक्षिता काँप गयी। उसके आश्चर्यकी सीमा न थी। क्या करे वह ! अब क्या होगा ? उसे कुछ सुझायी न पड़ रहा था। वह विचार और चिन्ताके उद्वेलित सागरमें डूबने लगी। ठीक उसी समय रुद्रसेन आ पहुँचा। पूछा उसने—‘क्या आ सकता हूँ राजमहिषी !’

‘कौन रुद्रसेन ?’ पूछा तिष्यरक्षिताने।

‘जी हाँ राजमहिषी ! मैं ही हूँ।’

‘आओ रुद्रसेन ! तुम्हारी प्रतिज्ञामें ही मैं बैठी थी।’

रुद्रसेनने आकर तिष्यरक्षिताको अभिवादन किया। रुद्रसेनके भीतर प्रविष्ट हो जानेपर प्रकोष्ठका दरवाजा स्वयं राजमहिषीने बन्द कर लिया।

रुद्रसेन बोला—‘आप चिन्ताग्रस्त-सी दिखाई पड़ रही हैं देवि !’

‘तुम्हारा अनुमान ठीक है रुद्रसेन !’

‘मैं आपसे कुछ विशेष बातें निवेदन करने उपस्थित हुआ हूँ।’

‘कहो रुद्रसेन !’

‘यही कि कुशाल कुस्तानसे महात्मा यशके साथ आ गए हैं और अन्धे होकर भिन्न हो जानेका समाचार सारे राजनगरमें फैल गया है। मुझे यह भी पता चला है कि महात्मा यशने आम्रात्यश्रेष्ठको इस सम्बन्ध में वात्सी करनेके लिए दूत भेजकर बुलाया है।’

‘आम्रात्यश्रेष्ठको बुलाया है ? चकित होकर पूछा राजमहिषीने।

‘हाँ देवि !’

‘तब क्या करोगे रुद्रसेन ?’ भयात्त होकर बोली तिष्यरक्षिता।

‘निश्चय ही सब षडयन्त्र सम्राटदेवको विदित हो जायगा।’ रुद्रसेन बोला।

‘तब तो निश्चय ही प्राण बचाना दुष्कर है।’ घबराहटके स्वरमें बोली राजमहिषी तिष्यरक्षिता।

थोड़ी देर मौन होकर तिष्यरक्षिता पुनः बोली—‘कोई उपाय सोचे हो रुद्रसेन !’

‘और तो नहीं एक उपाय है राजमहिषी !’

तिष्यरक्षिता आशान्वित हुई। उसका चित्त कुछ हल्का हुआ; बड़ी उरसुकतासे पूछा उसने—‘बोलो; क्या सोचा है तुमने ? निवेदन करो।’

‘यही कि कुणाल सम्राटदेवके समक्ष न उपस्थित होने पावें।’

‘यह तो असम्भव है, क्योंकि न तो सम्राटदेवको मना किया जा सकता है और न कुणालको ही।’

‘मना करके उन्हें कैसे रोका जा सकता है राजमहिषी ! उन्हें रोका जा सकता है अन्य उपायसे।’

‘वह क्या ?’

‘कुणालकी हत्या करके।’

‘रुद्रसेन और तिष्यरक्षिताको यह कार्य सरल जान पड़ा। मनुष्य एक पापको छिपानेके लिए दूसरा पाप करता है और दूसरे पापको छिपानेके लिए तीसरा। इसी प्रकार वह पाप-कर्ममें प्रवृत्त होता चला जाता है और सारे जीवनमें उसका आचरण निकृष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे यही सरल जान पड़ता है।

‘ठीक है’; बोली तिष्यरक्षिता—‘अन्धे होकर उन्हें कष्ट होता होगा और मृत्यु ही जाने पर जीवनसे छुटकारा पा जायेंगे। हमारा भी भला होगा। किन्तु यह कार्य होगा कैसे ?’

‘सब ठीक हो जायगा समय पर आपको सूचना दूँगा। इस समय तो मैं आपसे परामर्शके लिए उपस्थित हुआ हूँ। अब आज्ञा दें, मैं जा रहा हूँ।’ बोला रुद्रसेन और राजमहिषीको अभिवादन कर बाहर चला गया।

+

+

+

+

कुक्कुटाराम बिहार पहुँचकर आमात्यश्रेष्ठने महात्मा यशका चरण स्पर्श किया ।

महात्मा यश बोले—‘आमात्यश्रेष्ठ ! आपको महान् कष्ट दिया है, क्षमा करेंगे ।’

‘यह तो मैं आपकी महती कृपा समझता हूँ; हाँ, यहाँ आपके दर्शनोंकी इच्छा बहुत दिनोंसे थी, किन्तु कार्योंकी अधिकतासे नहीं आ पा रहा था ।’

‘आप इसी तरह नहीं ही आ पाते हैं; इसीलिए तो मैंने आपको बुलावाया है ।’ महात्मायश मुस्कुराते हुए कह पड़े ।

‘महाप्रभु ! मैं इसलिए आपकी श्रोत्रसे निश्चिन्त था कि आवश्यकता पड़ने पर तो मुझे आप बुला ही लेंगे ।’

‘क्या आवश्यकता पड़ने पर और बुलाए जाने पर ही आपको आना चाहिए आमात्यश्रेष्ठ !’

‘नहीं, नहीं देव ! यह कदापि न समझें ।’

‘अच्छा यह तो बताइए कि सम्राटदेव तक्षशिला गए हैं ?’

‘हाँ महात्मन् ! वहाँ पुनः विद्रोह खड़ा हो गया है ।’

‘क्या आपको अवगत है कि वहाँ पुनः विद्रोहाग्नि क्यों भभक उठी है ?’

‘नहीं प्रभो ! हाँ उस बार विद्रोहका दमन युवराज कुण्डाल बड़ी सरलतासे दबा दिए थे; किन्तु उनके स्वेच्छासे बौद्ध भिक्षु होकर हटते ही विद्रोह पुनः उठ खड़ा हुआ । अपने पथमें इतना ही तक्षशिलाधीशने लिखा था । यह समाचार पाते ही सम्राटदेव अत्यन्त दुःखी हो उठे और वे तक्षशिला इसका पता लगाने स्वयं चले गए ।’

‘क्या युवराजके बौद्ध भिक्षु होकर देशाटकके लिए चले जानेका कारण आपको विदित है आमात्यश्रेष्ठ !’

‘नहीं देव !’ कुछ चकित होकर आमात्यने कहा ।

‘युवराज स्वेच्छासे बौद्ध भिक्षु नहीं हुए हैं ।’

‘आप बता सकते हैं प्रभु इस संबन्धमें ! क्या कारण है युवराजके बौद्ध भिक्षु होनेका ?’

‘हाँ; मुनिए युवराजको सम्राटदेवकी ओरसे आज्ञा दी गयी थी कि उन्हें आँखोंसे अन्धा और भिक्षु बनाकर मौर्यसाम्राज्यसे बाहर निकाल दिया जाय ।’

आश्चर्यचकित होकर बोले आम्रात्यश्रेष्ठ—‘किसके पास ऐसी आज्ञा भेजी गयी थी महाप्रभु !’

‘तक्षशिलाघोशके पास ।’ महात्मा यश बोले ।

‘ऐसा कदापि नहीं हो सकता देव ! ऐसी कोई आज्ञा किसीके पास नहीं भेजी गयी थी; आप ही सोचें, भला सम्राटदेव ऐसी आज्ञा तिसपर युवराज कुशालके लिए भेज सकते हैं ? हो नहीं सकता; सर्वथा असंभव है यह ।’

‘किन्तु यह मैं प्रामाणिक बात कह रहा हूँ आम्रात्यश्रेष्ठ !’

‘यदि ऐसी कोई आज्ञा यहाँसे प्रेषितकी गयी होती तो अवश्य मुझे विदित होता ।’

‘अवश्य यह आप सबकी असावधानीका परिणाम है आम्रात्यश्रेष्ठ ! आपको पता नहीं है इस राज्याज्ञामें अवश्य ही कोई षडयन्त्र है ।’

‘षडयन्त्र !’ कहते हुए आश्चर्य व्यक्त किया आम्रात्यश्रेष्ठने ।

‘हाँ, षडयन्त्र !’ महात्मा यशने दुहराया ।

‘हो सकता है महात्मन् ! सम्राटदेव जब बहुत ही अस्वस्थ हो उठे थे, उस समय शासनकी बागडोर तिष्यरक्षिताके हाथोंमें थी, अतः संभव है, इस षडयन्त्रका सूत्रधार राजमहिषी तिष्यरक्षिता ही रही हों ।’

‘बस, बस ! उस नारीने युवराजका जीवन नष्ट कर दिया । उस षडयन्त्रको युवराजने पिताकी आज्ञा समझकर स्वयं दोनों नेत्र अपने ही हाथोंसे फोड़ भिक्षु वैष धारण कर लिया ।’

‘क्या सचमुच युवराजने अपने नेत्र नष्ट कर लिए महाप्रभु !’

‘हाँ आमात्यश्रेष्ठ ! आप उन्हें देखकर दुःखी हो उठेंगे ।’

‘इस समय युवराजदेव कहाँ है; क्या आपको कुछ पता है ?’

‘आप उनसे मिलना चाहते हैं ?’

‘इसीलिए तो पूछ रहा हूँ देव ! मैं उन्हें देखनेके लिए व्याकुल हूँ ।’

‘अच्छा बैठिए, उन्हें बुलाता हूँ ।’ कहते हुए महारामा यशने एक भिक्षुको भेजा ।

थोड़ी देरमें वह भिक्षु कुणालका हाथ थामकर धीरे-धीरे महात्मा यशके समक्ष उपस्थित हुआ । आमात्यश्रेष्ठने देखा अत्यन्त दीनताको प्राप्त, नेत्रविहीन, कुशकाय भिक्षु वेशमें युवराज कुणाल सामने खड़े हैं । सहसा उन्हें देखकर आमात्यश्रेष्ठ पहचान न पाए; किन्तु थोड़ी देरमें उन्हें पहचानकर आमात्यश्रेष्ठ बड़े दुःखी हुए, उनका धैर्य छूट गया और वे रो पड़े । रुद्ध कंठसे वे बोल उठे—‘यह क्या देख रहा हूँ युवराज ! यह आपकी दशा कैसी हो गयी है ?’

‘कौन ? आमात्यश्रेष्ठ ?’

‘हाँ देव ! यही देखनेके लिए जीवित रहा हूँ ।’ कहकर अत्यन्त विषादके वशीभूत होकर आमात्यश्रेष्ठ मौन हो गए ।

‘बृद्धवर ! आमात्यश्रेष्ठ !’

रुँधे हुए गलेको साफकर आमात्यश्रेष्ठ बोले—‘हाँ युवराजदेव !’

‘युवराजदेव न कहें आमात्यश्रेष्ठ ! अब मैं भिक्षु कुणाल हूँ । क्षण-भंगुर शरीरके परिवर्तनको देखकर आप दुःखी हो गए हैं । धैर्य रखिए, आमात्यश्रेष्ठ !’

‘दुःख हमें इस बातका है कि आप वृद्धयन्त्रमें फँस गए । बिना सोचे-विचारे उस आज्ञापत्रके अनुसार आपने क्यों आचरण किया ! जिसे पिताकी आज्ञा मानकर आपने अपने पिता और आत्मीयजनोंको शोकमें डालकर जीवनभरके लिए एक महान् शारीरिक यातना भोगनेके लिए

अपनेको बाध्य कर दिया, भला उसे देखकर कौन पुरुष धैर्य रख सकता है देव ! किसे न विषाद होगा उसे देखकर । जिस पिताकी आज्ञा मानकर उन्हें सन्तुष्ट करनेके उद्देश्यसे यह सब कुछ आपने कर डाला, क्या उस पिताके विषादकी कल्पनाकर आपको सावधान रहनेकी आवश्यकता नहीं थी देव !'

'अब सब कुछ सोचना व्यर्थ है आमात्यश्रेष्ठ ! जो होना था, वह हुआ । अब सोचना निरर्थक है ।' महात्मा यश बोले ।

'आमात्यश्रेष्ठ !' महात्मा यश पुनः बोले ।

'हाँ महाप्रभु !'

'इसका न्याय होना चाहिए । इसीलिए आपको बुलाया हूँ ।'

'अवश्य होगा धर्माचार्य; महात्मन् ! सम्राटदेवके तलशिलासे लौट आने पर !'

'दूसरी बात यह भी है कि आपको तिष्यरक्षितासे प्रत्येक बातोंमें सम्राटदेवके आने तक सावधान रहना होगा, क्योंकि पता चलने पर उसका क्रियाकलाप और भी भयंकर हो सकता है ।'

'आपका अनुमान ठीक है महाप्रभु !'

आमात्यश्रेष्ठने महात्मायशको अभिवादनकर और युवराज कुयालको हृदयसे लगाकर राज्यप्रासादको प्रत्यावर्त्तन किया और वहाँ पहुँचकर उन्होंने अत्यन्त कुशल और वीर योद्धाओंको तिष्यरक्षिताके क्रियाकलापकी जानकारीके लिए गुप्तचर नियुक्त कर दिया ।



अर्द्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी । सजाटा छाया था । राजनगर पाटेलि-पुत्रमें केवल प्रहरियोंकी कभी-कभी पदचाप सुनायी पड़ती थी । राजमहिषी

तिष्यरक्षिता रुद्रसेन एवं कुछ विश्वसनीय सैनिकोंको साथ लेकर रथारूढ़ हो कुक्कुटाराम विहार पहुँची । वहाँ उसने पहुँचकर अपना रथ सैनिकोंके साथ बाहर ही खड़ा कर दिया और एकान्तमें जहाँ कुणाल रहते थे पहुँचकर रुद्रसेनने किवाड़ खटखटाया । विहारके सभी भिन्दु सो रहे थे; किन्तु कुणाल और उनके साथी वैद्यजी जग रहे थे । कपाट खटखटानेकी ध्वनि सुनकर कुणालने पूछा—“कौन है ?”

बाहरसे ध्वनि आयी—“मैं रुद्रसेन बोल रहा हूँ देव ! मुझे राज-महिषीने आपकी सेवामें भेजा है ।”

‘कहाँ हैं माताराजमहिषी ?’

‘वे विहारके बहिर्द्वार पर आपसे मिलनेके लिए उपस्थित हैं । जबसे उन्होंने आपके संबन्धमें बहुतसी बातें सुनीं, तबसे वे बहुत दुःखी हैं और आपसे मिलनेके लिए पधारी है ।’

‘इस समय पधारी हैं ?’

‘हाँ देव ! रात्रिमें वे गुप्त रीतिसे मिलने आयी हैं, क्योंकि विहारमें स्त्रियोंका आगमन वर्जित है और सुना है कि आप विश्रामसे बाहर नहीं जा रहे हैं । उसे धर्म-भूमि मानकर वहीं रुके हैं विना सम्राटदेवकी आज्ञा प्राप्त किए आप मौर्यसाम्राज्यकी सीमाके बाहर नहीं जा सकते । सुना है, आपकी आँखें खराब हैं, यही सब सोच-समझकर वे स्वतः मिलनेके लिए उपस्थित हुई हैं ।’

आमात्यश्रेष्ठ और महात्मायशसे हुई वार्ता सुन चुके थे वैद्य प्रवर । अतः रात्रिमें तिष्यरक्षितासे इस प्रकार मिलने जाना वे अत्यन्त हानिकर समझते थे । उन्होंने बड़ी विनम्र वाणीमें कुणालसे कहा—‘देव ! रात्रिमें मिलने जाना, मुझे बड़ा अनिष्टकर प्रतीत हो रहा है, अतः बिना समझ-सोचे कोई ऐसा कार्य न कर डालना चाहिए, जिससे कोई दूसरी आपदा आ खड़ी हो जाये ।’

‘भद्र ! तुम ठीक कहते हो, किन्तु मुझे भयका कोई कारण नहीं

दिखाई पड़ रहा है ।' कुणालने मनमें सोचा—'श्रवश्य पहले राजमहिषी-
ने मेरे साथ गिन्दनीय कार्य किया था और संभव है उसीने षडयंत्र रचा
हो, किन्तु वह अब पश्चात्ताप करती होगी और मुझे देखनेके लिए दुःखी
होगी अतः भयका कोई कारण नहीं है ।'

'चलो रुद्रसेन मैं चलता हूँ ।' कहा कुणालने ।

कुणाल उठकर खड़े होगए । उन्हें सहारा देनेके लिए वैद्यवर भी उठ
खड़े हुए । उनका सहारा लेकर वे विहारके वहिर्द्वार पर जा पहुँचे । रथ
पर तिष्यरक्षिता बैठी थी, उसने युवराजको आते देखकर कहा—'आओ
युवराज ! सम्राटने तुम्हारे साथ बड़ा ही अन्याय किया है । मैं बहुत
दुःखी हूँ ।'

'वे मेरे पिता हैं माता ! आपकी और उनकी आज्ञाका पालन मैं
अपना प्रमुख कर्तव्य समझता हूँ ।' कहते हुए कुणाल उसके निकट पहुँच
गए और टटोलकर पूछने लगे—'माता आपके चरण कहाँ हैं ?'

तिष्यरक्षिताने कुणालका हाथ थाम लिया और खींचकर रथ पर बैठा
लिया । वैद्य प्रवर वहीं खड़े रह गए, उनका साहस न हुआ कि राज-
महिषीके रथ पर बैठते । कुणाल युवराज थे राजमहिषीके रथ पर बैठ
सकते थे, किन्तु अन्य कोई उनके रथ पर बैठनेका साहस कैसे कर सकता
था ? अतः वैद्यजी नीचे ही खड़े रह गए । युवराजके रथपर बैठते ही वह
आगे बढ़ा । रुद्रसेनने सोचा—'यदि इस ब्यक्तिको यहीं छोड़ा गया तो
सारा रहस्य खुल जायगा; अतः वह वैद्यजीसे बोला—'आओ भद्र ! तुम
मेरे रथ पर बैठ लो ।'

रुद्रसेनके रथ पर वैद्यजी बैठ गए, वे सब सशस्त्र सैनिकोंके साथ
भीषण वनस्थलीकी ओर चल पड़े ।

'ऐसा कौनसा तुमने अपराध किया था युवराज ? जो सम्राटने तुम्हें
कठोर दण्ड दे डाला; समझमें नहीं आ रहा है ।' बोली तिष्यरक्षिता ।

'इस संबंधमें माता राजमहिषी ! न तो वार्ता करें और न मुझे युव-

राजही कहें अब मैं भिन्नु कुणाल हूँ । 'युवराज' शब्द मुझे बड़ा अप्रिय लगता है ।'

'और मुझे 'माता' शब्द भी तो बड़ा अप्रिय लगता है । मैंने भी तुम्हें बार-बार मनाकर दिया है और तुम मानते नहीं ।'

कुणाल चकित हो गए और मौन भी । उन्हें पुरानी बातें याद हो हो आईं । रथ तीव्र वेगसे आगे बढ़ रहा था, सहसा रथकी गतिका अनुमानकर कुणालने पूछा—'माता ! मैं कहाँ चल रहा हूँ ?'

'फिर माता कहकर तुमने सम्बोधित किया ! पामर कहींके, दुष्ट ! नीच ! अभी तुम्हारी स्वचा उधेड़वा लूँगी । जिस शब्दसे मुझे चिढ़ है, वही तू बार-बार कहता है ? मुझे चिढ़ानेके लिए ?' तिष्यरक्षिता तो इसी प्रयत्नमें थी ही कि कोई भी शब्द कुणालके मुखसे निकले; बस तुरन्त दोष मढ़कर बातें बढ़ा दी जायें और तब प्राणदण्ड दे दिया जाय ।

'कहाँ चल रहा हूँ ?' यह पूछनेकी कौनसी बात है ? मैं तो तुम्हारे हितमें तत्पर थी; सोचा राज्यप्रासाद लिवा चलूँ आँखोंकी दवा करवा दूँ न्ययंबक शास्त्री इस समयके बहुत बड़े चिकित्सक हैं, किन्तु मुझपर तुम सन्देह करते जाते हो और अपमानित भी कर रहे हो ? तुम्हारी पुरानी बातें जब याद होती हैं, तब रक्त उष्ण हो जाता है और हृदयमें तुम्हारे प्रति रोष भड़क उठता है । दुष्ट कहींके ।' ऐसा कहकर तिष्यरक्षिताने कुणालके मुँहपर एक थप्पड़ लगा दिया और क्रोध दिखाते हुए वह बोली—'इच्छा होती है, रथसे नीचे ढकेल दूँ ।'

कुणालकी समझमें एक भी बात नहीं आ रही थी; उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कौनसा अपराध हो गया, जिससे सहसा तिष्यरक्षिताके व्यवहारमें कठोरता आ गई ! 'माता' कहने और 'कहाँ चल रहा हूँ' पूछने पर यह कोई भी अपराध नहीं माना जा सकता, जिसका बहाना कर इसने मेरे ऊपर प्रहार किया है और अपने अपमानका अनुभव किया है ।

'मुझे उतार दो देवि ! रथसे; मैं इसी दशामें सन्तुष्ट हूँ, मुझे न तो

आँखोंकी चिकित्सा करानी है और न राज्यप्राप्तादमें ही चलना है ।’

कुणालके मुँहसे यह शब्द निकल ही रहा था कि तिष्यरक्षिताने युवराजको रथके नीचे टकेलना चाहा । किन्तु कुणालने अपना हाथ, जिसे पकड़कर वह बाहरकी ओर खींच रही थी, उस ओर बढ़ाकर ढीला कर दिया । तिष्यरक्षिता रथसे नीचे आ गिरी । नीचे गिरते ही वह चिल्ला पड़ा, रथ वहीं रुका रहा । उसकी चिल्लाहट सुनकर रुद्रसेन आ पहुँचा और पूछा—‘क्या बात है राजमहिषी ?’

‘बात मत पूछो रुद्रसेन ! कुणालने मुझे अपमानित करना चाहा और जब मैंने उसे डाँटा तब मुझे उसने रथगे नीचे गिरा दिया ।’

‘क्यों भिन्नु कुणाल ! तुम भिन्नु होकर राजमहिषीका अपमान करोगे ? याद रखो तुम भिन्नु हो और ये साम्राज्य हैं । सम्राटदेवकी अनुपस्थितिमें शासनकी बागडोर इन्हींके हाथों है । गव्याजाका संचालन इन्हींके द्वारा हो रहा है ।’

गंभीर हो गए थे कुणाल और गंभीर वाणीमें बोले—‘रुद्रसेन ! परिचय मैं राजमहिषीका और तुम्हारा भी जानता हूँ । मेरे लिए तुम लोग नए नहीं हो ।’

‘मैं परिचय नहीं करा हूँ कुणाल ! मैं तुम्हारी अशिष्टताकी ओर संकेत कर रहा हूँ । जब तक मैं उपस्थित हूँ, राजकर्मचारी होनेके नाते राजमहिषीका अपमान सहन नहीं कर सकता ।’ रुद्रसेनने कहा ।

‘राजमहिषीका अपमान जब हो, तब तो तुम सहन नहीं कर सकोगे कि यों ही किसीके ऊपर राजमहिषीके अपमानका दोष लगा दोगे ?’

‘मैं अधिक कुछ न कहूँगा । बोलिए राजमहिषी क्या आदेश है ?’

‘आदेश पूछते हो रुद्रसेन ! कुणालने मेरा घोर अपमान किया है । मैं इसे सहन नहीं कर सकती ।’

‘यदि मैंने राजमहिषीकी दृष्टिमें उनका अपमान किया है तो निश्चय ही मैं दण्ड भोगनेके लिए प्रस्तुत हूँ ।’

‘ऐसा नहीं हो सकता देव ! आपका अपराध पौर-सभामें राजमहिषी-को प्रमाणित करना होगा और आमात्यश्रेष्ठ, धर्माचार्य महात्मा यशके समक्ष । भले आप राज्याज्ञाका पालन स्वेच्छासे करके अन्धे और भिन्नु हो गए हैं, किन्तु राज्य परिवारसे आपका सम्बन्ध है; अतः राजमहिषी और रुद्रसेनके ही दृष्टिकोणका मापदण्ड न्याय नहीं मान लिया जायगा । अभी जो घटना तक्षशिलामें आपसे संबन्धित घटी है, उसीका न्याय होनेवाला है, उसके साथ इसका भी न्याय हो जायगा । धैर्य रखो रुद्रसेन !’ वैद्य प्रवर बोले ।

‘देखो ! तुम आज्ञा नहीं दे सकते ! समझे ? जानते हो ? अधिक बोलने और उपदेश देनेसे तुन्हें भी राजदण्ड भोगना होगा ।’

‘रुद्रसेन ! सावधान होकर धातें करो । जिसके अपराध पर विचार करना चाहते हो, वह भी साधारण व्यक्त नहीं है । तुम्हारा इतना साहस ! छोटी मुँह बड़ी बात ! तुम साधारण भिन्नु समझ अपमानित कर रहे हो ? खबरदार ! यह न सोचो,—कि सैनिक तुम्हारे साथ हैं और जो चाहोगे वह कर लोगे । मैं जावित रहते हुए तुम्हारा और राजमहिषीकी इच्छा इस सम्बन्धमें पूर्ण न होने दूँगा । मैं भी युवराज कुशालका रक्षामें तत्पर उनका एक अंग-रक्षक हूँ । तुम्हारी जो भी इच्छा हो, खड़े हो जाओ । मैं अकेला हूँ, तुम लोग अनेक हो, देव लो अपना और मेरा पराक्रम ।’

‘शान्त रहो भद्र ! शान्त हो जाओ । माता राजमहिषीकी जो आज्ञा होगी, मैं वहीं करनेकी प्रस्तुत हूँ ।’ कहा कुशालने ।

‘फिर माता कहा तुमने भूखें ?’ रोषमें अपने सैनिकोंका विश्वास करते हुए तड़प कर कहा तिष्यरक्षिताने ।’

‘माता कहना कौनसा अपराध है राजमहिषी ! आपको माता न कह कर परिचारिकाश्रेष्ठी कहा जायगा; तब आप प्रमत्त होंगी ?’ बोले वैद्यवर ।

‘रुद्रसेन ! क्यों सहन कर रहे हो ? आज्ञा देती हूँ—इसे प्राणदण्डको ।’

रुद्रसेनकी कृपाण हाथमें आ गयी; वह वैद्य प्रवर पर झुपटा; किन्तु रुद्रसेनको पैतरे पर खड़े होने और आक्रमण करनेके पूर्व ही वैद्यने अत्यन्त शीघ्रतासे उसके बहुत निकट आकर पार्श्वसे कमर पकड़ लिया और कृपाण छीनकर एक हाथके एक ही झटकेसे उसे घराशायो कर दिया और कहा—‘इसी बलके भरोसे इसी रणकुशलताके बल पर तुम्हें और राज-महिषीको गर्व था ! बोलो ! अपने सहायकोंको भी बुला लो । मैं तुम्हारी हत्या तो इसलिए नहीं करूँगा कि पौरसभामें तुम्हें भी उपस्थित करना है और तुम्हारा भी न्याय होगा ।’ वैद्य प्रवर यह कह ही रहे थे कि इतनेमें कुछ सैनिकोंने चारों आंरसे उन्हें घेर लिया । प्राणोंका मोह त्यागकर वैद्य जी जोशमें आ गए और उनका डटकर सामना करने पर आरूढ़ हो गए । युद्ध प्रारम्भ हो गया । उसी समय कुछ अधिक सैनिक वहाँ उपस्थित हो गए ।

तिष्यरक्षिताने रुद्रसेनके निकट आकर कहा—‘अच्छा अवसर :— कुणालको और इस वैद्यको मौतके घाट उतार कर चले आना । तुम लोग धैर्यसे यह काम कर सकते हो । मैं अपना यहाँ रहना ठाकनहीं समझती, अतः मैं राज्यप्रासाद लौट रही हूँ, यह कायें समाप्तकर तुम मुझे वहाँ मिलो । देवो, कुछ सैनिक और भी आ गए हैं । एक व्यक्ति कितना युद्ध करेगा ?’ कहकर तिष्यरक्षिता लौट पड़ी और वहाँ युद्ध प्रारम्भ होगया ।

अपार उत्साह था वैद्यों । चार-छः सैनिकोंको उसने घायल कर दिया । थोड़ा देरमें वह कुछ शिथिल पड़ने लगा और विरोधी प्रबल पड़ने लगे । वैद्यजी अपने जीवनसे निराशा हो गिर पड़े; इतनेमें सैनिकोंका एक बड़ा झुण्ड वहाँ और आ पहुँचा । राजमाहिषीके सैनिक वैद्यको निष्प्राण समझकर उसे वहीं छोड़ कुणालको प्रचारकर उनकी ओर बढ़ने लगे थे । इसी बीच पीछेसे आनेवाली सैनिकोंकी टुकड़ी राजमहिषीके सैनिकों पर दूट पड़ी । राजमाहिषीके कुछ सैनिक युद्ध करनेके लिए तैयार

हुए और कुछ भागनेके प्रयत्नमें आगए; किन्तु सबका प्रयत्न विफल रहा। बादमें आनेवाली सैनिकोंकी वह टुकड़ी बहुत प्रबल पड़ गयी और वहाँ पर उपस्थित सभी राजमहिषोंके सैनिक रुद्रसेन समेत बन्दी बना लिए गए। और कुशालको देखकर सैनिकोंने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और कहा—‘देव ! राजमहिषीके षडयन्त्रमें पुनः कैसे पड़ गए ? चलिए, आपको महात्मा यशके यहाँ पुनः पहुँचा दूँ।’

‘मेरे साथी वैद्यजीको ब्रूढ़िए, आप लोग ! वे जीवित हैं या नहीं। बड़ा भीषण युद्ध कर रहे थे। आप लोग थोड़ी देर और न पहुँचे होते तो निश्चय ही मुझे भी प्राण त्याग करना पड़ता।’ कुशाल बोले।

‘भद्र वैद्य प्रवर ! आप बोलिए कहाँ हैं। जीवित तो हैं ?’

‘जीवित तो हूँ देव ! किन्तु पीड़ा असह्य है !’

कुशाल बड़े दुःखी हुए। कुछ सैनिकोंने युवराज कुशाल और वैद्य-वरको कुक्कुटाराम विहार पहुँचाया और शेष सैनिकोंने बंदियोंको साथ लेकर कठोर बंदीगृहमें पहुँचाया।



भिन्नु कुशालकी हत्यामें अपने सैनिकोंके विफल हो जानेका जब समाचार तिष्यरक्षिताको मिला; तब वह अत्यन्त दुःखी हुई। अपने बचावका वह जो भी प्रयत्न करती, वह सब विफल होने लगा। उसने अत्यन्त परेशानीका अनुभव किया। मृत्युका दृश्य उसकी आँखोंके समक्ष उपस्थित हो गया। क्या करे ? कहा जाकर वह अपने प्राणोंकी रक्षा करे ? संसार उसके लिए सूना दिखाई पड़ा। पौर-सभाके समक्ष उसका न्याय होगा ! उसके सारे षडयन्त्र प्रमाणात होंगे ! वह क्या उत्तर देगी ? किसके ऊपर दोष लगावेगी। सुखमय जीवन उसने अपने ही हाथों नष्ट कर

दिया । घोर पश्चात्ताप वह कर रही थी । उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था । क्यों नहीं पहले ही इन सभी परिणामोंको सोच लिया था ! अधि-कारके मदमें अन्धा हो गयी थी ! अब क्या होगा ? निश्चय ही प्राण-दण्ड ही इसका प्रायश्चित्त है । वह जीवनसे निराश होगयी । ज्यों-ज्यों वह अपने अपराधोंको सोचती; ज्यों-ज्यों उसकी व्याकुलता बढ़ती जाती । अन्तमें वह असमर्थ होगयी और अस्यन्त दीनताका अनुभव करने लगी । यदि यह विपत्ति किसी प्रकार टल जाती, तो वह जीवनमें घोर अहिंसाका आश्रय ग्रहण करती; किन्तु यदि इतने अपराधोंके पश्चात् जीवन रहे भी तो ? कभी वह पलंग पर जा बैठती और सोचते हुए तत्काल उठकर प्रकोष्ठमें घूमने लगती और पुनः पलंग पर जा बैठती । उसके चित्तमें स्थिरता नहीं थी । घोर पश्चात्ताप था—हृदयमें । किसी भी दशामें उसे आराम नहीं मिल रहा था । प्राणदण्डकी कल्पना उसके मस्तिष्कसे बाहर न निकलती थी । सोचते-मोचते सारी रात्रि बीत गयी । न तो वह शय्या पर लेटी और न नींद ही आई । उसे भय था, नींद कहाँसे आती ? नाना प्रकारके संकल्प-विकल्पों और मानसिक संतुलन बिगड़ जानेके कारण उसका रूप विकृत होने लगा और वह भयानक प्रतीत होने लगी । इन सभी परेशानियोंके पश्चात् सहसा उसने एक उपाय सोच ही लिया । पौर-सभाके समक्ष उसे कदापि नहीं उपस्थित होना है । सम्राटदेव, धर्माचार्य इत्यादिके न्याय करनेके पूर्वही अपना न्याय वह स्वयं कर लेगी, यही सोच रही थी तिष्यरक्षिता ।

सहसा उसके शयन-प्रकोष्ठके द्वार पर एक परिचारिका उपस्थित हुई । उस समय तिष्यरक्षिता शय्या पर पड़ी थी । परिचारिकाने कक्षमें प्रवेश किया । देखा उसने राजमहिषी पलंग पर पड़ी है । उसने उसे अभिवादन किया । तिष्यरक्षिताका ध्यान भंग हुआ ।

‘इस समय आज तुम बहुत शीघ्र आ गई हो परिचारिके !’ तिष्य-रक्षिताने कहा ।

‘नहीं राजमहिषी ! अन्य दिनोंसे आज कुछ बिलंब हो गया है । आप निश्चित समय पर उठ नहीं पाई हैं । क्या राजमहिषी कुछ अस्वस्थ हैं ?’

‘नहीं भद्रे ! परिचारिके ! अस्वस्थ तो नहीं हूँ, किन्तु कुछ शिथिलता अवश्य है । इस समय तुम जाओ । मुझे आराम करने दो । दो घण्टे पश्चात् आना । हाँ, प्रतिहारिणीसे कहो कि मैं दो घण्टे और आराम करना चाहती हूँ, इस समय मुझसे कोई नहीं मिल सकता ।’

‘जो आज्ञा !’ कहकर वह बाहर चली गयी ।

+ + +

आमात्यश्रेष्ठके सैनिक बन्दिनोंको साथ लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुए । प्रमुख सैनिकने आमात्यश्रेष्ठको सम्मान प्रदर्शित करते हुए अभिवादन किया और हाथ जोड़कर उनके समक्ष वह खड़ा हो गया ।

आपादमस्तक उसकी ओर दृष्टि फेंककर वृद्ध आमात्यश्रेष्ठने पूछा—
‘सफल हो गए तुम इन बन्दिनोंको बन्दी बनाकर ? कोई बन्दी छूट तो नहीं गया भद्र !’

‘नहीं देव ! छूटने तो कोई नहीं पाया, किन्तु यदि थोड़ी भी देर और हो गयी होती, तो इनके प्रहारोंसे युवराजदेवका जीवनदीप बुझ गया होता !’

‘ठीक है ।’ सर हिलाते हुए बोले आमात्यश्रेष्ठ—‘इन लोगोंको कठोर कारागारमें भेज दो । इनका भी निर्याय होगा ।’

‘जो आज्ञा देव !’ कहकर प्रमुख सैनिकने आमात्यश्रेष्ठको अभिवादन किया और बन्दिनोंको कारागार ले जानेके लिए वह तत्पर हो गया ।

+ + +

दो घण्टे पश्चात् तिष्यरक्षिता शय्यापरसे उठी । वह अत्यन्त शिथिल हो गयी थी । सारी चिन्ताओंने उसकी शक्तिका हास कर दिया था । परिचारिका उपस्थित हुई और उसने अभिवादनकर राजमहिषीका जलपान

उपस्थित किया। राजमहिषीने उसे टककर रख देनेका आदेश दिया और कहा—‘अब तुम बाहर जा सकती हो।’

परिचरिका बाहर चली गयी। तिष्यरक्षिताने पात्र उठा लिया और अंगूरका शर्बत भरा तथा हीरक मुद्रिकाका नम मल-मलकर उसे विषाक्त बना डाला। ज्योंही उसे पीनेके लिए उसने वह पात्र मुँहको लगाना चाहा, त्योंही आमात्यश्रेष्ठ आ पहुँचे द्वार पर और कहते हुए—‘मैं आ रहा हूँ, राजमहिषी !’ उसके प्रकोष्ठमें प्रविष्ट हो गए।

काँपते हाथोंसे पात्र उसने तत्काल वहीं रख दिया और अपनेको अत्यधिक संयत करनेका प्रयत्न किया, किन्तु उसकी आकृति, भावभंगिमा और चबराहट आदि छिपी न रह सकी आमात्यश्रेष्ठसे।

‘राजमहिषी अत्यन्त चबराहटका अनुभव कर रही हैं; क्या मेरा कथन सत्य है ?’ आमात्य महोदय बोले।

तिष्यरक्षिता मौन हो गयी और उसकी चबराहट बढ़ गयी। उसने अनुभव किया - ‘आमात्यश्रेष्ठ सब कुछ जान गए।’

उसके उत्तरकी प्रतीक्षा कर लेनेके पश्चात् पुनः प्रश्न किया आमात्य-श्रेष्ठने—‘उस पात्रमें क्या भरा है, राजमहिषी ?’

फिर भी मौन र्था—तिष्यरक्षिता।

‘बोलिए राजमहिषी !’

‘इस समय आप पधारें आमात्य महोदय; फिर किसी समय आइएगा। हाँ, कोई आवश्यक कार्य हो तो ...।’ बोली तिष्यरक्षिता।

‘हाँ, हाँ; अवश्य कार्यवश ही उपस्थित हुआ हूँ राजमहिषी !’

‘तां कहिए जाँ आपका आवश्यक कार्य हो। कामकी वार्त्ता करें।’

‘निरर्थक बातोंका कभी भी मैं उलभनमें नहीं पड़ता राजमहिषी ! जिस संबंधमें अभी आपसे पूछा है; उसका उत्तर देनेकी कृपा करें।’

‘मुझे उत्तर देनेमें बाध्य नहीं किया जा सकता आमात्य महोदय; और चाहे जिस बातका उत्तर मैं दूँ या न दूँ, इस संबंधमें परतंत्र नहीं हूँ।’

‘चाहे अन्य बातोंका उत्तर भले ही न दें, किन्तु इसका उत्तर आपको देना ही होगा राजमहिषी !’

‘आपके कथनको अस्वीकार करती हूँ आम्रात्य महोदय ।’

‘किन्तु आप ऐसा नहीं कर सकतीं राजमहिषी ! यह आदेश है जो आपको दिया गया है और आम्रात्यश्रेष्ठका आदेश है, यह निवेदन नहीं है जो ठुकराया भी जा सकता हो ।’

‘किन्तु राजमहिषीको आम्रात्यश्रेष्ठ आदेश दे सकते हैं ?’

‘अवश्य; अवसर विशेष पर राजमहिषीको आज्ञा दी जा सकती है आम्रात्यश्रेष्ठ द्वारा ।’

‘किस अधिकारसे यह संभव है ?’

‘महामन्त्रित्वके अधिकारसे ।’

‘ऐसा कदापि नहीं हो सकता । आप राजमहिषीका अपमान कर रहे हैं, यह न भूलें ।’

‘नहीं भूलूँगा । मैं राजपरिवारके हितमें तत्पर हूँ, जिसे स्मरण रखूँगा । यह विष खाकर जो आत्महत्या आप करना चाहती हैं, उसे भी मैं स्मरण रखूँगा ।’

तिष्यरक्षिता भयत्रस्त हो मौन हो गयी । आम्रात्यश्रेष्ठने संकेत किया एक परिचारिका वहाँ आ उपस्थित हो गयी और सम्मान प्रदर्शित कर उसने पूछा—‘आज्ञा देव !’

‘वह विषपूर्ण पात्र बाहर फेंको ।’ परिचारिका चकित हो गई, विषका नाम सुनकर । उसने पात्र उठा लिया और बाहर फेंक दिया ।

तिष्यरक्षिताको भंगिमा बक्र हो गई, आम्रात्यश्रेष्ठ पर । वह बोली—
‘आप अनधिकार चेष्टाकर रहे हैं; आम्रात्य महोदय !’

‘आप जो भी समझें राजमहिषी !’

‘आप प्रकोष्ठके बाहर चले जाइए ।’

‘अभी कुछ देरमें राजमहिषी मैं स्वतः बाहर चला जाऊँगा । अभी कार्य अधूरा है ।’

विष भरा पात्र बाहर फेंककर परिचारिका पुनः उपस्थित हुई और आमात्यश्रेष्ठको अभिवादन कर खड़ी हो गई । आमात्यश्रेष्ठने उसकी ओर देखा और कहा—‘महाबलाधिकृतको उपस्थित करो ।’

‘जो आज्ञा !’ कहकर वह चली गयी ।

‘आप इसी समय बाहर चले जाइए !’ पुनः तिष्यरक्षिता बोली ।
‘आप अपनेको बन्दी समझिए राजमहिषी !’

‘तुम्हारा साहस ! तुम मुझे बन्दी बना सकते हो ?’

‘अवश्य आपने भारी अपराध किया है और अभी सम्राटदेवकी आपके अपराधोंका पता नहीं है । मैं सब कुछ जानताहूँ—आपका युवराजसे प्रणय-निवेदन, और उनका इस प्रस्तावको ठुकराना, युवराज पर आपके सैनिकों द्वारा आखेट भूमिपर आक्रमण, कांचनमालाका बंदीगृहमें आप द्वारा डाला जाना, आपके षडयंत्रसे आँखोंको नष्ट किया जाना, भिक्षु होकर युवराजका देशाटन और कल रात्रिमें पुनः उन्हें मरवाडालनेका प्रयत्न सब कुछ मुझे विदित है । आपका सहायक रुद्रसेन घायल होकर बंदीगृहमें पड़ा है जो आपके अपराधोंको पौरसभामें श्रीसम्राटदेवके समक्ष प्रमाणित करेगा !’ बहुत गम्भीर वाणीमें आमात्यश्रेष्ठ एक-साथही कह उठे ।

तिष्यरक्षिता काँप गयी; जैसे आकाशसे गिर पड़ी हो ।

परिचारिकाके साथ महाबलाधिकृत उपस्थित हुआ । उसने प्रथम राजमहिषीको तल्पश्चात् आमात्यश्रेष्ठको अभिवादन किया ।

‘महाबलाधिकृतम होदयः—कहा आमात्यश्रेष्ठने—‘राजमहिषी इस समय बन्दिनी हैं । इसी प्रबन्धके लिए आपको स्मरणा किया गया है ।’

चकित होगया महाबलाधिकृत और वह कभी आमात्यश्रेष्ठकी ओर-तो कभी राजमहिषीकी ओर देखने लगा । उसका साहस नहीं पड़ रहा

था कि आमात्यश्रेष्ठके आदेशका पालन करे और न तो उनकी आज्ञाका उल्लंघनही ।

मौन थी तिष्यरक्षिता । 'राज्याज्ञाका अधिकार सम्राटदेव राजमहिषी परही मौंपकर तक्षशिला पधारे थे ।' सोचने लगा महाबलाधिकृत ।

'क्या आप समझ नहीं रहे हैं महाबलाधिकृत महोदय !'

'समझ रहा हूँ देव !' मौन होकर वह सोचने लगा । इसी समय परिच्चारिका उपस्थित हुई और अभिवादनकर आमात्यश्रेष्ठसे बोली— 'आमात्यश्रेष्ठ ! श्रीसम्राटदेवका संदेशपायक द्वार पर मिलनेके लिए उपस्थित है ।'

'उपस्थित करो उसे ।'

'जी आज्ञा ।' कहकर वह बाहर चली गयी ।

संदेशपापक उपस्थित हुआ और अभिवादनकर भोजपत्र पर लिखा हुआ श्रीसम्राटदेवका आदेश आमात्यश्रेष्ठके हाथोंमें थमा पार्श्वमें खड़ा हो गया ।

आमात्यश्रेष्ठने पत्र पढ़ा और उनकी आकृति पर सबने छाते हुए हर्षको देखा । आमात्यश्रेष्ठ बोले—'तो तुम तक्षशिलासे आ रहे हो संदेश-पायक !'

'जी हाँ श्रीमान्जी ! तक्षशिलासेही आयाहूँ ।' बोला संदेश-पायक ।

'तो इस समय सम्राटदेव तक्षशिलासे चल चुके हैं ?'

'हाँ श्रीमान् अब वे तक्षशिला और पाटलिपुत्रके मध्य मार्गमें पहुँच चुके होंगे । पहले युवराजसे मिलने वे उज्जैन गए थे, किन्तु उनसे वे न मिल पाए अब वे यहाँके लिए चल पड़े हैं ।

'श्रीसम्राटदेवके साथ कौन-कौन लोग आरहे हैं ?' पूछा आमात्यश्रेष्ठने ।

'उनके साथ युवराज-पुत्र श्रीसम्प्रतिदेव और युवराज्ञी देवी कांचन-माला भी आ रही हैं ।'

'अच्छा ठीक है । जा सकते हो तुम ।' आज्ञा दी आमात्यश्रेष्ठने ।

‘और श्रीमान् ! आपकी सेवामें श्रीसम्राटदेवने गुप्त संदेश भी भेजा है, जिसका कथन श्रीमान्जोंके समक्ष एकान्तमें करूँगा ।’

‘ठाक है ।’ कहकर श्रीमात्यश्रेष्ठ उसके साथ एकान्तमें थोड़ी दूर चले गए और बोले—‘निवेदन करो । एकान्त है ।’

इधर-उधर दृष्टि फेरकर संदेशपायक बोला—‘श्रीमान्जी; श्रीसम्राटदेवका आदेश है कि जब तक मैं राजनगर पाटलिपुत्र न आ जाऊँ, तब तक साम्राज्ञी तिष्यरक्षिताको बन्दिना बनाकर कारागारमें रखा जाय ।’

‘इसका कारण ! बता सकते हैं ?’

‘हाँ श्रीमान् ! इसका कारण तो बड़ा भयंकर और गुप्त है ।’

श्रीश्वर्यर्चाकृत ही श्रीमात्यश्रेष्ठ बोले—‘क्या है भद्र ?’

‘साम्राज्ञीके भयंकर किसी षडयन्त्रका उद्घाटन हुआ है देव !’

‘ठीक है, और कुछ ?’

सभी बातें एक-एककर संदेशपायकने श्रीमात्यश्रेष्ठसे कह दिया । श्रीमात्यश्रेष्ठ पुनः तिष्यरक्षिताके समक्ष उपस्थित हुए । महाबलाधिकृत वहीं खड़ा था । वहाँ पहुँचकर श्रीमात्यश्रेष्ठने पुनः कहा—‘महाबलाधिकृत महोदय !’

‘आज्ञा श्रीमान्जी !’

‘साम्राज्ञीको बन्दी बनाइए । देखिए श्रीसम्राटदेवका आदेश भी आ चुका है इस सम्बन्धमें ।’

‘साम्राज्ञीको ?’

‘हाँ इन्हें ही । इस समय श्रीसम्राटदेवकी आज्ञाका पालन करें । इस सम्बन्धमें जानकारी आपको ही जायगी ।’

सशस्त्र सैनिकोंको बुलाकर महाबलाधिकृतने आदेश दिया । राज-महिषी तिष्यरक्षिता बन्दिनी होकर रहने लगी ।



प्रियदर्शी सम्राट् अशोकवर्द्धनके पाटलिपुत्र पहुँचनेपर आमास्यश्रेष्ठने उनका बड़ा ही स्वागत किया ।

सम्राट्देवने पाटलिपुत्र पहुँचकर दूसरे ही दिन पौर-सभाको बुलानेकी घोषणाकी । प्रजासङ्घमें बड़ा विवाद और कौतूहल छा गया । राजनगरमें यत्र-तत्र अपराधियोंके अपराध पर विचार प्रारम्भ होगया । कोई कह रहा था कि घर्म-प्रिय सम्राट् अशोक वृद्धावस्थामें विवाह करके विपत्तमें आ फँसे । कोई तिष्यरक्षिताकी निष्ठुरताका वर्णन कर रहा था; कोई युवराज कुशालकी यातनाका स्मरणकर आखोंमें अश्रु बहा रहा था, कोई-कोई कह रहा था—‘रानीने अपने सुखमय जीवनके साथ ही साथ मौर्यसाम्राज्यकी भी नष्ट कर दिया ।’ कोई कह रहा था—‘देखें सम्राट् अपराधिनी रानी तिष्यरक्षिताको कैसा दण्ड देते हैं ।’ इसी प्रकार सारे राजनगरमें विपादकी लहरें दौड़ गयी थीं ।

दूसरे दिन एक विशाल प्रांगणमें पौर-सभामें सम्मिलित होनेके लिए नगरके सभी नागरिक और राज्यकर्मचारी उपस्थित होने लगे । सभी जन-समुदाय यथा स्थान उपस्थित हो बैठ रहा था । राज्यसिंहासनपर प्रियदर्शी सम्राट् अशोकवर्द्धन विराजमान थे, उनके पार्श्वमें एक छोटे स्वर्णसिंहासन पर युवराज्जा कांचन थी और उसके पार्श्वमें आमास्यश्रेष्ठ विराजमान थे; जो सभाकी कार्यवाहीके समय अभियोगका तालिका प्रस्तुत करेंगे और महाबलाधिकृत तथा अन्य राज्यकर्मचारीगण सभामें उपस्थित होनेवाले सज्जनोंके बैठनेके प्रबन्धमें व्यस्त थे । देखते-देखते थोड़ी देरमें अपार जनसमूह एकत्र होगया ।

सम्राट्देवके आदेशानुसार अपराधीगण—तक्षशिलाधीश, रुद्रमेन, रानी तिष्यरक्षिता एवं और भी अन्य राज्यकर्मचारी जिन्होंने पट्टयंत्रमें भाग लिया था, सरास्र सैनिकोंके संरक्षणमें उपस्थित किए गए । सभी अपराधी

मस्तक नवाकर खड़े थे, जो मृत्युकी घड़ी गिन रहे थे। अपराधियोंके हृदयमें पश्चात्ताप था, ग्लानि थी और अब अहिंसाका महत्व भी था। आज जिसके संरक्षणमें उन्होंने अपराध किया था, स्वयं उसकी रक्षा नहीं हो पा रही थी। फिर उन्हें कौन बचाता? सबसे निकृष्ट दशा रानी तिष्यरक्षिताकी थी। उसके सब राजकोय वस्त्राभूषण छिन गए थे, मुख ग्लानिही नहीं हुआ विकृत और विवर्ण भी हो गया था। आकृति पर अत्यन्त दीनता छा गयी थी; उसकी दशा देखकर कितनेही हृदय काँप गए थे। तिष्यरक्षिता कितनेही हृदयोंमें घृणाकी पात्र बन गई और कितनेही हृदयोंमें उसकी सारी क्रिया-कलापोंके आन्दोलन उठ खड़े हुए। किन्तु राजमहिषीका यह विकृत रूप, उसकी दीनता उसका पश्चात्ताप उसकी ग्लानि, उसका ग्लानमन कभी भी एक साथ सम्राट अशोकवर्द्धनने नहीं देखा था और न तो इसकी कल्पनाही उन्होंनेकी थी—वह अनुपम सौन्दर्य, देखनेमें गंभीरतापूर्ण विचित्र मादक यौवन और स्थायां जान पड़नेवाला मनोमुग्धकारी आकर्षक व्यक्तित्व इस प्रकार परिवर्तित होकर घृणाके रूपमें दिखायी पड़ने लगेगा। आज सम्राट अशोकके हृदयमें इसकी अनुभूति हो रही थी—कि मानवशरीर, जिसके प्रति मनुष्यके हृदयमें प्रबल आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, नाशवान् है। निश्चयही नाशवान् है। इसीलिए उच्चकोटिके सन्त किसी भी रूप पर आक्रुष्ट नहीं होते और न उनके हृदयमें उसके प्रति ममताही उत्पन्न होती है, क्योंकि वे उसके वास्तविक रूपकी अनुभूति और कल्पना पहलेही कर लेते हैं; धन्य हैं वे जितेन्द्रिय पुरुष धन्य हैं।

उपस्थित जन-ममुदायमें विचित्र दशा थी सम्राट अशोकवर्द्धनके हृदयकी। 'मेरी अंकशायिनी! राजमहिषी! इस युगकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी! प्रज्ञामंडलमें जिसकी अनुकंपाकी कामना थी, आज वही बेदिनी है, अपराधिनी है, दीन है, और सर्वशक्ति सम्पन्न राजसत्ता, मेरी भुजाएँ सब उसकी रक्षा करनेमें असमर्थ हैं हाय!' 'भला इसे क्या समझी जो

इसने प्राणोंसे प्रिय और माता-पितामें भक्ति रखनेवाले युवराज कुशालका सर्वनाश कर दिया ! इतना था इसका हृदय निष्ठुर ! भला यह कार्य इसने कैसे कर डाला !' इसे प्राणदण्ड हो या कि क्षमा प्रदानकी जाये ? कुछ भी नहीं स्थिर कर पा रहे थे सम्राट अशोक । एकके पश्चात् दूसरे विचार उनके हृदयमें उत्पन्न हो रहे थे । अपार दुःख था सम्राटको । तिष्यरक्षिताके प्रति एक ओर उनके हृदयमें ममता थी दया थी; दूसरे कोनेमें घृणा थी, दण्ड था और सबसे बड़ी बात थी लोक लज्जा !

सम्राटके हृदयकी अद्भुत दशा थी, अवरुणीय थी, कौन क्या कहें ! कुछ भी न कह कर मौन ही रहना ठीक है ।

पौरसभामें उपस्थित जन-समुदायकी दृष्टि तिष्यरक्षिता पर थी । जन-जनके हृदयमें वहां विचार उठ रहे थे; जो सम्राटके हृदयमें थे । पौरसभामें नीरवता लगी थी और हृदयतत्त्वकी सूत्रि व्यापिनी अनुभूतियों जो सम्राटके हृदयमें उभर रही थीं; उनका जैसे व्यापक प्रभाव समूचे जन-समुदाय पर पड़ गया था । अन्तर यह था कि सम्राटके हृदयमें अपार क्षोभ था और जनता उसका मात्र अनुभव कर रही थी ।

और कांचनमाला ! यही एक ऐसा हृदय था, जिसमें केवल प्रतिशोधकी आग्नि धधक रही थी और उसे सहानुभूतिपूर्ण किसी भी विचार-धाराका स्पर्श नहीं हो पा रहा था ।

ऊपर लिखा जा चुका है कि पौरसभामें नीरवता लगी गयी थी । सम्राट उठ खड़े हुए और उन्होंने राज्यसिंहासन छोड़ दिया । सारा सभाकी दृष्टि सम्राटकी ओर मुड़ गयी । जन-समुदाय मौन होकर प्रतीक्षा करने लगा सम्राटके कथनका ।

सम्राट बोले—'उपस्थित सज्जनों ! आज पौर-सभाका जो आयोजन हुआ है, उसका एक मात्र उद्देश्य है—कुछ अपराधियोंके भारी अपराध पर विचार करने और उन्हें उचित दण्ड देनेका । आपके समक्ष सभी अपराधी उपस्थित हैं । इनमेंसे एक अपराधी स्वयं राजमांहपी है । मैंने

वृद्धावस्थाम विवाह कर जो अनुचित कार्य किया है, उसके लिए आप सभीसे क्षमा चाहता हूँ ।' कहते हुए हाथ जोड़कर सम्राटने मस्तक झुका दिया ।

सम्राट पुनः कहने लगे—'इस विवाहके कारण माता-पितामें अपार भक्ति रखनेवाले युवराज कुखालको जो यातना भोगनी पड़ी, उस पर अभी आप सबके समक्ष आमात्यश्रेष्ठ प्रकाश डालेंगे । अपराधियोंके महान् अपराधके कारण जो अपार कष्ट देवी कांचनमालाको हुआ है, वह अन्वर्णीय है । अतः इस कारण दण्ड देनेका अधिकार कांचनमालाको ही दिया जा रहा है, वहाँ आपके समक्ष राजसिंहासन पर बैठकर न्याय करेगी । उठो बेटी ! तुम्हारे लिए राजसिंहासन रिक्त पड़ा है ।'

कांचन उठी और सिंहासन पर जा बैठी ।

'आमात्यश्रेष्ठ !' बोली कांचनमाला ।

'आज्ञा देवि !'

'अभियोगकी कार्यवाही प्रारम्भ कीजिए ।

'जो आज्ञा !' कहकर आमात्यश्रेष्ठ उठ खड़े हुए । सचकी दृष्टि वृद्ध आमात्यश्रेष्ठकी ओर चली गई । वे अभियोग-पत्र पढ़ने लगे । हृदय धाम कर जनतान उसे सुना । आमात्यश्रेष्ठने सम्पूर्ण अभियोग-पत्र पढ़कर सुना दिया और कहा—'अपराधियोंको दण्ड सुनाइए ।'

सब लोग कांचनमालाकी देखने लगे । कांचनमाला उठ खड़ी हुई । जनताका उत्कण्ठा प्रचल ही गयी । कांचन बोली—'अपराधों तक्षशिला-धीशके अपराधका निर्णय यद्यपि तक्षशिलामें ही हो चुका था, किन्तु यहाँ आने पर उसका और भी महान् अपराध प्रमाणित हुआ है । अतः उसके दण्डमें और वृद्धिको जा रहा है ।'

तक्षशिलाधीश काँप गया ।

कांचन बोली—'अपराधों तक्षशिलाधीशका एक हाथ और एक पैर काट लिया जाय तथा दोनों कानों और नेत्रोंमें तप्त धातु डाल दी जाय ।'

प्रजाजनोंमें कितनोंका कलेजा घोर दण्ड सुनकर काँप गया और कितने हाँ हृदयोंने तक्षशिलाघोशके अपराधको गुरुताका स्मरणकर प्रसन्नता का अनुभव किया ।

कांचनमाला पुनः बोली—‘अपराधी रुद्रसेनका भी अपराध गुरुतर है अतः उसके भी एक हाथ, एक पैर काट लिए जायँ तथा नेत्रोंमें वही तप्तघात डाली जाय ।’

कांचन पुनः कहने लगी—‘अपराधिनी तिष्यरक्षिता ? जिसके द्वारा सभी अपराधी प्रेरणा पाकर अपराध करनेमें प्रवृत्त हुए, अतः इसका अपराध सबसे महान् है ।’ कहते हुए कांचनमालाकी आकृति संपावेगमें अत्यन्त अरुण हो गयी । स्वने एक बार तिष्यरक्षिताकी ओर दृष्टि फेरी और दूसरी बार कांचनमालाकी ओर ? सम्राट अशोक मौन थे, उनकी दृष्टि नीचेकी ओर स्थिर थी, यह भी सभीने देखा । तिष्यरक्षिता मौन थी, स्थिर दृष्टिसे नीचेकी ओर वह भी देख रही थी; क्या वह सोच रहा थी कुछ नहीं कहा जा सकता; किन्तु सभीने देखा अपना नाम कांचनमाला द्वारा सुन कर वह सिद्धर गयी ।

कांचनमाला बोली—‘और आमात्यश्रेष्ठ ! अपराधिनी तिष्यरक्षिताके अपराधसे सबका हृदय दुःखी है, अतः इसे दण्ड दिया जाता है—दोनों नेत्र लौह तप्त शलाकाएँ धुसेड़कर फोड़ दिए जायँ, उसे एक वृत्तमें उलटा टाँग दिया जाय । नीचे अग्नि प्रखलितकी जाय, जले हुए अंगों पर नमक छिड़ककर पीड़ा बढ़ा दी जाय और मेरे घोड़ेकी पूँछमें उसे बाँधकर सारे नगरमें घसीटा जाय और यह अन्तमदण्ड तब तक चलता रहेगा, जबतक वह जीवित बची रहे । मर जाने पर उसे घोड़ेकी पूँछसे अलग कर दिया जाय ।’

‘सम्राटदेवको असह्य पीड़ा हुई, कठिन दण्ड सुनकर । उनका हृदय काँप गया, क्योंकि अब भी उनके हृदयमें तिष्यरक्षिताके लिए कुछ स्थान था । सम्राट कुछ भी बोल नहीं सकते थे । प्रजामंडलमें भी किसीका साहस

न था, जो दरद कम करा सकता ।

कांचन बोली—‘महाबलाधिकृत !’

‘आज्ञा देवि !’ मस्तक नवाकर बोला महाबलाधिकृत ।

‘अपराधियोंके दरदकी व्यवस्था शीघ्रकी जाये और अन्य अपराधियों-
को जो इस षडयन्त्रमें भाग लिए थे, आजीवन कारागारमें डाला जाय ।’
कहा कांचनमालाने ।

‘ऐसा ही होमा देवि !’ महाबलाधिकृतने कहा ।

पौर-सभा विसर्जित हो ही रही थी कि प्रजामंडलने महात्मा यशके साथ युवराज कुशाल और उनके नेत्रोंकी चिकित्सा करनेवाले वैद्यको आते देखा । सभाने आँखों पर पट्टी बँधी वैद्यवरके कंधों पर हाथ रखकर आते हुए कुशालको देखा, जो महात्मा यशके पीछे-पीछे चले आ रहे थे । महात्मा यश कुशालको लेकर सम्राटके निकट पहुँचे । सम्राट अशोक-वर्द्धनने आसन छोड़ दिया और महात्माका चरण स्पर्शकर अपने आसन पर बैठाया । कुशालको दौड़कर सम्राट हृदयसे लगा विलाप करने लगे । वह करुण दृश्य देखकर प्रजाकी आँखोंमें भी आँसू आ गया । महात्मा यशका चरण स्पर्श आम्रात्यश्रेष्ठ और देवी कांचनमालाने भी किया । कांचनने कुशालका भी चरण स्पर्श किया ।

‘मुझे यहाँ पहुँचनेमें बड़ा विलम्ब हो गया सम्राटदेव ! सभाकी कार्य-
वाही प्रारम्भ अभी तक नहीं हुई !’ पूछा महात्मा यशने ।

अत्यन्त खिन्नमन थे सम्राटदेव । शोकावेगके कारण वे कुछ भी न बोल सके । आम्रात्यश्रेष्ठने दरदज्ञा जो अपराधियोंके लिए घोषितकी गयी थी, सुना दिया । मौन थे महात्मा यश और कुशाल भी ।

थोड़ी देरमें युवराज कुशाल बोले—‘अब चलना चाहिए महात्मन् !’

सम्राट अशोक, आम्रात्यश्रेष्ठ और कांचनमालाने सोचा था—कुशाल अब महात्मा यशके साथ आए हैं और पुनः शासनकी बागडोर अपने

हाथोंमें लेंगे, किन्तु जब वे वहाँसे जानेके लिए प्रस्तुत हुए, तब सबको आश्चर्य हुआ ।

सम्राट रो पड़े और गला साफकर बोले—‘युवराज ! बेटा कुणाल ! मुझे क्यों अनाथ कर रहे हो ?’

‘युवराज नहीं, अब मैं भिक्षु कुणाल हूँ । राज्य नहीं, मुझे भिक्षा चाहिए ।’ कुणालकी बातोंसे सम्राटदेवके हृदय पर महान् आघात पहुँचा । वे स्थिर नहीं रह सके, उनका हृदय फट रहा था । वे मूर्च्छित हो गए ।

कुणाल पुनः बोले—‘महात्मन् ! चलिए यहाँसे । मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता ।’

कांचन बोली—‘युवराजदेव ! आपके वियोगमें श्रीसम्राटदेवको महान् व्यथा पहुँची है, अतः आप रुकिए और उनका शोकावेग दूर कीजिए ।’

‘देवी कांचनमाला ! जहाँ शान्तिके स्थान पर क्रान्ति ही प्रबल है, वहाँ क्षणभर भी मैं नहीं रुकना चाहता । तुम्हारे हृदयमें हिंसाकी कामना प्रबल है । भला मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ ? हाँ यदि तुम लोगोंकी हमारे ऊपर सद्भावना है, तो मैं यहाँकी भिक्षा ग्रहण कर लूँगा ।’

‘भिक्षा नहीं, यह साम्राज्य ही तुम्हारा है वरस कुणाल !’ सम्राटदेव सचेत होकर बोले । उनकी हिचकिचाँ बँध गयी थीं ।

‘मेरी आकांक्षा पूरी करें सम्राटदेव ! मैं जो चाहता हूँ ।’ कुणाल बोले ।

‘तुम्हारी क्या आकांक्षा है वरस; बोलो ।’

कुणाल उच्च स्वरमें कहने लगे—‘श्रीसम्राटदेवसे निवेदन है कि अभी-अभी देवी कांचनमालाने अपराधियोंका जो न्याय किया है, वह हमें अमान्य है । माता तिष्यरक्षिताको हम क्षमा करना चाहते हैं और इसी प्रकार तक्षशिलाधीश, रुद्रसेन तथा अन्य अपराधियोंको भी । श्रीसम्राटदेव

यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हैं; तो मुझे यही भिक्षा चाहिए। मेरी याचना पूरी हो।’

‘किन्तु ऐसा नहीं हो सकता देव !’ कांचन बोली।

‘देवी कांचनमाला ! अपराधियोंने जो अपराध किया है; वह मेरे साथ हुआ है, जिसे मैं क्षमा करता हूँ।’

‘भिक्षुप्रवर ! आपके साथ जो अपराध किया गया है, वह क्षमा हो सकता है; किन्तु कांचनके साथ जो उसके पतिकी दुर्दशाकी गयी है, प्रजाके युवराजके साथ जो अपराध किया गया है, वह कैसे क्षमा हो सकता है ? कैसे क्षमा होगा एक पिताके पुत्रके साथ जो अपराध किया गया है और एक पुत्रके पिताके साथ जो अन्याय, जो षडयन्त्र किया गया है, वह कैसे क्षमा हो सकता है ? क्षमा करानेवालेको कांचनके, प्रजाके, सम्राट-देवके और सम्प्रतिके हृदयके धावको, व्यथाको भी देखना चाहिए ! भला कैसे अपराध क्षमा हो सकता है देव !’

‘इसलिए कि अपराधोका सर्वश्रेष्ठ दण्ड क्षमा ही है देवि ! माता तिष्यरक्षिताको हम क्षमा कर रहे हैं और उसके सहायकोको भी। बोलिए सम्राटदेव ?’ कुशालने कहा।

सम्राटदेव मौन थे। कांचन पुनः बोली—‘अपराधियोंको यदि क्षमा किया भी जाय तो उनके नेत्र फोड़ दिए जायें।’

‘यह क्यों ? इसलिए कि मेरे नेत्रोंकी ज्योति जो नष्ट हो गयी थी ? नहीं, नहीं; ऐसा न सोचो देवि ! मेरी आँखें वैद्य प्रवरकी चिकित्सासे ठीक हो रही हैं क्यों वैद्यज्ञा; आँखोंकी पट्टी खोलकर दिखा दूँ ?’

सारी जनताने हर्षनाद किया वैद्यवरने स्वतः अपने हाथोंसे पट्टी खोली आँखें कुछ-कुछ ठीक होरही थीं। वैद्यवर बोले—‘आँखोंकी ज्योति पहले जैसी तो नहीं होगी; किन्तु कुछ न कुछ अवश्य ठीक हो जायगी।’ पुनः पट्टी बाँधकर वह खड़ा हो गया।

‘महाबलाधिकृत !’ बोले कुशाल।

‘आज्ञा देव !’ मस्तक नवाकर महाबलाधिकृत बोला ।

‘अपराधियोंको छोड़ दो, उन्हें क्षमा किया गया ।’

‘जो आज्ञादेव !’ कहकर बन्दियोंको महाबलाधिकृतने उन्मुक्त करा दिया ।

प्रजामंडलने जय-घोष किया और पौरसभाका कार्यक्रम समाप्त हुआ । सभी अपने-अपने स्थानको लौट पड़े ।

सभी अपराधी पश्चात्ताप करते हुए आकर कुशालके चरणों पर गिर पड़े और बोले—‘देव ! हम जीकर ही क्या करेंगे ? हमसे आपका महान् अपराध हुआ है !’

‘नहीं, नहीं उठो; जीवित रहकर संसारकी माया ममता त्यागकर भगवान् तथागतकी शरण ग्रहण करो तुम्हारा चित्त शान्त हो जायगा ।’

‘रोग, शोक सुख-दुःख सबको होता है, किन्तु धैर्यवान् पुरुषको जिसकी ग्रन्थियाँ छूट गयी हैं, उस कष्टसे राग-द्वेष नहीं उत्पन्न होता । यह तो संसारका धर्म है, इसे सहना चाहिए । अतः धैर्य रखो भद्र !’ कुशालने पुनः कहा ।

उसी क्षण सभी अपराधी भिक्षुवेश धारणकर वहाँसे चल पड़े ।

अपराधियोंको क्षमा प्रदानकर कुशाल महात्मा यशके साथ वापस जानेके लिए तत्पर हुए, उन्हें रोकनेकी बहुत बड़ी चेष्टाकी गयी; किन्तु वे रुके नहीं; कुक्कुटाराम विहार महात्मा यशके साथ वापस लौट गए ।



यद्यपि तिष्यरक्षिताको कुशालने क्षमा प्रदान कर दिया था, किन्तु उसने अनुभव किया कि उसके लिए संसारके किसी भी मनुष्यके हृदयमें

स्थान नहीं है। यह विचार करते हुए कुणालका उसे स्मरण हो आया, विश्वमें उसे सभी वृणाकी दृष्टिसे देख रहे थे यदि कोई भी व्यक्ति सहानुभूति रखनेवाला था, तो वह कुणाल थे। यही वह रात्रि दिन सोचा करती। उसे शांति न थी। उसने अत्यन्त दीनताका अनुभव करते हुए प्लानिका अनुभव किया। इसी चिन्तामें धीरे-धीरे वह गलने लगी और थोड़े ही दिनोंमें अत्यन्त कृश हो गयी।

जब कुणाल बड़ी निर्दयतापूर्वक सबकी ममता त्यागकर महात्मा यशके साथ चले गए तब सम्राट अशोक, कांचनमाला आदिको बड़ी निराशा हुई। वे सब बड़े दुःखी हुए। सम्राटदेव तो इधर अत्यन्त मानसिक पीड़ा सहन करते-करते बहुत शिथिल हो गए। प्रायः वे एकान्त-सेवन करने लगे। कभी-कभी देवी कांचनमाला और सम्प्रतिसे वार्त्ता कर वे शांतिका कुछ अनुभव करते। शासनका कार्य सम्राटदेवने कांचनमालाको सौंप दिया था। कांचनमालाने इन सभी घटनाओंकी सूचना दशरथको, जो उज्जयिनीके उपप्रजापति थे, भेज दी और उन्हें शीघ्र राजनगर पाटलिपुत्र उपस्थित होनेका आदेश भेजा।

कुणालको इस तरह अविचल देखकर सम्राटदेवके हृदयमें बड़ी पीड़ा उत्पन्न हुई, वे शोक-ग्रस्त हांगए। तिष्यरक्षिता भी अत्यन्त खिन्न मन अपने भवनमें पड़ी रहती थी। अब सम्राट उससे कुछ भी सम्पर्क नहीं रखते थे। अतः अब तिष्यरक्षिता और सम्राट अशोक भी बड़ा ही नीरस जीवन व्यतीत करने लगे। अब इन लोगोंके जीवनमें कोई आकर्षण शेष नहीं रह सका।

इधर उपर्युक्त घटनाओंसे सम्राटके हृदय पर इतना गहरा आघात पड़ा था कि देखते-देखते वे अत्यन्त वृद्ध प्रतीत होने लगे। उन्हें अत्यन्त शिथिलताका अनुभव होने लगा।

अनेक बार सम्राट, कांचनमाला और आम्रात्यश्रेष्ठने प्रयत्न किया; किन्तु कुणाल राजभवनमें पुनः न लौटे, न लौटे। अन्तमें वे निराश

होकर एकान्तमें बैठे हुए आँसू बहा-बहाकर तड़पते हृदय पड़े रहते। धीरे-धीरे सम्राट अपने जीवनसे निराश होने लगे। उनकी खराब दशा होते देख कांचनको बड़ी चिन्ता हुई। घबराकर वह कुणालके पास पहुँची और उसने निवेदन किया—‘देव ! आपके वियोगमें सम्राटदेवकी दशा अत्यन्त खराब होती जा रही है; अतः चलकर उन्हें ढाढ़स बघाएँ।’

‘मैं वहाँ अब नहीं जा सकता देवि ! मुझे अपने पथसे विचलित करनेका प्रयत्न न करो; और जब तक भगवान् तथागतकी शरणमें न आ जाओगी तब तक तुमसे बातें न करूँगा। जाओ !’

‘सम्राटदेव मरणासन्न हैं देव ! अतः आप अवश्य चलकर उन्हें देख लें।’

‘ऐसा नहीं हो सकता देवि ! मनुष्यका वोर शत्रु मोह ही है अतः उसका उन्छेद करना एक श्रेष्ठ भिक्षुका ही काम है।’

निरुत्तर होकर आँखोंमें आँसू भरे कांचन वापस लौट आई और जो कुछ कुणालने कहा था, सम्राटसे कांचनने निवेदित किया।


कुणालके कथनका सम्राट पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। वे आँहें भरते हुए निश्चेष्टसे हो गए। धीरे-धीरे सम्राटकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गई। उनके समीप खड़े हुए कांचन, दशरथ, सम्प्रति और आमात्यश्रेष्ठ विचारमग्न थे। सहसा थोड़ी देरमें वैद्यवरके साथ कुणाल आकर उपस्थित हुए और उन्होंने सम्राटदेवके मस्तक पर हाथ रख दिया; किन्तु अब बस व्यर्थ था। सम्राट बोल नहीं सकते थे। अब उनका अन्तिम समय निकट था। कुणालके नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा प्रवाहित हो चली। उनके रोते ही सब लोग रो पड़े। सम्राटदेवके उस अन्तिम क्षणमें तिष्यरक्षिता भी आ पहुँची। उसके भी नेत्रोंसे दो बूँद आँसू गिर पड़े।*

सम्राट अशोकवर्द्धनकी मृत्युके पश्चात् दशरथ सिंहासनारूढ़ हुए और

* सम्राट अशोककी मृत्यु २३२ वर्ष ई० पूर्वके लगभग हुई थी।

सम्प्रतिको चौबराज्य पद पर अभिषिक्त किया गया । उसी समय कांचन-माला भी कुणालके साथ तथागतकी शरणमें चली गयी । जाते समय दशरथने कुणाल और कांचनके चरणोंमें प्रणाम किया ।

एक सप्ताहके पश्चात् राजमहिषी तिष्यरक्षिताकी भी मृत्यु होगई । †



† सम्राट अशोकके कुछ समय पश्चात् साम्राज्य दो भागोंमें विभक्त हुआ । पूर्वी भागमें दशरथ जो सम्प्रतिके राजा थे, और पश्चिमी भागमें कुमार सम्प्रति शासन करने लगे । सम्प्रतिकी राजधानी उज्जैन थी ।

शिलालेखोंके आधार पर सम्राट अशोकके सम्बन्धियोंका निम्न परिचय मिलता है :—

पिता—विन्दुसार ।

माता—शुभद्रांगी (उत्तरी गाथा), धर्मा (दक्षिणी गाथा) ।

भाई—सुमन (सुशीम)—जेष्ठ तथा सौतेला भाई । वितासोक—
(तिष्य) सहोदर भाई । महेन्द्र—सौतेला भाई ।

रानियाँ—असंघमित्रा, कारुवाकी, देवी अथवा विदिसा महादेवो शाक्य-कुमारी, पद्मावती, तिष्यरक्षिता ।

पुत्र—महेन्द्र, उज्जैनो, तिवारा (तिवाला), कुणाल (धर्म-विवर्धन) जालौका ।

पुत्री—संघमित्रा, चारुमती ।

दामाद—अग्निब्रह्मा, (संघमित्राका पति, महावंश ५), देवपाल (चारुमतीका पति)

पौत्र—दशरथ (दशलथ-देवानां—प्रियनागार्जुन-गुफा-लेख), सम्प्रति, सुमन (संघमित्राका पुत्र, महावंश १३वाँ प्रकरण)